सूर्योदय : 6:45
सूर्यास्त : 5:14
अधिकतम तापमान : 22.0
न्यूनतम : 10.0

RNI NO : UPHIN/2010/31173

डाक पंजीकरण संख्या:
SSP/LW/NP-422/2014-2016

वर्ष-17 अंक-197 पेज-16
मूल्य : 3 रुपया

लखनऊ, बुधवार, 27 दिसम्बर 2023
13 जमादिउल उस्सानी, 1445 हिजरी

हिन्दी दैनिक

अवधनामा

www.avadhnama.com

यूपी पुलिस भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा तोहफा

आयु सीमा में तीन साल की छूट

- सीएम ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को दिए निर्देश
- 27 से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है।

अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि आयु सीमा में छूट देने के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। दरअसल, सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयु सीमा को लेकर असंतोष पनप रहा था। अभ्यर्थियों की मांग पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त समेत कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने भी आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। वहीं, हाईकोर्ट में भी इस संबंध में याचिका दायर कर दी गयी। सबसे ज्यादा नाराजगी सामान्य वर्ग की आयु सीमा को लेकर पनप रही थी। दरअसल, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गयी है।

सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

पीएम मोदी के नाम हुआ एक और बड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल ने मंगलवार को 20 मिलियन सब्सक्रिप्शन को पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिससे यह शीर्ष वैश्विक नेताओं के बीच सबसे अधिक सब्सक्राइब्ड चैनल बन गया। मोदी अपने वैश्विक और भारतीय समकक्षों से काफी आगे निकल रहे हैं। दूसरे क्रम के नेता ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनोरा हैं, जिनकी ग्राहक संख्या मामूली 6.4 मिलियन है, जो कि मोदी का एक अंश मात्र है। दुनिया भर के नेताओं में तीसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल यूक्रेन के राष्ट्रपति 1.1 मिलियन से काफी पीछे हैं। जबकि सूची में चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के यूट्यूब चैनल पर ग्राहकों की संख्या केवल 794,000 है। इसके अलावा, जब व्यूज की बात आती है, तो दिसंबर 2023 में प्रभावशाली 2.24 बिलियन व्यूज दर्ज करते हुए मोदी का चैनल हावी रहता है।

हमलावरों को पाताल से भी खोज निकालेंगे: राजनाथ

- समुद्री हमलावरों के खिलाफ नौसेना पूरी तरह मुस्तैद

मुंबई। भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस इम्फाल को शामिल कर लिया गया। नौसेना के पोत आईएनएस इम्फाल के कमीशनिंग समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आजकल समुद्र में उथल-पुथल बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के कारण कुछ ताकतवर देशों में ईर्ष्या और नफरत भर रही है। उन्होंने कहा कि मर्चेंट नेवी जहाजों पर हाल के हमलों के बाद भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में अरब सागर में एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमला और कुछ दिन पहले लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हमले को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिसने भी समुद्री पोत को निशाना बनाया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमला करने वाले दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि समुद्री डकैती, ड्रोन हमलों से निपटने के लिए पी-8आई विमान, डोर्नियर्स, सी गार्डियन, हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज संयुक्त रूप से तैनात किए गए हैं।

नौसेना की ताकत बढ़ेगी, रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस इम्फाल पर कहा, भारतीय नौसेना में आईएनएस इम्फाल का शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता दिखाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल और नौसेना की प्रतिबद्धता दिखाता है। इसके निर्माण में सभी हितधारकों की कड़ी मेहनत और समर्पण शामिल है। उन्हें पूरा भरोसा है कि बेड़े में आईएनएस इम्फाल के शामिल होने से भारतीय नौसेना मजबूत होगी।

भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार आज

- पिछड़े वर्ग को मिलेगा ज्यादा प्रतिनिधित्व
- 22 से 25 नाम हो सकते हैं शामिल

जयपुर। प्रदेश की नई भजनलाल शर्मा सरकार का नया मंत्रिमंडल बुधवार को शपथ ले सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण में 22 से 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं और इनमें 8 से 10 मंत्री ओबीसी से होने की संभावना है।

अब तक मंत्रिमंडल के शपथ समारोह की तारीख का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। करीब 22 से 25 मंत्री इस समारोह में शपथ ले सकते हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भजनलाल सरकार का ये मंत्रिमंडल नए और पुरानों का गुडमिक्स होगा।

राजस्थान के मंत्रीमंडल में भी करीब 10 से 12 चेहरों को पहली बार मंत्री के रूप में सामने लाया जा सकता है। नए मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 8 से 10 मंत्री पिछड़े वर्ग से हो सकते हैं। शेखावाटी, मेवाड़, वागड़, मारवाड़ और पूर्वी राजस्थान को नए मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। मंत्रिमंडल नए और पुरानों का मिक्स होगा। इसमें कुछ पहली बार मंत्री बन सकते हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जिनके पास पुराना अनुभव होगा।

सरकार के मंत्रिमंडल मंत्रीमंडल में शामिल होने वाले चेहरों में सबसे मजबूत दावेदार डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, अनिता भदेल, ओटाराम देवासी, गुरवीर सिंह, जगत सिंह, जवाहरसिंह बेडम, बाबा बालकनाथ, जसवंत सिंह, जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत, छोटू सिंह, किशन कुमार बिश्नोई, केसाराम चौधरी, गजेंद्रसिंह खींवसर, झाबरसिंह खर्रा, प्रताप भील, फूलसिंह मीणा, बाबू सिंह राठौड़, भागचंद टेकड़ा, मदन दिलावर, शंकर डेचा, हरलाल सहारण, विश्वनाथ मेघवाल के नाम प्रमुख हैं। इनमें किरोड़ीलाल मीणा, अनिता भदेल, गोवर्धन बाबू सिंह राठौड़, मदन दिलावर, ओटाराम देवासी, जसवंत सिंह पहले मंत्री रह चुके हैं।

पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर बात की

गाजा में जारी रहे मानवीय सहायता: मोदी

- पश्चिम एशिया की स्थिति पर जताई चिंता
- शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति
- जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे प्रिंस सलमान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की।

पीएम ने अपनी बातचीत में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य को लेकर चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने इजराइल-हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की। दोनों शीर्ष नेताओं ने युद्ध में आतंकवाद और लोगों की मौत को लेकर चिंता जताई।

इस दौरान पीएम मोदी और मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अच्छी बातचीत हुई।

हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया और आतंकवाद, हिंसा और नागरिक जीवन के नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया और प्रभावित आबादी के लिए मानवीय सहायता जारी रखने का आह्वान किया। दोनों नेता क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही पर भी जोर दिया। इस साल की शुरुआत में प्रिंस सलमान नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की थी।

बच्चा पैदा करने के लिए जेल से बाहर आएगा कैदी: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। आजीवन कारावास की सजा काट रहे सजायाफ्ता कैदी को राहत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि माता-पिता बनने का अधिकार एक दोषी का मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ याचिकाकर्ता को वंशवृद्धि के लिए चार सप्ताह की पैरोल देते हुए स्पष्ट किया कि यह अधिकार पूर्ण नहीं है, बल्कि संदर्भ पर निर्भर करता है। कैदी के माता-पिता की स्थिति और उम्र जैसे कारकों पर विचार करके एक निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। अदालत ने साथ ही निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता कुंदन सिंह उत्तराखंड के नैनीताल के बाहर अदालत की पूर्व अनुमति के नहीं जाएगा।

कोहरे से थमी वाहनों की रफ्तार

शीतलहर से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में घना कोहरा, उड़ानें प्रभावित

- थमी ट्रेनों की भी रफ्तार
- दो दिन और रहेगा घना कोहरा

नई दिल्ली। उत्तर भारत में मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। घने कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ सड़कों पर हल्का कोहरा भी नजर आया। सुबह के वक्त यमुना के किनारे कोहरे की परत नजर आई।

सर्द मौसम की वजह से रेल गाड़ियों की अधिकतम गति 15 से 20 किलोमीटर हो गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया रहा। वहीं ओडिशा में हल्का और त्रिपुरा में मध्यम कोहरा छाया रहा। सुबह साढ़े आठ बजे के करीब 200 मीटर से कम दृश्यता पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला, हरियाणा के अंबाला, हिसार, करनाल में रही। भिवानी में 50, रोहतक में 200, दिल्ली के पालम में 50, सफदरजंग में 200 और वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी और वाराणसी में 25, मेरठ और लखनऊ में 50, बरेली में 200 दृश्यता रही। सुबह के समय आईजीआई हवाईअड्डे पालम पर घना कोहरा छाया रहा। सामान्य दृश्यता 50 मीटर रही और अधिकांश हवाईअड्डे के आरवीआर सीमा पर हैं। बीते दिन दिल्ली और कश्मीर से लेकर सुदूर दक्षिण के तेलंगाना और दक्षिण पूर्व के ओडिशा तक 11 राज्यों में कोहरे के कारण रफ्तार थम गई। दृश्यता में भारी कमी से सड़क से लेकर रेल व हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली से आठ उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना में सड़क हादसों में 19 लोगों की जान चली गई।

ठंड की दोहरी मार

जम्मू-कश्मीर में घने कोहरे और ठंड की दोहरी मार पड़ी है। श्रीनगर में सोमवार सुबह दृश्यता 100 मीटर से कम रही। बर्फबारी से श्रीनगर समेत प्रमुख स्थानों पर पारा शून्य से नीचे रहा। माइनस 4.3 डिग्री के साथ पहलगाम सबसे ठंडा रहा। राजधानी दिल्ली समेत आगरा, प्रयागराज और ग्वालियर में घने कोहरे के कारण सुबह आठ बजे दृश्यता शून्य दर्ज की गई। वहीं, सुबह पांच बजे वाराणसी में 200 मीटर, लखनऊ, सतना, पटना और नागपुर में भी दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई। एनसीआर में भी दृश्यता 500 मीटर से कम ही रही।

आरबीआई और दूसरे बैंकों को बम से उड़ाने की मिली धमकी

मुंबई। मुंबई पुलिस ने बताया है कि आरबीआई को एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में कहा गया था कि आरबीआई कार्यालय, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में बम लगाए जाएंगे। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की गई थी। पुलिस ने बताया कि मुंबई में कुल 11 जगहों पर बम की धमकी दी गई थी। यह धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने खुद के खिलाफत इंडिया से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस ने इन सभी जगहों पर जाकर जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। मुंबई पुलिस को भेजे गए धमकी भरे ईमेल में मुंबई शहर में 11 जगह बम रखे होने की बात कही गई है। ईमेल में कहा गया कि यह धमाका मंगलवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे होने वाला है।

अधर्म के सामने नहीं झुके साहिबजादे: सीएम योगी

- योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर-माथे धारण किया
- सीएम आवास पर गुरुवाणी, अरदास व लंगर का आयोजन

लखनऊ। वीर बाल दिवस हमें सिख गुरुओं के बलिदान को याद दिलाता है। गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने धर्म और देश की रक्षा के लिए हंसते-हंसते प्राणों की आहुति दे दी। यह इतिहास युवा पीढ़ी तक पहुंचाना होगा, ताकि वे अपने बलिदानियों की गौरवगाथा के बारे में जानें।

ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीएम आवास में आयोजित विशेष संकीर्तन कार्यक्रम के दौरान कहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में गुरु ग्रंथ साहिब का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर-माथे पर धारण कर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में आसीन कराया। इस अवसर सीएम आवास में गुरुवाणी, अरदास एवं लंगर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी को प्रदेशभर से आए सिख प्रतिनिधियों की ओर से सिरोपा भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार साहिबजादों को मिले उसी का परिणाम है कि वे अधर्म के सामने नहीं झुके। धर्म और देश के लिए लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहूति दी। हर युवा और बच्चे को आज का दिन नई प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सिखों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी ने 2020 से लगातार इस बात को उठाया कि भारत के इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाले साहिबजादों को आखिर क्यों विस्मृत कर दिया गया। जिन साहिबजादों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए, उसकी जगह किसी और घटना को बाल दिवस से जोड़ दिया गया।

चार हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए हजार: योगी

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल और जनपद स्तर पर वीर बालकों का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही प्रदेश में सिख गुरुओं से संबंधित सभी स्थलों को चिह्नित करते हुए उनके विकास के लिए कार्य किये जाएंगे। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपने चार-चार पुत्र देश और धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिए। जब गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया कि आपके चार पुत्र शहीद हुए, उस समय उनके मुख से यही निकला था कि चार हुए तो क्या हुआ, जीवित हुए हजार। ऐसे कार्यक्रम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर हैं। उसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिख गुरुओं को नमन करने का आज अवसर है।

नए साल में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम

नई दिल्ली। देश की राजनीति में चुनावी रंग साफ दिखने लगा है। भाजपा ने हाल ही में संपन्न चार बड़े राज्यों में से तीन राज्यों में विजय हासिल कर ली है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश जारी है। ऐसे में पेट्रोलियम सेक्टर में जो तस्वीर बन रही है, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चुनावों से पहले देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी की जा सकती है। वजह यह है कि दिसंबर, 2023 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से औसतन 77.14 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल का आयात किया है। भारत की तरफ से आयातित यह पिछले छह महीने की सबसे कम कीमत है। इस पूरे वित्त वर्ष कच्चे तेल की कीमत सिर्फ दो महीने (सितंबर में 93.54 डॉलर और अक्टूबर में 90.08) ही कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा रही है, जबकि शेष सात महीनों में न्यूनतम 74.93 डॉलर प्रति बैरल और अधिकतम 83.76 डॉलर प्रति बैरल रही है।

विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवॉर्ड लौटाया, पीएम को लिखी चिट्ठी

- सोशल मीडिया के जरिए ताकतवर पर कसा तंज
- हमारे मेडल-अवॉर्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा

नई दिल्ली। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवॉर्ड लौटा दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है।

सोशल मीडिया में अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा मैं अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस कर रही हूं। इस हालत में पहुंचाने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने उस खत की तस्वीर भी शेयर की है, जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है। विनेश से पहले बजरंग पूनिया ने इसी तरह अपना पद्म श्री पुरस्कार वापस लौटाया था। वहीं, साक्षी मलिक पहले ही कुश्ती से संन्यास का एलान कर चुकी हैं। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे। इसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद साक्षी मलिक ने यह कहते हुए कुश्ती से संन्यास ले लिया कि फिर से बृजभूषण जैसा ही चुना गया है तो क्या करें? इसके बाद बजरंग ने पद्म श्री लौटाया और अब विनेश ने अपना खेल रत्न लौटा दिया है। पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह भी अपना पद्म श्री लौटाने की बात कह चुके हैं। विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर अपना खेल रत्न लौटाने की बात कही है। इस खत में उन्होंने लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी है और बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री लौटा दिया है।

प्रधानमंत्री जी, मैं आपके घर की बेटी विनेश फोगाट हूं और पिछले एक साल से जिस हाल में हूं यह बताने के लिए आपको यह पत्र लिख रही हूं। मुझे साल याद है 2016 जब साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतकर आई थी तो आपकी सरकार ने उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जब इसकी घोषणा हुई तो देश की हम सारी महिला खिलाड़ी खुश थीं और एक दूसरे को बधाई के संदेश भेज रही थीं। आज जब साक्षी को कुश्ती छोड़नी पड़ी तबसे मुझे वह साल 2016 बार बार याद आ रहा है। क्या हम महिला खिलाड़ी सरकार के विज्ञापनों पर छपने के लिए ही बनी हैं।

शासन की योजनाओं का गुणवत्तापरक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारीः अजय मिश्रा

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर-खीरी। केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तरीय गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भारत सरकार, खीरी सांसद अजय मिश्र 'टेनी' की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। सांसद ने एक-एक योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की हकीकत भी परखी। मौजूद विधायक ने भी विकास कार्यों को गति देने के लिए अपने सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में तीन फ्लाई ओवर मय एक आरओबी तय समय से पहले पूरा करने,बेहतर प्रबंधन, कामकाज के किए पीडब्ल्यूडी के एनएच खंड के ईई शुभ नारायण की सराहना की।बैठक में मुख्य रूप से विधायक योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, एमएलसी अनूप गुप्ता, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल सिंह, एडीएम संजय सिंह, पीडी एसएन चौरसिया,अध्यक्ष डॉ ईरा श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, पवन गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि राम शंकर राज, राजवीर, निगरानी समिति सदस्य बीना सिंह, गंगाराम, सांसद प्रतिनिधि अरविंद संजय, दीपक तलवार, अंब्रीश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे।केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि जिले में योजनाओं के नियमित अनुश्रवण, समीक्षा से ही केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी जनकल्याणकारी, लाभकारी, फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जिले के लोगों को अधिक से अधिक मिल रहा है। साथ ही साथ विभागीय कामों में खीरी जिले ने एक अलग स्थान बनाया। जिस कारण से खीरी की प्रदेश में अलग पहचान बनी है। मैं चाहता हूं, यह निरंतरता बनी रहे और हम लोग अपने जिले के लोगों की समृद्धि, खुशहाली के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में हम सफल हो। जनपद वासियों के जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं एवं जरूरत बढ़े। इसके लिए हम निरंतरता से काम करें। अफसर जनप्रतिनिधियों के सहयोग, मार्गदर्शन में जिले की इस रफ्तार को जारी रखते हुए गुणवत्ता को और बेहतर बनाएं। यह इस वर्ष की और उनके दूसरे कार्यकाल की अंतिम बैठक है, जो अच्छे वातावरण में संपन्न हुई। यहां डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में अच्छे अधिकारियों की टीम है, जो निरंतर के साथ अच्छे परिणाम दे रही है। इसे आगे भी निरंतर के साथ बनाए रहे।बैठक में डीएसओ अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जिले में राशन कार्ड से 64 फ़ीसदी शहरी एवं 79.01 फ़ीसदी ग्रामीण आबादी संतृप्त है।

उज्जवला में अब तक 5,38961 कनेक्शन जारी किए जा चुके। वर्तमान में उज्जवला 2.0 विस्तारित संचालित है। केंद्रीय मंत्री ने जिले की विभिन्न सड़कों की विस्तृत समीक्षा की। इसपर पीडब्लूडी के सभी खंड के ईई ने उल्लेखनीय कार्यों के साथ-साथ जरूरी जानकारी दी। मंत्री ने निर्देश दिए कि मेंटेनेंस रोड का प्रॉपर रिव्यू करें। जनप्रतिनिधियों ने मंडी की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया। इस पर अफसरो ने सड़कवार प्रगति से अवगत कराया। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान ईई योगेंद्र नीरज ने बताया कि 883 ग्राम पंचायत की सड़क ठीक करवाई, जिसकी सूची सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जा रही। इसपर डीएम ने निर्देश दिए की सूची तभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए। जब आप स्वयं संतुष्ट हो। सभी कार्यों का स्पाट विजिट अवश्य कराए।

सीडीओ ने प्रस्तुत किया योजनाओं का ब्यौरा

बैठक का संचालन करते हुए सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम), पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पीएम आवास योजना (शहरी/ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, एनआरयूएम, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास वृद्धि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे-मिल, पीएम उज्जवला आदि योजनाओं की कार्यप्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया।

जन-जन तक पहुचाए यातायात नियमों की जानकारीः महेंद्र

अवधनामा संवाददाता

लखीमपुर खीरी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं जाने तथा यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार

को कलेक्ट्रेट में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का संयोजन, संचालन पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड (तृतीय) के अधि. अभियंता अनिल कुमार यादव ने किया। डीएम ने जिले में सड़क-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने अधिकारियों को जरूरी कार्यवाई करने के निर्देश दिए। जिले में जहां पर घुमावदार स्थान तथा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां से सौ मीटर पूर्व में साइनेज लगाने के दिशा निर्देश दिया। स्कूली वाहन मानक के अनुरूप होने पर ही संचालित हो। डीएम ने सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके मार्ग पर जितने भी ब्लैक स्पॉट अवशेष हैं, उनका शीघ्र अति शीघ्र सुधारात्मक कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने ब्लैक स्पॉटवार सुधारीकरण कार्य की प्रगति जानी। डीएम ने जिले में घटित दुर्घटनाओ का विश्लेषण करते हुए नए ब्लैक स्पॉट एवं बनरेबल लोकेशन चिन्हित करने के निर्देश दिए। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जिले में ब्लैक स्पॉट के संबंध में रिव्यू करते हुए निर्देश दिए कि पुलिस महकमें से सड़क दुर्घटनाओं का डाटा प्राप्त कर एआरटीओ आलोक कुमार और पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड (तृतीय) अनिल कुमार यादव संबंधित सर्कल के पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ स्थलीय भ्रमण उन स्थलों पर दुर्घटना के कारण की एनालीसिस करते हुए भविष्य में दुर्घटना ना हो इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रभावी कार्यवाही अमल में लाएं।डीएम ने सुझाव दिया कि लिंक मार्ग व मुख्य मार्ग को कनेक्ट करने वाले स्थानों के पास संकेतांक के साथ मानक के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाए। परिवहन-पुलिस महकमे को निर्देश दिया कि नियमित रूप से यातायात नियमों की जानकारी जन-जन तक पहुँचाये जाने के उद्देश्य से वाल राईटिंग, हैण्डबिल्स, होर्डिंग्स व बैनर इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। बैठक में जनपद में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (वनरेबल लोकेशन), स्कूली वाहनों के मानकों अनुरूप होने पर ही संचालन किए जाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में एआरटीओ आलोक कुमार, ईई पीडब्ल्यूडी तरुणेंद्र त्रिपाठी, अनिल कुमार यादव, एआरएम रोडवेज सहित जिला सड़क सुरक्षा समिति के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे।

खीरी में आयुष्मान कार्ड से संतृप्त हुए 57 फ़ीसदी परिवार और 44 फ़ीसदी लाभार्थी, छूटे लाभार्थियों पर फोकस

केंद्रीय मंत्री के पूछने पर सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता ने बताया कि खीरी में अबतक 9.44 लाख गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, जिनसे 57 फ़ीसदी परिवार और 44 फ़ीसदी लाभार्थी संतृप्त हुए। उन्होंने मोबाइल के जरिए आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया समझाई। गत 03 माह में 2.25 लाख कार्ड बने है। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अब तक 55351 गोल्डन कार्ड बनाए गए। इन आंकड़ों को सुनकर जनप्रतिनिधियों ने सराहना करते हुए योजना से छूट लाभार्थियों को जल्द संतृप्त करने की बात कही। इसके लिए पंचायत सहायको का सहयोग भी लिया जाए। विधायक सदर ने बताया कि नकहा ब्लॉक के गांवो में आयुष्मान कार्ड के लिए पंचायत सहायक रजिस्टर मेंटेन कर रहे है। केंद्रीय मंत्री ने इसे पूरे जिले में लागू करने के निर्देश दिए।

रिकॉर्डः एनएच ने 15 महीने में पूरा किया तीन फ्लाईओवर मय एक आरओबी का निर्माण, जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के समक्ष पीडब्लूडी एनएच खंड के ईई शुभ नारायण ने बताया कि तीन फ्लाई ओवर मय एक आरओबी 18 माह में बनना प्रस्तावित था। विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद और राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता परवेज अहमद द्वारा कार्य प्रारंभ से कार्य समाप्ति तक हर माह व्यक्तिगत रूप से इसकी समीक्षा की इस कारण इस काम को महज 15 माह में पूरा किया गया। इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने मेज बजाकर इस उपलब्धि की सराहना की। यह भी उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने गत 07 दिसंबर को निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि काम को तुरंत पूरा किया जाए। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में संपूर्ण कार्य को 10 दिसंबर तक पूरा कर लिया गया। फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण न हो इसके लिए सौंदर्यकरण कराए जाने पर जरूरी जानकारी दी।एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइंस में एक ट्रांसफार्मर और हाईमार्क्स लाइट प्रदान करने पर जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। बताया कि खीरी जिले में पांच नए थाने (मझगई, पदुआ, शारदानगर, खमरिया, उचोलिया) ऑपरेशनल हो गए हैं। भारत-नेपाल सीमा पर पुलिसिंग भी बढ़ाई है। डीएम ने जिले में एडीएम, एएसपी के एक-एक अतिरिक्त पद और सिटी मजिस्ट्रेट के पद के सृजन की आवश्यकता को रेखांकित किया। डीएम ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, शौचालय समेत अन्य फ्लैगशिप योजना में कोई भी शिकायत हो तो बताए। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई शिकायत नही की।विधायक मंजू त्यागी ने नरहर, जंगल नंबर 11, रामपुर गोकुल गांव में अवैध जमीन जोतने का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि अवैध जमीन को खाली कराकर वहां गौशाला बनवाई जाए। विधायक ने पीडब्लूडी अफसरो से रुकुंदीपुर और महेवागंज में रिफ्लेक्टर और फ्लोरोसेंट की मांग की। जिस पर सीडीओ ने 48 घंटे के भीतर कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। ग्राम धोबहा को सौभाग्य फेज-3 के सर्वे में शामिल करने की बात कही। एमएलसी अनूप गुप्ता ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में संबंधित विभागों के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने की बात कही।बैठक में समिति के नामित सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व उनके प्रतिनिधियों ने जनसमस्याओं के बारे में चर्चा कर समाधान के बारे में विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक के अंत मे महेंद्र बहादुर सिंह ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि आज की बैठक में जो भी मार्गदर्शन करते हुए निर्देश दिए है, उनका पूरे प्रशासन की ओर से पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

सी ओ अरुण कुमार सिंह ने थाना मोहम्मदी में अपने अधीनस्थों के साथ की मीटिंग, अपराध अपराधियों को लेकर की समीक्षा

अवधनामा संवाददाता

मोहम्मदी-खीरी। सी ओ अरुण कुमार सिंह ने थाना मोहम्मदी में अपने अधीनस्थों के साथ मीटिंग की।और

अपराध अपराधियों को लेकर समीक्षा की। लम्बित विवेचना ओ को शीध निस्तारण के निर्देश दिए।बैठक में शामिल पुलिस जनों को सख्त हिदायत दी गई कि यातायात के नियमों का पालन अवश्य करिए और कराइये।सी ओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह के कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि न्यायालय से जारी समन वारंट कुर्क के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। सी ओ मोहम्मदी ने साफ तौर पर कहा कि यातायात नियमों में ढील किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं है सी ओ मोहम्मदी सिंह ने कहा कि जान है तो जहान है वाहन चलाते समय पर हेलमेट अवश्य ही लगायें जिससे सड़क दुघर्टना ओ में अंकुश लगेगा और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करे। रात्रि दौरान गस्त बढाये जाने पर जोर दिया । चेकिंग अभियान से लोगों में हड़कंप मच गया है।

हादसे को दावत दे रहा विद्युत विभाग

डलमऊ, रायबरेली। डलमऊ विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही के सामने नजर आई है प्रयागराज रोड के किनारे बनी एलटी रोड लाइन के तार पटरियों को छू रहे है इतना ही नही बिजली के तार कहीं पर पेड़ के सहारे लटकती दिखाई देते हैं तो कहीं पर जमीन को छू रहे आसपास के निवासी वहीं सड़क किनारे बकरी गाय भैंस आदि जानवरों को चराने आते हैं इतना ही नहीं पास में महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल भी है जिससे स्कूली बच्चों का भी आना-जाना रहता है जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है लेकिन विद्युत विभाग को अपनी यह कमी नजर नहीं आती प्रयागराज से कानपुर को जोड़ने वाला यह मार्ग इतना बिजी रहता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है लेकिन विद्युत विभाग की नजर इन लटकते तारों की तरफ नहीं जा रही है कि इसको सही कराए इसी के चलते बिजली कभी-कभी गुल रहती है जिससे गांव वालों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ग्राम वासियों ने कई बार इस समस्या की शिकायत विद्युत कर्मियों से की लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई

मोहम्मदी-खीरी। ब्लॉक क्षेत्र के एक गांव के पूर्व प्रधान ने गांव मे जल जीवन मिशन के तहत बनाए जाने वाले वाटर टैंक को न बनाए जाने और उनकी ग्राम पंचायत को 7 किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम पंचायत से संबंद्ध किए जाने का विरोध करते हुए संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत करने से एसडीएम और मौजूद डीएम द्वारा सार्वजनिक रूप से जेल भेज देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।ग्राम पंचायत पालचक के पूर्व प्रधान अश्वनी शुक्ला पुत्र वीरेंद्र शुक्ला निवासी परक्षिया द्वारा जनहित में दिए गए शिकायती पत्र में बताया परियोजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए बनाए जाने वाले वाटर टैंक को जल जीवन मिशन के अधिकारियों द्वारा दुरभि कर उनकी उनकी ग्राम पंचायत को जलापूर्ति के लिए 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भोगियापुर से संबद्ध कर जबरन पाइपलाइन बिछाये जाने का आरोप लगाते हुए आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र दिया था। जिस पर दोनों उच्च अधिकारियों ने भरे सदन में सार्वजनिक रूप से जेल भेज देने की धमकी दे दी। जिससे सभी ग्राम प्रधानों में रोष फैल गया है। अधिकारियों के खिलाफ न्याय के लिए मुख्यमंत्री समेत उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। एसडीएम डॉ अवनीश कुमार के अनुसार उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। वह प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय से बाहर हैं।

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। थाना सिंगाही पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त मुअज्जम उर्फ भोलू पुत्र आजाद निवासी ग्राम घोसयाना थाना सिंगाही जनपद खीरी को को उसके घर ग्राम घोसियाना थाना सिंगाही जनपद खीरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा वारण्टी अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

तेज रफ्तार कार ने दो मोटरसाइकिल सवारों को मारी टक्कर

लखीमपुर खीरी। थाना खीरी क्षेत्र के लहरपुर मार्ग पर मरखापुर मोड़ के पास हुई दुर्घटना में अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार कार ने दो मोटरसाइकिल सवारों को मारी टक्कर हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा

हाइड्रा पलटने से चालक की मौत

लखीमपुर खीरी। हाइड्रा पलटने से चालक की मौत चालक राजू पुत्र कढ़ीले निवासी शिवलाल पुरवा (निघासन) का रहने वाला है मृतक लखीमपुर जाते समय हाइड्रा पलटने से मौत थाना शारदा नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मइनर कटने से फसल डूबी

डलमऊ, रायबरेली। नरेंद्र पुर माइनर कटने से लोगों की सैकड़ो बीघे फसल जलमग्न हो गयी है। कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्यवाही न होने से लोग नाराज हैं।

डलमऊ तहसील क्षेत्र के बनापार, दुर्गापुर आदि में नरेन्द्रपुर के पानी ने तबाही मचाई हुई है। ग्रामीण अनूप, रामसनेही, विकास , अशोक आदि ने बताया कि सैंकड़ो बीघे फसल जलमग्न है।बनापार दुर्गापुर तिराहे पर कई बीघे गेंहू व सब्जी की नुकसान हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों की बेरूखी से लोगों में आक्रोश है। उपजिलाधिकारी अभिषेक वर्मा बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तत्काल सिंचाई विभाग के अधिकारियो को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

ग्राम चौपाल की वर्षगांठ पर जनपद में आयोजित होंगे भव्य कार्यक्रम

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। जिलाधिकारी डॉ.दिनेश चन्द्र ने ग्राम चौपाल के अन्तर्गत गांव की समस्या गांव में समाधान आयोजित कार्यक्रम के सफलता पूर्वक 01 वर्ष, दिसम्बर 2023 के अंतिम सप्ताह में पूर्ण होने एवं इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम में पहली वर्षगांठ को भव्यता पूर्ण ढंग से मनाया जाए।

डॉ.दिनेश चन्द्र ने निर्देश दिए कि इस हेतु 28 दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2023 तक तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराए जाएं। उन्होने बताया कि 28 दिसम्बर को ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील एवं जनपद स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जिसके नोडल अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। 29 दिसम्बर को विशेष चौपाल का आयोजन कराया जाएगा। इस हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी नोडल होंगे। 30 दिसम्बर को जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनपद मुख्यालय पर एक मेले का आयोजन किया जाए जिसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को स्टाल लगाकर प्रदर्शित किया जाए। इसी के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की जाए जिसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु, अमृत सरोवर के निर्माण के पश्चात उसके रख-रखाव तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। इस अवधि में प्रशंसनीय कार्य करने वाले खण्ड विकास अधिकारी, सहायक एवं ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्र प्रमुख तथा ग्राम प्रधान सम्मानित किये जाएंगे।

राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने का जज्बा देती है साहबजादों की शहादतः महापौर

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। महापौर डॉ. अजय कुमार का कहना है कि आज का दिन हमें न केवल वीरों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है बल्कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर उसकी एकता-अखण्डता को बनाये रखने और उसे नमन करने की भी प्रेरणा देता है। चार साहबजादों की शहादत और सिख धर्म की राष्ट्रीयता को नमन करते हुए महापौर ने कहा कि साहबजादों की शहादत हमें अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर अडिग रहने तथा अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने का जज्बा देती है। उन्होंने कहा कि ऐसे शहीदों के कारण ही आज भारत आजादी का अमृतकाल मना रहा है। महापौर ने कहा कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं एक जीवंत व्यवस्था और शाश्वत सांस लेता हुआ राष्ट्र है।

महापौर आज गुरु नानक ब्वायज इण्टर कॉलेज में आयोजित वीर बाल दिवस समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चार साहबजादों और उनके बुजुर्गों ने आक्रांताओं से लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने बच्चों को साहबजादों की शहादत और राष्ट्रीयता का महत्व बताते हुए

अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में उन छात्रों के चित्र पटल पर लगाये गए है जिन्होंने बड़े पदों पर सुशोभित होकर कॉलेज और शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे भी तन्मयता से शिक्षा प्राप्त कर अपना लक्ष्य प्राप्त करें ताकि उनके चित्र भी कॉलेज के पटल पर लग सकें। इससे पूर्व गुरुसिंह सभा के प्रधान बलबीर सिंह धीर, दलजीत कोचर, एम पी सिंह चावला, बलविंदर सिंह लाडी, मोहन सिंह, सुरेंद्र मोहन चावला व दीदारसिंह सेठी आदि ने महापौर का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली छात्रों ने गीत व बांसुरी वादन की प्रस्तुति दी। बच्चों ने श्री गुरुग्रंथ साहब का पाठ कर माहौल को श्रद्धामय बना दिया। महापौर ने स्कूल की ओर से बच्चों को स्वेटर भी वितरित किये। कार्यक्रम में यशपाल त्रेहन, पंकज बजाज व हनी वर्मा आदि मौजूद रहे।

संकल्प वेलफेयर सोसायटी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा में आंगनवाड़ियों को शिक्षा सामग्री वितरित की गई

अवधनामा संवाददाता

गाजियाबाद। शिक्षा से ही समाज को विकसित किया जा सकता है।ये कहना तो बहुत लोगो का है।लेकिन उस पर कार्य सभी नही करते। समाज सेविका रीता देओल हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देती रहती है। वो हमेशा सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग देती रही है। उन्होंने अब तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले या फिर आर्थिक रूप से कमजोर लगभग 450 बच्चो को शिक्षा सामग्री वितरित की है।और 12 आंगनवाड़ी को भी सामग्री दे चुकी है। इस बार उन्होंने बम्हेता में स्थित 20 आगनवाड़ी के बच्चो और आंगनवाड़ी में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे पेंसिल,कॉपी,किताब,कलर बॉक्स, कलर ब कलर की किताब, व्हाइट बोर्ड, चार्ट पेपर एवम खेल सामग्री वितरित की।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद अनिल अग्रवाल जी, नगर अपर आयुक्त गाजियाबाद, पार्षद वार्ड 42 सीडीपीओ, भाजपा नेत्री उदिता त्यागी एवम अन्य लोग उपस्थित रहे।

यह कार्यक्रम आदित्य वर्ल्ड सिटी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में संपन्न हुआ। रीता देओल संकल्प वेलफेयर सोसायटी की प्रेसिडेंट है। और उनके कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने आगनवाड़ी अधिकारी शशि वार्ष्णेय, समस्त नगर निगम अधिकारियों एवं अपनी टीम रजनी तोमर, भर्ती अग्रवाल, मधु ,अर्चना शर्मा, सीमा गौतम ,किरण झा, गौरव अरोड़ा का धन्यवाद व्यक्त किया।

नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह से ग्लोरियस एकेडमी में मनाया गया

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। (अहमद रज़ा) लगातार विभिन्न क्षेत्रों में सोशल नेटवर्किंग मैं सरगरम सिविल सोसाइटी नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी का वार्षिक उत्सव हमेशा की तरह आज भी यहां सैकड़ों ज़िम्मेदार लोगों के दरमियान बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, इस अवसर पर एम एल सी शाहनवाज शब्बू समाजवादी वरिष्ठ नेता मैडम रूही अंजुम, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक पुंडीर, एस यू खान सहित वरिष्ठ पत्रकार , वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ अधिवक्ता और शिक्षा क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने वाले दर्जन भर लोग शारीक रहे अध्यक्षता श्री अशोक मलिक व श्री संजय राणा ने की कार्यक्रम का संचालन असजद खान व मो इमरान ने किया मुख्य अतिथि शाहनवाज खान एमएलसी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संस्था

अपने नाम के अनुरूप उद्देश्य के प्रति सजग है, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी कर रही है वह अतुल्य है उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रतिभा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें हजारों बच्चों को सम्मिलित कर उन्हें पुरष्कृत किया जाता है तथा वार्षिक उत्सव में समाज सेवायों को उनके क्षेत्र में कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है पूर्व बार अध्यक्ष श्री अशोक पुंडीर ने संस्था के कार्यों की सलाह करते हुए कहा की मलिन बस्ती में जिस प्रकार शैक्षिक कार्यों को प्रोत्साहन संस्था कर रही है वह साहनी है और अपना भरपूर सहयोग संस्था को देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में श्री बिलाल सहारनपुरी, जावेद खान सरोहा, शाहनवाज़ पप्पी को कला क्षेत्र के लिए, रूही अंजुम, श्री शहजाद अली, सैयद सलमान, अमजद पीर, अहमद नियाज, महताब अली, एडवोकेट मशरूर मलिक, एडवोकेट एहतेशाम कुरैशी, एडवोकेट सदाकत खान , हादिया गौर व हीना चौधरी को सामाजिक कार्यों के लिए डा अलीम, डॉक्टर शराफत, अमर हक़ राणा को मेडिकल क्षेत्र में, सरवत जमाल, वजाहत खान, सरफराज खान, मुजाहिद नदीम, हीरा नबी, हम्मैद खान,श्री गय्युर अहमद, मोहम्मद अहमद खान, मसरूर मिर्जा, ख्वाजा अफनान, आसिम मलिक, सुरैया कौसर, केपी सिंह को शिक्षा क्षेत्र में मुस्तकीम राव, अहमद रजा, काशिफ खान,सैयद अतहर हुसैन, शाहनवाज खान, अहमद खान, अबरार अहमद, मोहम्मद साजिद, शहजाद फसी को पत्रकारिता क्षेत्र में कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। मुदस्सिर नदीम को ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रतिभा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए नेशनल मुस्लिम अकैडमी, दा ग्लोरियस एकेडमी, मदर फातिमा स्कूल, आयशा मॉडल स्कूल, सलाम पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सल एजुकेशन एकेडमी, अल्लामा अकैडमी, दा क्रीसेंट पब्लिक स्कूल, सेंट फातिमा स्कूल, न्यू पैरामाउंट स्कूल, लिटिल स्कॉलर स्कूल, अल अमीन एंग्लो अरेबिक स्कूल को व इन स्कूल के सैकड़ो बच्चों को सम्मानित किया गया।

नगर निगम ने उ.प्र. स्थानीय निकाय निदेशालय का स्थापना दिवस मनाया

अवधनामा संवाददाता

सहारनपुर। नगर निगम द्वारा आज स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान निगम के अनेक पार्कों में विशेष साफसफाई व सौंदर्यीकरण् अभियान चलाया गया और शहर के प्रमुख चौराहों-तिराहों को रंगोली से सजाया गया। इस अवसर पर निगम के अधिकारियों ने अनेक कर्मठ सफाई कर्मियों एवं मालियों का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन भी किया। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निदेशालय की स्थापना वर्ष 1973 में की गयी थी। निकाय निदेशालय के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में आज स्थानीय निकाय निदेशालय का स्थापना दिवस मनाया गया। नगर स्वास्थय अधिकारी/सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि स्थापना दिवस पर सहारनपुर नगर निगम द्वारा आज नगर निगम परिसर के अलावा शहर के सिविल कोर्ट तिराहा, कलक्ट्रेट तिराहा, हसनपुर चौक, ऑफिसर्स कॉलोनी, भारत माता चौक, जेल चुंगी, नुमाईश कैंप, अम्बेडकर चौक, चौ.चरणसिंह चौक, चौक फव्वारा व दिल्ली रोड स्थित मण्डलायुक्त कार्यालय सहित अनेक प्रमुख स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मै राधेश्याम पुत्र गोपी चन्द्र मैने अपने पुत्र संजय कुमार का चाल चलन ठीक न होने के कारण पुत्र संजय कुमार व बहू लीलावती को दिनांक 26.12.2023 से अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, अतः इनके द्वारा किये गये कृत्यो व लेन देन से मेरा व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों से कोई वास्ता सरोकार नही होगा।

राधेश्याम पुत्र गोपी चन्द
नि. ग्राम पकरिया, मजरा लालापुरवा
थाना खमरिया जिला लखीमपुर खीरी।

गुरुद्वारा कमेटी द्वारा जनप्रतिनिधियों का स्वागत

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। सहजनवा क्षेत्र के कसरवल के पास गुरुद्वारे पर प्रबंध कमेटी के सदस्यो क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों का फूलमालाओं से लाद कर स्वागत किया गया। मंगलवार को प्रधानमंत्री के निर्देश पर गुरुद्वारे पर पहुंचे क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों को कार सेवा भूरी वाले अमृतसर जत्थे बाबा कश्मीरी सिंह व भूरी वाले बाबा सुखविंदर सिंह, बाबा गुरविंदर सिंह, सेवादार बाबा गुरवंत सिंह द्वारा विधायक प्रदीप शुक्ल, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभाकर दुबे, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, पूर्व विधायक देव नारायण उर्फ जीएम सिंह प्रधान संघ अध्यक्ष बंशी यादव का फूलमालाओं से लाद कर स्वागत किया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रभारी बृजपाल सिंह, प्रधान गंगा प्रसाद, प्रमोद राय, विजय कुमार, नरेंद्र शुक्ल सहित अनेक लोग मौजूद थे।

आर्यन गुप्ता को गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला

देवरिया अवधनामा संवाददाता। माया एकैडमी काका नगर कानपुर के द्वारा आर्यन गुप्ता को गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला मुंबई के पास एक निजी होटल में अवार्ड शो हुआ 3डी एनीमेशन के माध्यम से विश्व भर में 3000 प्रतियोगियों में से आर्यन गुप्ता को चुना गया आर्यन गुप्ता 2 वर्षों से थ्री डी ग्राफिक एनीमेशन की पढ़ाई कर रहे हैं अवार्ड मिलने से उनके घर में खुशी का माहौल है। माता-पिता, सुनील गुप्ता, अनीता गुप्ता गर्व महसूस कर रहे हैं। आर्यन गुप्ता मूल रुप से देवरिया के निवासी हैं।

सतीश महाना ने खिलाड़ियों को वितरित की चेकें

कानपुर अवधनामा संवाददाता। जय हिन्द कराटे के द्वारा 7वीं प्रतियोगिता का आयोजन पीएस पैलेस में आकांक्षा कराटे क्लासेज एंड स्पोर्ट्स एकेडमीस ऑफ कानपुर और विमला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया गया। संचालक राज सर ने बताया की इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का स्वागत राज सर के द्वारा माल्यर्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। मुख्य अतिथि सतीश महाना के द्वारा सभी विजेता खिलाड़ियों एवं सभी विजेता बेटियो को मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संबोधित करते हुए कहा कि कानपुर नगर में आकांक्षा कराटे क्लासेज निरन्तर छात्र छात्राओं को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। डायरेक्टर राज प्रताप सिंह को सफल आयोजन की बधाई देते हुए सभी छात्र छात्राओं से निरंतर अत्यधिक मेहनत कर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर देश एवं प्रदेश के लिए ट्राफी लाने का कार्य करे।

अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ चेतना मानसिक दिव्यांग संस्थान का सम्मान समारोह

लखनऊ अवधनामा संवाददाता। दिनांक 19 दिसंबर 2023 को चेतना मानसिक दिव्यांग संस्थान सेक्टर सी अलीगंज लखनऊ में विशेष शिक्षकों एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों का सम्मान समारोह विश्व दिव्यांग दिवस अत्यंत हर्षोल्लाह के साथ मनाया गया इस अवसर पर संस्था के सचिव डी पी सिंह, संरक्षक बच्चन सिंह अध्यक्ष जी एन शर्मा, प्रधानाचार्या मीना तिवारी, सोशल वर्कर दीपशिखा पांडे, शिक्षिका सरोजिनी नाथ, रीता तिवारी, अचला श्रीवास्तव, सीमा दीक्षित,संगीता शुक्ला, पवन श्रीवास्तव प्रियंका तिवारी,पूनम बोस, निरूपमा सिंह, सुनीता वर्मा एवं आज के कार्यक्रम की निर्देशक हार्ट एंड सोल वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक मंदाकिनी बहुगुणा शास्त्री ने टीचर रितेश,मनीष कार्यक्रम उद्घोषिका वैष्णवी को सम्मानित किया एवं स्पेशल चाइल्ड इच्छा पटेल (वेटलिफ्टर) खेलो इंडिया खेलो की गोल्ड मेड्लिस्ट, मोहम्मद शरीफ(आत्मनिर्भर) को यूनिक स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया, सर्वप्रथम मुख्य अतिथि अपर्णा यादव (बीजेपी नेता) एवं सामाजिक कार्यकर्ता के स्वागत मे शिवांगी, रिंकी, सुनीता, अभिषेक, श्वेतांक, कुलदीप, प्रशांत, मोहित ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, साथ ही मूकबधिर शाखा की प्रधानाचार्या अंजना शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी हर्षित अग्रवाल, हार्ट एंड सोल की गिन्नी सहगल (डांसर एवं मॉडल) को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया व इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया, चेतना संस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता दीपशिखा पांडे ने हार्ट एंड सोल की फाउंडर मंदाकिनी बहुगुणा शास्त्री जी को उनकी सेवाओं को देखते हुए अपर्णा यादव जी के कर कमलों से पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया एवं अंत में मंदाकिनी बहुगुणा जी ने चेतना संस्थान को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया इस कार्यक्रम में हार्ट एंड सोल संस्थान की ओर से सभी के लिए खान-पान की व्यवस्था भी की गई।

गोल्डी मसाला फैक्ट्री में लगी आग, मचा कोहराम

कानपुर। बिठूर क्षेत्र के अंतर्गत गोल्डी मसाला फैक्ट्री के हल्दी गोदाम में आग लग गयी। अभी आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नही आये है लेकिन आग लगने की जानकारी फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा दी गयी। सूचना के उपरान्त मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की पहुंची गाडियों द्वारा दमकल टीम ने बडी मशक्कल के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार थाना बिठूर के मंधना रोड पर गोल्डी मसाले वालों की फैक्ट्री है, जहां मसाला पीसने और पैकिंग सम्बन्धि कार्य होता है। इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गयी। फैक्ट्री के पास रहने वालो लोगों ने बताया कि उन्होने फैक्ट्री के ऊपरी हिस्से में आग की लपटों को देखा, जिसके उपरान्त पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल टीम द्वारा बडी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। बताया जाता है कि फैक्ट्री के ग्राउण्ड फ्लोर पर जहां हल्दी पीसने का काम होता है आग सर्वप्रथम वहां लगी थी, जिसके बाद द्धितीय तल पर रखी हल्दी के बोरो में भी आग लग गयी।

मनुष्य के मन और आत्मा की अभिव्यक्ति होती है कविता: त्रिपाठी

अवधनामा संवाददाता

कप्तानगंज, कुशीनगर। नगर स्थित जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में लोक कला एवं संस्कृति की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित संस्था लोक मंजरी के दूसरे स्थापना दिवस और साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था विमर्श के तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें पूर्वांचल के अनेक प्रसिद्ध कवि गणों ने अपनी कविता का पाठ किया इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनय प्रकाश गोंड और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुशीनगर के पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कवि गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कविता किसी भी मनुष्य के मन और आत्मा की अभिव्यक्ति होती है काव्य रचना साहित्य का प्राण होती है। इतिहास के प्रत्येक आंदोलनों और क्रांतियों में

- लोक मंजरी के दूसरे स्थापना दिवस पर साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था विमर्श के तत्वावधान में आयोजित कवि सम्मेलन

कविताओं का निर्णायक योगदान रहा है। रामकोला विनय प्रकाश गोंड ने कहा कि कोई भी कवि अपने सोच और विचार को अपने शब्दों के रूप में कविता में सहज ही प्रकट करता है जिससे वह जनमानस को बहुत ही आसानी से अपना संदेश पहुंचा देता है। कवि सम्मेलन में जनपद के कोने-कोने से आए कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई और उपस्थित श्रोताओं से तालियां तथा वाहवाहियां लूटी। गीतकार शैलेंद्र पांडे असीम, शम्भू सजल, हरेंद्र पांडेय ने अपनी सुंदर गीत प्रस्तुत किए। वही अवध किशोर अवधू और उगम चौधरी मगन के हास्य कविताओं पर ठहाके लगते रहे। वरिष्ठ कवि ओमप्रकाश द्विवेदी ओम एवं परमानंद मिश्रा नें अपनी रचना प्रस्तुत की।

आर के भट्ट बावारा, अशोक शर्मा, डॉक्टर बलराम राय, असलम बैरागी,अंगद उदास,ने भी अपनी श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। विद्यालय के नवोदित कवियों कृतिका कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, वैभव चौधरी और अजय ने कविताएं सुनाई तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस अवसर पर उदित नारायण डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ रामनेरश दुबे लोक मंजरी संस्था के अध्यक्ष विश्व मित्र भट्ट, प्रधानाचार्य श्रीराम प्रसाद, विमर्श संस्था के अध्यक्ष आर के भट्ट, ज्ञानवर्धन, गोविंद राव, कृष्णमणि तिवारी, इंशियाक अहमद, डॉ चंदन कुमार गोंड, रामदास शर्मा, विशंभर प्रसाद, जयराज सिंह मुस्ताक अहमद, सगीर अहमद, आशुतोष मिश्रा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर शैलेंद्र पांडेय, असीम और आकाश महेशपुरी को विमर्श संस्था द्वारा 5000 नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हरे कृष्ण पांडेय ने किया।

सभी जिलों में एक भी जिलाध्यक्ष पसमांदा समाज से नहीं: वसीम

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। कांग्रेस की फितरत धोखा देना तो उसकी सगी समाजवादी पार्टी की आदत दोहरा रवैया। दोनों ही अपना हुनर बखूबी जानते हैं और देश व यूपी की जनता को बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। अब आमजन इनके बारे में ठीक से जान चुके हैं इसीलिए दोबारा मौका नही दे रहे।

यह बात आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने अपने बयान में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व समाजवादी पार्टी की करतूत को ऐसे भी समझा जा सकता है कि केन्द्र में राज करने का मौका देते आये पसमांदा मुसलमान को पिंजड़े में कैद कर दिया। यूपी के सभी जिलों में एक भी जिलाध्यक्ष पसमांदा समाज से नही है। इसी पंजा छाप पार्टी ने आर्टिकल 341 के जरिये पसमांदा समाज पर धार्मिक प्रतिबन्ध लगाए। इनकी सगी पड़ती है सपा, इनके नेता कहते हैं कि वह सिर्फ मुस्लिम की बात इसलिए नही करते क्योंकि इससे तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगने लगेंगे। क्या बहानेबाजी है, अगर आप मुस्लिम का नाम नही ले सकते तो हिन्दू भी आप पर भरोसा क्यों करे। यह सिर्फ दोहरा मापदंड है और सच से बचने की कोशिश। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल करीब 19.33 फीसदी मुसलमानों में पिछड़े मुसलमान 85 फीसदी से ज्यादा हैं, यानी उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुसलमान वोटर करीब 16 फीसदी से ऊपर हैं, उसके बावजूद उप्र कांग्रेस कमेटी के किसी अहम पद पर या बनाई गई सभी कमेटियों में से किसी एक कमेटी का भी चेयरमैन पसमांदा मुसलमान नहीं..? ऐसा क्यों। कांग्रेस के 75 जिला अध्यक्षो में से किसी एक भी जिले का अध्यक्ष पिछड़ा मुसलमान नहीं है।

बदला माहौल तो औद्योगिक नक्शे पर चमक गया गीडा

मल्टीनेशनल समेत कई बड़ी यूनिट्स का हुआ शिलान्यास और लोकार्पण

अवधनामा संवाददाता

- जीआईएस में गोरखपुर को मिले पौने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव के केंद्र में गीडा ही
- उद्यमियों को देने प्रोत्साहन साल में छह बार गीडा आए सीएम योगी

गोरखपुर। माहौल बदलने का असर क्या होता है, इसका एक बड़ा सटीक जवाव आपको आज के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र को देखकर मिल जाएगा। लंबे दौर तक पहचान को जूझता रहा यह प्राधिकरण आज प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर चमक गया है। इस चमक में बीत रहे एक साल का सफर और भी सुहाना रहा है।

गीडा की स्थापना तो 34 साल पहले हुई थी लेकिन औद्योगिक प्रगति का माहौल बनना शुरू हुआ, छह साल पूर्व योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद। इन छह सालों में गुजरता हुआ वर्तमान साल (2023) औद्योगिक विकास की रफ्तार को सर्वाधिक तेजी देने वाला रहा है। इसी साल फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गीडा को केंद्र में रखकर गोरखपुर को पौने दो लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले तो मल्टीनेशनल समेत कई ऐसी बड़ी यूनिट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ जो तीन दशक पहले तक सिर्फ कल्पनाओं की बात होती थीं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2017 के पहले तक लचर कानून व्यवस्था, सुविधाओं के घोर अभाव और सरकारों के उदासीन रवैये से गीडा में निवेश, दूर की कौड़ी लगती थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी देने का अनवरत ऐलान किया, इंडस्ट्री फ्रेंडली नीतियां बनाई तो गीडा भी निवेश के लिए लिए बेहतरीन गंतव्य बन गया है। पहले जहां सालों कोई मुख्यमंत्री गीडा झांकने तक नहीं आता था, वहीं सीएम योगी इस साल छह बार गीडा आकर उद्यमियों को प्रोत्साहित कर चुके हैं। गीडा प्रबंधन के मुताबिक बीते छह साल में गीडा में करीब 12000 करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। इनमें इस साल का प्रदर्शन सबसे शानदार है बीते एक साल में गीडा में 550 करोड़ रुपये के निवेश वाले अंकुर उद्योग के सरिया प्लांट का उद्घाटन, 1100 करोड़ रुपये के निवेश वाली पेप्सिको जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनिट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हो चुका है। वह 118 करोड़ रुपये के निवेश वाली ज्ञान डेयरी की यूनिट, जल जीवन मिशन में सप्लाई देने वाली तत्वा प्लास्टिक की 110 करोड़ रुपये निवेश वाली पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन करने के साथ 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने वाली केयान डिस्टलरी के एथेनॉल व डिस्टलरी प्लांट का भी शिलान्यास कर चुके हैं। इसके अलावा 50 करोड़ रुपये के निवेश से सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के इंडस्ट्रियल वेयरहाउस का भी शिलान्यास हो चुका है। इस बीच 1 जनवरी से 22 दिसंबर तक गीडा ने 107 एकड़ भूमि आवंटन किया है। इससे 5639 करोड़ रुपये के निवेश और 19597 लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस साल इन प्रमुख उद्योगों का हुआ लोकार्पण

अंकुर उद्योग लिमिटेड का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड का नया बॉयलर प्लांट। ज्ञान डेयरी (सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स) की यूनिट। तत्वा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड की पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

प्रमुख उद्योगों का हुआ शिलान्यासः- - पेप्सिको की फेंचाइजी, वरुण बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड का बॉटलिंग प्लांट। - केयान डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड का बॉटलिंग प्लांट। - इंडियन ऑटो व्हील्स की यूनिट। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का इंडस्ट्रियल वेयरहाउस। **गीडा की इस साल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां:-** 18 सितंबर को मुख्यमंत्री के समक्ष 900 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए 102 भूखंडों का आवंटन पत्र वितरण। गीडा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों कालेसर सेक्टर 11 स्थित कालेसर परियोजना में पहले चरण (व्यावसायिक) की लॉचिंग। इसके अंतर्गत 80 एकड़ में नई कमर्शियल टाउनशिप विकसित की जाएगी। गीडा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों 800 करोड़ रुपये की निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। स्थापना दिवस पर 500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए नए भूखंडों का आवंटन। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए नाइलिट तथा प्लास्टिक पार्क में कच्चा माल आपूर्ति के लिए गेल से एमओयू का हस्तांतरण। गोरखपुर में प्रगति मैदान की तर्ज पर पहली बार चार दिवसीय गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन।

पुलिस कमिश्नरेट की दिखी जबदश्त चाक चौबंदचौबंद

कानपुर। कपड़ा कमेटी में चुनाव घमासान में पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली कानपुर की कपड़ा कमेटी में क्या युवा परचम लहराएंगे या बुजुर्ग कमेटी की फिर होगी सरकार आपको बताते चलें कानपुर की कपड़ा कमेटी चुनाव हमेशा चर्चा में रहती है,यहां पर काशी गुट सागर गुट या टमी ग्रुप किसको कपड़ा व्यापारी करेंगे पसंद, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर पुलिस आयुक्त डॉ आर के स्वर्णकार संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी के निर्देशन में,अपर पुलिस उपायुक्त प्रज्ञान राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में,एसीपी कलेक्टर गंज मोहसिन खान, इंस्पेक्टर सच्चिदानंद, संजीव दीक्षित, तरुण पांडे राजवीर, आदि भारी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखा

सूचना

मैं शीबा पत्नी इरशाद सईद निवासी 512/695 घा बाल्दा रोड पहली गली निशातगंज लखनऊ की हूं। मैंने अपना नाम शादी के उपरांत शीबा से शीबा इरशाद रख लिया है। अब भविष्य में मुझे शीबा इरशाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की मेरे पासपोर्ट संख्या K1272464 मे मेरे नाम की स्पेलिंग त्रुटिवश ALI HUMJA BEG (अली हमजा बेग) लिख गया है मेरे नाम की सही स्पेलिंग ALI HAMZA BEG है।

अली हमज़ा बेग पुत्र इक़बाल बेग 602/2071 अमान एन्क्लेव NEAR ईदगाह दुबग्गा पोस्ट काकोरी लखनऊ।

क्रोनिक लिवर डिजीज इलाज एवं बचाव

कानपुर। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में लिवर ट्रांसप्लांट एंड बिलियरी साइंसेज, रोबोटिक सर्जरी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शालीन अग्रवाल ने बताया कि हालांकि एक्यूट लिवर डिजीज कुछ मामलों में जानलेवा हो सकती है लेकिन क्रोनिक लिवर डिजीज (सिरोसिस) हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम को काफी प्रभावित कर रहा है। लिवर डिजीज के ज्यादातर मामलों में मुख्य रूप से चार बड़े कारण होते हैं. हेपेटाइटिस बी और सी से होने वाला क्रोनिक इंफेक्शन, क्रोनिक एल्कोहल एब्यूज, डायबिटीज और मोटापा हेपेटाइटिस बी और सी के साथ इंफेक्शन अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है। खून की उल्टियां होने लगती हैं या मल काला भी हो सकता है। इसके अलावा कभी-कभी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे इधर-उधर की बातचीत, भटकाव या फिर कोमा की स्थिति भी पैदा हो सकती है। सिरोसिस वाले मरीजों में शुरुआती लक्षण कैंसर युक्त ट्यूमर के रूप में होती है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शिव महेश पब्लिक स्कूल मुंशीगंज जिला अमेठी के कक्षा 5 उत्तीर्ण वर्ष 2022 - 2023 का स्थानांतरण प्रमाणपत्र जिसकी प्रवेश संख्या 1989, क्रम संख्या 825, पुस्तक नंबर 17, विद्यालय संख्या 70114 है, वास्तव में खो गया है।

शशी प्रभा
पुत्री रमेश कुमार निवासी ग्राम पिगिरियावा पोस्ट परियारे, भीटी, जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश।

सूचना

मैं मोहम्मद शकील पुत्र अल्ला हराखु निवासी 12/63 कैंट रोड उदयगंज लखनऊ का हूं। मैंने अपना नाम मोहम्मद शकील से बदलकर शकील अहमद रख लिया है। अब भविष्य मे मुझे शकील अहमद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

धार्मिक अनुष्ठान के बाद हुआ प्रसाद वितरण

मुंशीगंज (अमेठी)। क्षेत्र के सरायखेमा स्थित प्राचीन महावीरन धाम पर मंगलवार को श्रीराम चरितमानस के सुंदरकांड पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान हुआ। हवन- पूजन के साथ भजन- कीर्तन का भी आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।कार्यक्रम के आयोजक जमुना प्रसाद तिवारी ने बताया कि धाम पर जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा पाठ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है।

सार्वजनिक सूचना

एनटीपीसी टांडा द्वितीय चरण विस्तारीकरण के सभी भू-विस्थापित, जिन्होंने अपना भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि अधिग्रहित भूमि की राशि का भुगतान एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की राशि के भुगतान हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति (SLAO) कार्यालय एवं तहसील कार्यालय टांडा में सम्पर्क कर अपना भुगतान प्राप्त करने हेतु अग्रिम कारवाई करने की कृपा करें।

निवेदक
एनटीपीसी-टांडा

दूसरी बार प्रांतीय संयुक्त मंत्री बने श्री निवास शर्मा बधाईयों का तांता

अवधनामा संवाददाता

पडरौना, कुशीनगर। शिक्षक हित में अनवरत संघर्षों की बदौलत श्रीनिवास शर्मा उप्र जूनियर हाईस्कूल शिक्षक के राज्य स्तरीय चुनाव में प्रांतीय मंत्री चुने गये हैं। शिक्षक व संगठन के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। गोंडा में आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव में प्रांतीय मंत्री चुने जाने के बाद जनपद आगमन पर शिक्षकों ने पडरौना ब्लाक संसाधन केंद्र पर श्रीनिवास शर्मा के सम्मान में समारोह का आयोजन किया।

शिक्षक व संगठन के पदाधिकारियों ने श्री शर्मा का मार्ल्यापण कर स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षक हित में अनवरत संघर्ष करने वाले प्रांतीय मंत्री शिक्षकों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर न सिर्फ चलते हैं बल्कि हक की लड़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। जूनियर संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा हम सभी को गर्व है कि प्रांतीय चुनाव में कुशीनगर का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। जिससे कुशीनगर के शिक्षकों की समस्याओं को निदेशालय स्तर तक उठाया जा सकेगा।

संघ के जिला मंत्री कुंजेश्वर सिंह ने कहा कि श्री शर्मा ने शिक्षक हित की लड़ाई को सदैव अंजाम तक पहुंचाया है। जिला संयुक्त मंत्री विनोद कुमार सिंह ने कहा शिक्षक हित के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ने वाले श्री शर्मा ने प्रांतीय कार्यकारिणी में यहां के शिक्षकों का बखूबी सम्मान रखा है। ब्लाक अध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडेय ने शिक्षक एकता पर जोर देकर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का हौसला आफजाई किया। आयोजन को जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत मणि, संजय कुमार सिंह, रामहरेष प्रसाद, सुनील कुमार दूबे ने भी संबोधित कर मजबूती पर जोर दिया।

इस दौरान सुधा शर्मा, ऋषिकेश सिंह, कन्हैया सिंह, अवधेश प्रसाद, संदीप राय, अमरदीप शुक्ला, गीता चतुर्वेदी, चंद्र प्रभा चौधरी आदि मौजूद रहे।

दिव्यांग बच्चों को गिफ्ट देकर सांसद ने मनाया सुशासन दिवस

अवधनामा संवाददाता

कानपुर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रृद्धेय अटल बिहारी की 99वीं जयन्ती के अवसर पर कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी ने स्वरूप नगर में पहल विकलांग पुनर्वास समिति केन्द्र द्वारा संचालित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को स्कूल बैग तथा गिफ्ट वितरण किया। सांसद पचौरी ने अटल विहारी की योगदान का महत्व बताते हुए कहा कि अटल के सपनों का भारत का निर्माण आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के उत्थान के लिए सदैव कृतसंकल्पित रहे हैं।

गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्होनें अनेकों योजनाओं चलाई। सांसद पचौरी ने कहा कि पूर्व की सरकारों की दिव्यांग उपकरण बनाने वाली संस्थाओं को बन्द करने का प्रयास किया, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने अब तक पूरे देश में 1 लाख करोड़ के जीवन सहायक उपकरण दिव्यांग भाई-बहनों को निःशुल्क उपलब्ध कराए, चूल्हे में खाना बनाने वाली महिलाओं को उज्जवला योजना में निःशुल्क गैस सिलेण्डर दिलवाए, अंधेरे में रह रहे परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिलवाए।

कार्यक्रम के दौरान सांसद पचौरी ने दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार मास्टर यशवर्धन सिंह का जन्मदिन केक काटकर मनाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवाह्न पर कानपुर नगर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में पहुँची। नगर निगम द्वारा सीसामऊ विधानसभा के वार्ड-110 कर्नलगंज एवं वार्ड-108 तलाकमहल में कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सांसद पचौरी ने कैम्प में आए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन कराने को कहा। सांसद पचौरी ने मीड़िया को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आवाहन पर देश में चल रही 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' का आयोजन शहर में नगर निगम कानपुर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, आवेदन तथा उसका लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता भी जनता को सहयोग को कैम्प में उपस्थित हैं। सांसद सत्यदेव पचौरी ने यह भी बताया कि यात्रा कानपुर के प्रत्येक वार्ड में आयोजित हो रही है तथा स्टॉल लगाकार योजनाओं के आवेदन लिए जा रहे है, इनमें प्रमुख रूप में पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, उजाला योजना, पीएम सौभाग्य योजना जैसे अनेको योजनाओं के निःशुल्क आवेदन कराए जा रहे हैं आज उक्त योजनाओं में 842 लोगों द्वारा आवेदन कराया गया। सांसद ने नगरवासियों की अपील की कि वह इस यात्रा में सहभागी बनकर केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लें तथा जो असहाय व्यक्ति हैं उनका भी सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान जिला महामंत्री संतोष शुक्ला, इन्द्रजीत खन्ना मण्डल अध्यक्ष देवेन्द्र बोरा वार्ड मित्र अभिषेक, आलोक अवस्थी, मो आसिफ आदि लोग उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री की रैली में तीन लाख जनसैलाब इकट्ठा करने का लक्ष्य

डिप्टी सीएम, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन ने किया प्रधानमंत्री के रैली की तैयारियों की समीक्षा

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली में 3 लाख जनता को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या, भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने सर्किट हाउस के सभागार में बैठक की। बैठक में अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी जनपदों के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी शामिल हुए।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा को लेकर जनता में उत्साह का माहौल है। रामनगरी अयोध्या को विश्व की सुन्दरतम नगरी बनाया जा रहा है। हर बूथ तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की है। रैली में सभी क्षेत्रों की उपस्थिति होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी जनपद बैठकें करके जनसभा व स्वागत कार्यक्रम की कार्ययोजना बना लें। पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौप दी जाय। जनता तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का आमंत्रण पहुंचना तथा उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है। इसकी तैयारी में युद्ध स्तर पर लग जाए। प्रदेश महामंत्री व क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने कहा कि जिले स्तर पर पदाधिकारी रोजाना तैयारियों की समीक्षा करें। सभी को पूरी ताकत से कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाना है। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि पर्यटन नगरी के रुप में स्थापित विकसित अयोध्या का सबसे ज्यादा लाभ अयोध्या व अगल बगल के जनपदों को मिलेगा। प्रधानमंत्री की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी को अपने पूरे सामर्थ्य से निभाना होगा।

महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि 30 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का काफिला धर्मपथ, रामपथ होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। पुनः इसी रास्ते से वापस जाएगा। सड़क के दोनो तरफ आम जनसमूह स्वागत करेगा। व्यवस्था की दृष्टि से पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौप दी गई है। हर बूथ से जनता को लाने की तैयारी की गई है। जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि जनसभा को लेकर पदाधिकारी सम्पर्क व संवाद की प्रक्रिया को और तेज कर दे।

अटल जयंती पर हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। अटल जयंती पर जिले के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दौरान काव्य प्रस्तुति में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह दिखाई दिया। कवियों ने अपनी वाणी व मधुर शब्दों की भावपूर्ण प्रस्तुति से परिवेश को राममय कर दिया। सम्मेलन साहित्य के विभिन्न रंगों से मिश्रित नजर आया। कवि डॉ हरिओम पवार ने वीर रस, शंभू शेखर ने हास्य, मुमताज नसीम ने गजल, मणिका दुबे ने श्रृंगार रस की प्रस्तुति की। संचालन शशिकांत यादव ने किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। अध्यक्षता मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने की। कार्यक्रम का आयोजन सांसद लल्लू सिंह ने किया था।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में जनता का इतना सहयोग नहीं रहा होगा जितना राम मंदिर के लिए जन सहयोग मिला है। सांसद लल्लू सिंह के साथ हम लोग भी राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष में गिलहरी की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई जैसा आदर्श जीवन शायद ही दूसरा मिलेगा। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में काव्य की मधुर प्रस्तुति के माध्यम से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का आयोजन होता रहा है।

वीर रस के प्रख्यात कवि डॉ हरिओम पवार ने धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं, हथियारों के बल पर कई देश लूटते देखा है, अपने पाले सांपों के डंक मिले हैं अमेरिका, की प्रस्तुति की। जमुना उपाध्याय ने यहां जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता, शशिकांत यादव ने घर-घर तिरंगा फहरा दिया, कुछ नेता यहां मुगलों के बाप हैं, इन काले अंग्रेजों से देश को बचाना है, प्रियांशु गजेंद्र ने रात रात भर तुमको गया सुबह छपी अखबार में, कुछ तो आग लगी रहती, की प्रस्तुति से श्रोताओं को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। मुमताज नसीम ने वहां जाकर बरसो रे मोरे सांवरिया, मैं तुम्हें याद करती रहती हूं, शंभू शिखर ने योगी को आने दो त्रेता युग में ले जाएगा, गोरे तो आजादी के पहले भी बेवफा थे, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ लिए, साक्षी तिवारी ने यह स्वाभिमान अपना इस दुनिया को दिखाऊंगी, उन्हें गद्दार ना लिखो तो फिर क्या लिखूं, मनिका दुबे ने मेरे राम जी, मैं तो मेहमान हूं यह शहर आपका, कमलेश शर्मा ने राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें की प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, यूपी सरकार में राज्यमंत्री सतीश शर्मा, महंत राजू दास, महंत रामकुमार दास, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जिला अध्यक्ष संजीव सिंह महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी, अवधेश पाण्डेय बादल, अभिषेक मिश्रा, डा विक्रमा पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे।

महामना की 162 वीं जयंती पर हिंदू महासभा ने किया नमन

अयोध्या। हिंदू महासभा के संस्थापक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ,भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती के अवसर पर हिंदू महासभा अयोध्या लक्ष्मण घाट स्थित नया मंदिर शीश महल मंदिर में उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर हिंदू महासभा के प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता मनीष पांडेय ने कहा कि अपने अंदर विभिन्न आयामों को समेटे हुए महामना का व्यक्तित्व विराट था। सामाजिक समरसता के वाहक परम हिंदुत्ववादी, महान शिक्षाविद, विधिवेक्ता, पत्रकार, और एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने जो कार्य किए उसका ऋणी यह राष्ट्र हमेशा से रहेगा। श्री पांडेय ने आगे कहा कि जिस तरह महामना ने हिंदी भाषा, और हिंदुत्व की उन्नति व उत्थान के लिए ऐतिहासिक कार्य किए उसके लिए ना सिर्फ हिंदी, बल्कि हिंदीभाषी भी हमेशा अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे।

संदिग्ध हालात में मिले दो शव एक का अंतिम संस्कार, दूसरे की शिनाख्त नही

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो शव बरामद किए गए। घटनाएं संदिग्ध प्रतीत हो रही लेकिन एक मामले में परिजनों ने बिना कोई आरोप लगाए मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। एक अन्य की शिनाख्त नही की जा सकी है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोमवार की रात फतेहपुर बुढवल रेलमार्ग पर ईसेपुर के निकट एक 35 वर्षीय युवक का शव ग्रामीणों ने पडा हुआ देखा जिसकी सूचना पुलिस को दी गयी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की जामा तलाशी ली लेकिन उसकी जेब से न तो टिकट और न ही कोई पहचान करने वाली वस्तु मिली। इसके पश्चात् पुलिस ने आसपास लोगो को बुलाकर युवक की पहचान कराने का काफी प्रयास किया लेकिन उसकी शिनाख्त नही हो सकी। अतिरिक्त निरीक्षक रामनरेश यादव ने बताया कि मृतक भूरे रंग का स्वेटर, चेकदार सफेद शर्ट व नीले कलर की पेन्ट पहने हुए था। मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किये जा रहे है। रामनगर प्रतिनिधि के अनुसार भैरमपुर निवासी केशव वर्मा के अनुसार, उनका बेटा गोलू वर्मा (25) सऊदी में नौकरी करता था। छह माह पहले वह घर आया था। सोमवार सुबह खेत गए ग्रामीणों को गन्ने के खेत में युवक का शव शीशम के पेड़ से लटका दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना घरवालों को दी। मौके पर पहुंचे परिवारीजनों ने शव को नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस को सूचना दिए बगैर ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवारीजन आत्महत्या मान रहे हैं।

शीतकालीन अवकाश में रिमांड कार्य हेतु मजिस्ट्रेट किए गए अधिकृत

सिविल के मामलों में दायर होने वाले मुकदमों की पिछले वर्ष की तुलना में आई कमी

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। दीवानी न्यायालय परिसर स्थित सिविल कोर्टों में दीवानी के मामलों में पिछले साल की तुलना में वर्ष 2023 में जमीनी विवाद के मामलों के मुकदमा दायर होने की संख्या में कमी आई है। परंतु पूरे जनपद तथा 5 लाख से ऊपर की मालियत के वादों का क्षेत्राधिकार रखने वाली सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पिछले वर्ष 2022 की अपेक्षा वर्ष 2023 में दायर मुकदमों की संख्या में 300 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वही उत्तराधिकार से संबंधित केस का दायरा कम हुआ है। सिविल जज सीनियर डिवीजन जिसे पूरे अयोध्या जनपद के दीवानी मुकदमा जिनका मूल्यांकन 5 लाख से ऊपर है को सुनने का क्षेत्राधिकार है , की अदालत में वर्ष 2022 में 917 मुकदमे दायर किए गए थे जबकि 2023 में 1 हजार 2 सौ 27 मुकदमे दायर किए गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 सौ 10 ज्यादा है। वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए की मालियत का दावा प्रस्तुत किया गया। उत्तराधिकार के मामले में वर्ष 2022 में 106 केस पंजीकृत हुए थे जो इस वर्ष घटकर मात्र 77 केस ही न्यायालय के समक्ष दायर हुए। सिविल जज जूनियर डिवीजन सदर जिसे तहसील मिल्कीपुर व सदर तहसील के दीवानी मामलों का जिनकी मालियत 5 लाख से कम है को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है की अदालत में पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 1 हजार 3 सौ 41 वाद पंजीकृत किए गए जबकि वर्ष 2022 में 1हजार 5 सौ 63 दीवानी मुकदमे दर्ज किए गए थे। वही दायरा कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन (हवेली) में भी पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष कम मुकदमे दायर हुए हैं। हवेली कोर्ट का क्षेत्राधिकार रुदौली बीकापुर व सोहावल तहसील का है। हवेली न्यायालय में वर्ष 2022 में 1 हजार 3 सौ 73 मुकदमों की अपेक्षा वर्ष 23 में घटकर मात्र 1हजार 1 सौ 68 मुकदमे ही दायर किए गए। दीवानी न्यायालय के अंतिम कार्य दिवस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में आठ मुकदमों में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित हुआ है। शीत कालीन अवकाश के दौरान रिमांड कार्य हेतु प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 23 व 24 दिसंबर के लिए जे एम द्वितीय 25 से 28 दिसंबर के लिए जे एम प्रथम 29 व 30 दिसंबर के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी तथा 31 दिसंबर के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी (महिला) को अधिकृत किया गया है।

शुभांकर सोसायटी ने बहुमुखी प्रतिभा कार्यक्रम का किया आयोजन

भेलसर अयोध्या। राजकीय बालिका इंटर कालेज रूदौली में शुभांकर वेल्फेयर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में बहुमुखी प्रतिभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र में मतदान का महत्त्व पर निबंध प्रतियोगिता,पर्यावरण संरक्षण पर प्रतियोगिता, नशे के दुष्परिणाम पर पोस्टर प्रतियोगिता,नारी सशक्तिकरण पर भाषण प्रतियोगीता का आयोजन किया गया।आयोजित कार्यक्रम का संचालन श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम रुदौलीअन्शिका दीक्षित व तहसीलदार रुदौली राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित कर किया। पर्यावरण संरक्षण निबंध प्रतियोगिता में अक्शा नाज ने प्रथम,लोकतंत्र में मतदान पर वैष्णवी चौरसिया ने प्रथम,नशा मुक्ति पर अन्जली चौरसिया ने प्रथम, नारी सशक्तिकरण पर अदीबा ज़हरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय बालिका इंटर कालेज की प्रधानाचार्या आफ़रीन फात्मा ने किया।

मन्दिर को निशाना बनाने वाले3 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। थाना सुबेहा पुलिस ने दो चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 25,500 रुपये नकद व चांदी का मुकुट बरामद किया।

अपर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि थाना सुबेहा पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स की मदद से चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए थाना सुबेहा पर दर्ज मामलों में प्रकाश में आये रामबरन गौतम उर्फ बन्ने पुत्र श्रीराम गौतम, सोने लाल उर्फ ननकू पुत्र धनीराम गौतम निवासी मो0 माफी जवाहर नगर वार्ड, शिव प्रसाद पुत्र गया प्रसाद रावत निवासी रोहना मीरापुर थाना सुबेहा को राजघाट पुल, थाना सुबेहा से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से मन्दिर से चोरी किया गया मुकुट व 25,500 रुपये एवं चोरी की घटना कारित करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया गया।

अभियुक्तगण नशा करने के आदी हैं। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में ही रेकी कर मन्दिरों को चिन्हित कर लिया जाता है एवं रात्रि के समय चिन्हित मन्दिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। मन्दिर से चोरी किये गये सामान (सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, एम्प्लीफायर मशीन, लाउडस्पीकर आदि) को सुरक्षित स्थानों पर जमीन में गाड़ दिया जाता है एवं प्रकरण शान्त होने पर उसे निकाल कर बेच दिया जाता है व प्राप्त रुपयों को आपस में बांट लिया जाता है।

भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सांसद, निर्माण कार्य का किया लोकार्पण

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। विकास खण्ड सिद्धौर के ग्राम पंचायत शेषपुर जाहिद अली में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद उपेन्द्र सिंह रावत ने लाभार्थियों और जनता-जनार्दन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जनहित में संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमन्त्री आवास योजना, आयुष्मान भारत-प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्जवला योजना, प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा योजनो से छूटे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया तथा उनको योजनाओं से जोड़ा। इसके पश्चात चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। इस अवसर पर खण्ड विकास अधिकारी ज्ञानेद्र कुमार सिंह, मण्डल अध्यक्ष प्रवीण सिंह , राम कुमार मिश्रा, शिव हर्ष सिंह, शशांक चौरसिया, राम सरन रावत, लल्लू रावत, पवन मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

इसी क्रम में विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के अंतर्गत मंगलपुर धौरहरा मार्ग से मोहम्मदपुर लोनी नाला पर रूपये 3 करोड़ 50 लाख से निर्मित 3म9 मीटर के लघु सेतु एवं सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक दिनेश रावत की उपस्थिति में सांसद उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा किया गया। इस पुल और मार्ग के बन जाने से क्षेत्र लोगों को काफी सुविधा होगी। माँ कलिका मन्दिर हुसैनाबाद में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सांसद उपेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है चाहे पुलों का निर्माण हो या प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडको का निर्माण कार्य हो। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवेश सिंह, संजय वर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष त्रिवेदीगंज, प्रधान हुसेनाबाद पिंटू वर्मा, प्रधान धौरहरा गुडडू सिंह, मंडल महामंत्री अरुण अवस्थी, राजेश रावत, रामू अवस्थी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

चार दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ

बृजमनगंज (महराजगंज)। क्षेत्र के चंद्रा चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल फुलमनहा में आज मंगलवार से चार दिवसीय वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अमित मोहन श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य रवि प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से माँ सरस्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पार्चन के साथ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव ने कहा कि मनुष्य के जीवन में खेलकूद का बहुत महत्व है। खेलकूद से अनुशासन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए खेलते वक्त प्रत्येक खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। प्रधानाचार्या तेज प्रताप सिंह बताया कि इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर व सब जूनियर के बच्चे प्रतिभाग करेंगे।

ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान के साथ मनाबड़ो ने की हाथापाई

महराजगंज। जिला अस्पताल पर ड्यूटी के दौरान तैनात पीआरडी जवान से दो मनबढ़ों ने हाथा-पाई किया। जिसकी सूचना पा मौके पर पहुची पुलिस ने दोनो लोगो को गिरफ्तार कर पूछ-ताछ के लिए कोतवाली लेकर चली गई। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल के गेट पर तैनात पीआरडी जवान राधेश्याम ट्रैफिक कंट्रोल करने में लगे थे तभी दो लोग आए और उनके साथ गाली-गलौज और हाथा-पाई करने लगे। इस दौरान जवान के वर्दी का बटन भी टूट गया। मौजूद लोगो के अनुसार दोनो लोग शराब के नशे में थे। हाथा-पाई देख वहा भीड़ इक्ट्ठा हो गया। इसी दौरान कलेक्ट्रेट चौकी के सिपाही आए और दोनो को चौकी ले गए पूछताछ में पता चला की एक कुशीनगर जनपद का तो दूसरा सदर कोतवाली के धनेवा का रहने वाला है। फिलहाल कोतवाली पुलिस कार्यवाही में जुटी हुई है।

अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों में जुटी भाजपा

अवधनामा संवाददाता

बाराबंकी। आगामी 30 दिसंबर को अयोध्या में होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। एमएलसी व जिला प्रभारी अवनीश सिंह ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जिला कार्यसमिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की।उन्होंने कहा कि निकटवर्ती जिला होने के कारण प्रदेश नेतृत्व ने जनपद को 50 हजार का लक्ष्य दिया है जिसे रणनीति बनाकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विधानसभावार संख्या निर्धारित करते हुए बताया कि समर्थको के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में बसों और छोटे चौपहिया वाहनों की व्यवस्था कर ली गई है। कहा कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। देश विदेश से श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचने के लिए हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन बन कर तैयार है। जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 30 दिसंबर को होना है। उन्होंने कहा बाराबंकी अयोध्या का प्रवेश द्वार है इसीलिए यहां से हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत व अभिनंदन करने शनिवार को अयोध्या पहुंचेगी। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य ने स्वागत एवम आभार ज्ञापित किया। संचालन जिला महामंत्री संदीप गुप्ता ने किया। इस अवसर पर गुरु शरण लोधी, शील रत्न मिहिर, प्रमोद तिवारी, विजय आनंद बाजपेई, रचना श्रीवास्तव, रोहित सिंह, सीए अश्वनी श्रीवास्तव, सुशील जायसवाल, ब्रजेश रावत, डॉक्टर अंजू चंद्रा, रामेश्वरी त्रिवेदी, सीताशरण वर्मा, पवन सिंह रिंकू सहित जिला कार्यसमिति के सभी सदस्य मौजूद रहे।

बाल मेला व प्रदर्शनी का आयोजन, बच्चों ने की मस्ती

बाराबंकी। शहर के किंग जॉर्ज इंटर कॉलेज में बाल मेले व प्रदर्शनी का आयोजन धूमधाम से किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य रूमा तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय की अध्यक्ष आयशा खान ने उपस्थित छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को क्रिसमस की बधाई देते हुए बाल मेले और सांता क्लास के बारे में बताया। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों द्वारा साज सजावट और तरह-तरह के स्टॉल लगाए गए जो बहुत ही लुभावने और आकर्षक थे। खेल प्रशिक्षक राकेश कुमार धानुक द्वारा छात्रों और अभिभावकों के बीच तरह-तरह की खेल संबंधी प्रतियोगिताएं कराई गई। अंत में चेयरपर्सन श्रीमती आयशा खान ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार जताया।

जिंगल बेल की धुन पर प्रयाग पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया धमाल

अवधनामा संवाददाता

देवां, बाराबंकी। प्रयाग पब्लिक स्कूल में क्रिसमस उत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। प्रयाग पब्लिक स्कूल के नन्हें मुन्ने बच्चे सैंटा क्लॉज़, स्टार तथा फेरी की वेषभूषा में विद्यालय पहुंचे और मेरी क्रिसमस और जिंगल बेल्स आदि क्रिसमस गीतों पर जमकर धमाल मचाया। स्कूल के प्रधानाचार्य राजा हिमांशु शर्मा ने बच्चों को क्रिसमस का त्योहार मनाए जाने के कारण एवं महत्व को विस्तार से बताया। स्कूल के अध्यक्ष सतनाम शर्मा व प्रबंधक सत्य प्रकाश वर्मा ने सभी को क्रिसमस एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं दिया। नन्हे मुन्ने बच्चों में वनिका, वैदिक, यूसूफ, तौहीद, अनिका, वैष्णवी, सिद्धी, सौम्या, नित्या, समर्थ, रूही आदि बच्चों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। इस अवसर पर स्कूल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, प्रबंधक सत्य प्रकाश वर्मा, प्रधानाचार्य राजा हिमांशु शर्मा, संजय ड्क्षसह, रजनीश वर्मा, दानिया खान, नेहा, जय शंकर, शुभासिनी, अनामिका, शालिनी, मारिया, संजना, ममता, शाहीन, रंजना, बबिता, हर्षित, पूजा सहित की विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा की केन्द्रीय वित्त मंत्री ने दिलाई शपथ

अवधनामा संवाददाता

बृजमनगंज (महराजगंज)। हमारा संकल्प विकसित भारत अभियान के तहत मंगलवार विकास खण्ड बृजमनगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामसभा दुर्गापुर व शिवपुर में पहुंची। इस दौरान यहां हुए कार्यक्रम में लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आज केंद्र एवं राज्य की प्रत्येक योजना का लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है। इस सरकार में हर वर्ग को पात्रता के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने अपने अथक प्रयासों से आम जनता की स्थिति को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी जारी रहेगा।

पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने सभी को लोगों के लाभ के लिए चल रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उनका लाभ उठाने के तरीके भी बताए।

इस दौरान उपजिलाधिकारी रमेश कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश जायसवाल, राकेश जायसवाल, ब्लाक प्रमुख उदयराज यादव, बीडीओ सच्चिदानन्द शुक्ल, अमरेन्द्र प्रताप सिंह, गुलाब प्रसाद पाठक, श्रीकेश, संदीप कुमार, सुरेश, अजय कुमार, सीडीपीओ किरन जायसवाल, हरिश्चंद्र सोनकर, योगेंद्र यादव, चंदू सिंह, विकास अग्रहरी, ग्राम प्रधान रमेश अग्रहरी और पाले आदि मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने बच्चों को पढ़ाई का दिया मंत्र

महराजगंज। जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिउरहा और प्राथमिक विद्यालय चिउरहा का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान कक्षाओ को देखा और रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षावार बच्चों और शिक्षकों की जानकारी ली। उन्होंने मिड डे मील के मेन्यू की भी जानकारी ली। उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री नगर पालिका के माध्यम से कराने हेतु अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने बच्चों से बात भी की और उनके रुचि के विषय, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने और अपनी रुचि के क्षेत्र को चुनने और उस क्षेत्र में सफल होने के लिए कहा।

धान क्रय केन्द्र पर खामिया मिलने पर जिलाधिकारी नाराज

चिउरहां पीएसीएफ सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

महराजगंज। स्थानीय नगर के चिउरहां पीएसीएफ सेंटर पर उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी अनुनय झा ने औचक निरिक्षण के लिए जा पहुचे जिलाधिकारी को अचानक केन्द्र पर देख धान क्रय केन्द्रों पर हडकंप मच गया।

निरीक्षण के दौरान धान क्रय केन्द्रों के विक्रय में तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई जिससे नाराज डीएम ने तत्काल जाँच के आदेश दिए। उन्होंने निरिक्षण के दौरान वहां पर धान विक्रय के लिए आए किसानों से धान विक्रय के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में भी जाना धान निरिक्षण के दौरान उन्होंने गोदामों में रखे धान वितरण रजिस्टर को भी चेक किया। उन्होंने जाँच के दौरान कहा कि ÷धान खरीद गोदामों के तरफ पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए। यदि धान खरीद के दौरान किसी प्रकार भी अनियमितता पायी जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था के ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

समाज के निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान रहता है: मौलाना कल्बे जव्वाद

जलालपुर अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। समाज के निर्माण में शिक्षकों का बहुत अहम योगदान है। शिक्षण कार्य में समर्पित शिक्षकों के योगदान से पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा उठाती हैं। शिक्षण कार्य में लगे लोगों का जहां दुनिया बड़ा सम्मान देती है वहीं रहती दुनिया तक लोग उन्हें याद करते हैं। उक्त बातें नगपुर स्थित मदरसा इमामिया करीमपुर में हुसैनी कमेटी के तत्वावधान में आयोजित वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने शिक्षक मोहम्मद जवाद की मजलिस को खिताब करते हुए कही। उन्होंने दिवंगत शिक्षक मोहम्मद जवाद के परिजनों को सांत्वना देते हुए उनके कार्यों की सराहना किया। मौलाना ने मजलिस के अंत में हज़रत इमाम की शहादत का जिक्र किया तो लोग अशकबार हो गए। जवाद के शिष्यों की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जाफराबाद, उस्मानपुर, नगपुर, मुस्तफाबाद समेत बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। कार्यक्रम का आगाज मौलाना वारिस अली की तलावत कलाम पाक से हुआ। मर्सिया ख्वानी मीसम रज़ा व उनके हमनवा ने किया। मास्टर जुल्फिकार हुसैन,सईद करबलाई,करार मेंहदी, मेंहदी हुसैनी ने पेश ख्वानी किया। इस दौरान मौलाना फरमान हैदर, मौलाना मोहम्मद जावेद, मौलाना शहंशाह हुसैन, मौलाना करार हुसैन, मौलाना जहीर हसन बसखारी, मास्टर अब्बास अली, मास्टर कैसर अब्बास,मुसय्यब अली,आफाक हैदर, इरफान, मोहर्रम अली , इब्ने अली जाफरी,शारिब अब्बास, किरदार मेंहदी, जावेद हैदर, आदि मौजूद रहे। संचालन जहीर हैदर ने किया। मौलाना रईस हैदर ने आगंतुकों का शुक्रिया अदा किया।

थाना बांसी व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण

चार गिरफ्तार, जेवरात व 42,950 नकद व चार पहिया वाहन बरामद

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। थाना बांसी के ग्राम थुम्हवा माफी व बनगाई नानकार में विगत 20/21 दिसम्बर को रात्रि में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करने हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। थाना बांसी व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा डुमरियागंज-बासी मार्ग पर सरयू नहर से शान मोहम्मद अन्सारी उर्फ नीलू अन्सारी पुत्र शहमीन निवासी मोहल्ला एजाज नगर गौटिया थाना बारादरी जिला बरेली, सादिक अली पुत्र अली दराज निवासी गढिया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जिला बंदायू, आलम पुत्र अली दराज निवासी गढिया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जिला बंदायू व नसीबन पत्नी अजमत अली उर्फ दुलारे निवासी गढिया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जिला बंदायू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से चोरी के सफेद व पीली धातु के भारी मात्रा में जेवरात व ?42,950/- नकद व चोरी करने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन बरामद कर थाना बांसी पर पंजीकृत मुअसं0- 366/2023 धारा 457,380 भादवि व थाना खेसरहा पर पंजीकृत मुअसं0- 275/2023 धारा 380 भादवि0 व थाना डुमरियागंज मुअसं- 317/2023 धारा 457, 380 भादवि0 का सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/413 भादवि0 की बढोत्तरी कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को न्यायालय भेजा गया मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्तगणों से पूछताछ किया गया तो बताये कि हम लोग गैंग बनाकर चार पहिया बाहन से अपने जनपद से काफी दूर के जनपदों में जाकर वहां के रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर वाहन को खड़ा कर ई-रिक्शा व टेम्पो से शाम को भ्रमण कर ऐसे घरों की रेकी करते है जो सड़क से काफी दूर न हो तथा बडे हो को तय/निश्चित करते है। हम लोग मोबाइल का प्रयोग नहीं करते है केवल दो मोबाइल फोन लेकर आते है एक मोबाइल गाडी में रहता है तथा दूसरा फोन गैंग लीडर नीलू उर्फ शान मोहम्मद के पास रहता है फोन बन्द रहते हैं।

वाई-फाई डिवाइस जो चार पहिया वाहन में लगी है, का इस्तेमाल करते है। हम लोग विशेष प्रकार के कटर व अन्य संसाधनों का प्रयोग कर तय/निशाना बनाये गये घरों में चोरी करने के उपरान्त ड्राइबर व अन्य साथियों को फोन आन कर लोकेशन भेजकर बुलाकर भाग जाते है । शान मोहम्मद अन्सारी उर्फ नीलू अन्सारी किसी अन्य जनपद में घटना करने के लिये हम लोगों को ले जा रहा था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की मनायी गयी जयन्ती

टाण्डा -अम्बेडकरनगर अवधनामा संवाददाता। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 99वें जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश मे मना रही है । इसी क्रम में टांडा नगर के मुबारकपुर शक्ति केंद्र पर भारत रत्न श्रधेय अटल बिहारी बाजपेयी जी का जन्म दिवस नगर प्रवासी आदित्य शुक्ला के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रधेय भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के विकास का खाका विकास पुरुष अटल जी द्वारा तैयार

किया गया था उन्ही के पदचिन्हों पर चल कर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। आज भाजपा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुआ है। आज भारत का नाम दुनिया के अग्रणी देशों में होता है।आने वाले 20 सालों में भारत पूर्ण रूप से विकसित हो कर दुनिया को नई दिशा देगा। जिसका पूरा श्रेय अटल जी को है कार्यक्रम का संचालन पूर्व महामंत्री अशोक विश्वकर्मा ने किया कार्यक्रम के संयोजक दीपक उपाध्याय ने सभी को मिठाई खिला कर बधाईयाँ दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से टाण्डा नगर भाजपा उपाध्यक्ष, विधान सभा संयोजक विधान सभा टाण्डा चुनाव प्रबंधन गौतम उपाध्याय, पूर्व प्रत्याशी ब्लाक प्रमुख टाण्डा एवं शक्ती केंद्र प्रवासी तेजस्वी जायसवाल, नगर मंत्री दुर्गेश पाठक, बूथ अध्यक्ष (118) कौशल मौर्य, निर्देश मांझी, पन्ना लाल गुप्ता, शिवम चौरसिया, पिंटू जायसवाल, किंसु गुप्ता, सतीश सोनी, हीरा लाल मोदनवाल, पन्ना लाल गुप्ता समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

साहबजादों का बलिदान हम सभी के लिए अनुकरणीय: सांसद हरीश द्विवेदी

अवधनामा संवाददाता

बस्ती। जिले में मंगलवार को भाजपा ने वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर दसवें सिक्ख गुरु गोविन्द सिंह के पुत्रों (साहिबजादों) बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिख समाज के प्रचारक हर्षदीप सिंह ने विस्तार से चर्चा किया। कार्यक्रम संयोजक राघवेंद्र सिंह, सह संयोजक राजन ठाकुर और आकाश ने जनपद के 26 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसके लिए अलग अलग मंडलो के संयोजक नियुक्त किये गए।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि 26 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीर बाल दिवस घोषित किया है। यह कार्यक्रम सिक्खों के दसवें गुरू गोविन्द सिंह के पुत्रों (साहिबजादों) बाबा जोरावर सिंह जिनकी उम्र मात्र सात वर्ष थी और बाबा फतेह सिंह जिनकी उम्र मात्र पांच वर्ष थी के अदम्य साहस, शौर्य और धर्म व देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके बलिदान की स्मृति में आयोजित किया गया है। सिक्ख गुरू गोविन्द सिंह के चार पुत्रों (साहिबजादों) में से बाबा अजीत सिंह और बाबा बाबा जुझार सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अत्याचारी मुगल आक्रान्ताओं के विरूद्ध युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त किया। जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहाँ धर्म के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन बर्बर मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। गुरु गोविंद सिंह के बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगलिया फौज के सेनापति वजीर खान ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, लेकिन उनके मुँह से उफ तक नहीं निकली। इस मौके पर कुलदीप सिंह सचदेवा, हरि सिंह, प्रीतम सिंह, दिलप्रीत सिंह, दिलजोत सिंह, देवजोत सिंह, इंद्रपाल सिंह, साहिब सिंह, चिंटूसिंह, रविंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, हरभजन सिंह, जगबीर सिंह आदि मौजूद रहे।

सोशल आडिट में विकास कार्यो का सत्यापन

पौली अवधनामा संवाददाता। विकास खंड पौली के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवबखरी, सोनहन, तेजपुर, सेवईपार, शनिचरा बाजार में सोशल ऑडिट टीम द्वारा मंगलवार को विकास कार्यों की धरातलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वित्तिय वर्ष 2022-23 की बैठक में ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यो कि पुष्टि कर अभिलेखों का सत्यापन किया गया। ऑडिट कर रहे सोशल ऑडिट टीम के क्राडीनेटर नीलम शर्मा, कालिन्दि यादव,देवेन्द्र तिवारी, सुनील वर्मा, राजकुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 मे ग्राम पंचायतो मे कराये गये मनरेगा कार्यो व पीएम आवास के लाभार्थीयो के आवास का धरातलीय निरीक्षण किया गया। इसी क्रम मे गाँवो मे कराये गये इन्टरलॉकिग व मिट्टी कार्य स्थलो पर साइन बोर्ड लगवाने को कहा गया। ग्रामीणो व मजदूरो से पुष्टि कर जाँच रिपोर्ट उच्च अधिकारियो को सौप दिया जायेगी। इस मौके पर सुनील सिंह , राम सुरेश यादव इमरान ,मोहम्मद शईद, संजय निषाद, राजेंद्र निषाद ,पवन कुमार, कृष्ण चंद्र यादव, सुनील यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

हैंड पम्प विगत दो वर्षों से पड़ा है खराब

बस्ती अवधनामा संवाददाता। परशुरामपुर विकास क्षेत्र के सडसी गांव निवासी सुनील पाठक के घर के पास लगा हैंड पम्प विगत दो वर्षे से खराब पड़ा। जिससे आसपास के दर्जनों लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं। सुनील पाठक ने बताया कि विगत दो वर्षो से हैंड पम्प खराब है। इसकी मौखिक शिकायत कई बार सचिव अरविंद चौहान से किया और आश्वासन भी दिए इसके बाद भी मरम्त कार्य नही कराए। आजिज आ कर इसकी शिकायत खण्ड विकास अधिकारी से भी इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके बाद आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत किया और खण्ड विकास अधिकारी ने एडीओ पंचायत को जांच सौपी। एडीओ पंचायत ने रिपोर्ट लगाया कि हैंड पम्प ठीक है और शुद्ध पानी दे रहा है। जबकि मरम्मत के नाम पर ग्राम पंचायत ने धन भी खारिज किया है। इसके बाद भी हैंड पंप कम मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं जब अधिकारी इतना गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं तो कर्मचारियों की क्या हाल होगी। ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन से हैंड पंप रिबोर करने की मांग की है।

योगी सरकार देश की छठी अर्थव्यवस्था से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम पाया है

अवधनामा संवाददाता

अंबेडकरनगर। विधानसभा क्षेत्र जलालपुर के हासिमपुर जिंदासपुर ग्राम पंचायत में भारत विकास यात्रा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव ने कहा भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के विगत 5 वर्षो में हमने उत्तर प्रदेश को मैनपॉवर के रूप में एक श्रेष्ठ बिजनेस एवं निवेश गंतव्य के रूप में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था के नवोन्भेषी स्थल के रूप में पूंजी के मूल्य वर्धन वाले राज्य के रूप में संस्थापित करने का प्रयास किया है। श्री यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश की छठी अर्थव्यवस्था से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम पाया है कारोबार एवं निवेश के दृष्टिकोण से देश में सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। लीड्स 2021 की रिपोर्ट में सात स्थानों की उल्लेखनीय चलांग लगाई है परंपरागत उद्योग को बढ़ाते हुए आज एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन से निर्यात को 1.56 लाख करोड रुपए वार्षिक तक करने में सफलता प्राप्त की है बैंक के सीधी रेशों में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री जी के समक्ष उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर यह कर व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है इसी कारण टीमवर्क और अंतर विभागीय समझने से भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित कर कार्य किया जा रहा है यही कारण है कि आज जनता की समस्याओं के तुरंत निराकरण की दिशा में तेजी से कार्य शुरू हुआ है शासन की कार्य प्रणाली में दक्षता पर दक्षता और समय बदलता साफ झलक रही है। आम आदमी के प्रति संवेदनशील योगी सरकार में अंत्योदय के संकल्प को सुनिश्चित कर गांव गरीब किसान महिला और युवा को शासन की हर नीति को केंद्र में रखा गया है। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी सरकार ने कानून और व्यवस्था पर मजबूत पकड़ तो बने ही रखी है माफियाओं और गुंडे बदमाशों के क कृतियों के विरुद्ध अपना अभियान जारी रखा है।

मरने के बाद भी उसका जिक्रे खैर बाकी रहता है: जमाल हैदर करबलाई

हल्लौर स्थित दरगाह में आयोजित हुई अहमद सुहेल इब्ने तवंगर के बरसी की मजलिस

अवधनामा संवाददाता

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। आलिम के मरने के बाद भी उस का ज़िक्रे खैर बाकी रहता है जब कि माल का फ़ाएदा उस के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है और येही मुआमला मालदारों का है कि दुनियां में माल ख़त्म होते ही उन का नाम तक मिट जाता है जबकि ऐसे लोगो का नाम रहती दुनियां तक बाकी रहता है।

उक्त बातें शनिवार शाम तहसील क्षेत्र के हल्लौर स्थित दरगाह हज़रत अब्बास में अहमद सुहेल इब्ने तवंगर हुसैन मरहूम के बरसी की मजलिस को संबोधित करते हुए ज़ाकिरे अहलेबैत जमाल हैदर करबलाई ने कही। उन्होंने कहा कि भलाई यह नहीं कि तुझे बहुत ज़ियादा माल व औलाद हासिल हो जाए बल्कि भलाई यह है कि तेरा इल्म ज़ियादा हो और हिल्म (यानी कुव्वते बरदाश्त) भी अज़ीम हो और अल्लाह पाक की इबादत इतनी ज़ियादा करे कि लोगों से आगे बढ़ जाए। जब तू नेकी करने में काम्याब हो जाए तो उस पर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करे और अगर गुनाह में पड़ जाए तो अल्लाह पाक से उस की बख्शिश मांगे और दुनियां में भलाई उस आदमी को हासिल होती है जो गुनाह हो जाने की सूरत में तौबा करके उस की इस्लाह कर लेता है या वह शख्स जो नेकियां करने में जल्दी करता है। अंत मे जनाबे अली अकबर के मसाएब बयान किया तो हर आंख में आंसू नज़र आये। मजलिस से पूर्व मुकामी शायरों ने अपने अपने कलाम के ज़रिए पुरसा पेश किया। मर्सियख्वानी के फ़रायज़ को अम्बर मेहदी, अब्बास अली और जलाल अहमद ने अंजाम दिया। मजलिस के दौरान एजाज़ अहमद, अब्बास अहमद लाडले, ज़ाकिरे अहलेबैत अज़ीम हैदर, ताक़ीब रिज़वी, फरीद हैदर, शादाब हैदर, तशबीब हसन, रेयाज हैदर, मूनिस हैदर, अलमदार हुसैन, फहीम हैदर, वसी हैदर, जव्वार हुसैन, बशीर हसन, काज़िम रज़ा, इशरत जमील, महफूज़, अकील हैदर, राजू मंत्री, तसकीन, सैयद हसन, आसिफ रिज़वी, अब्बास हैदर, मंज़र, शजर हैदर, अफसर मेंहदी, लकी, मीसम, रज्जन, ईदुशाह, उरूज हैदर, खुशहाल हैदर, वसीम पंजतन, बाबू, जिकरी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

रमेश धर का करही चौराहे पर भव्य स्वागत

रमेश धर द्विवेदी बने पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार समिति का सदस्य

अवधनामा संवाददाता

बांसी सिद्धार्थनगर। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता/ मिठवल मंडल अध्यक्ष रमेश धर द्विवेदी का करही चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को भव्य स्वागत किया गया। श्री द्विवेदी को भाजपा शीर्ष नेतृत्व द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे में सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने पर भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है।

सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने के बावत जानकारी देते हुए रमेश धर द्विवेदी ने बताया कि चयन से संबंधित प्रमाण पत्र उस्का रेलवे स्टेशन मास्टर द्वारा सोमवार को ही प्रदान किया गया। उन्होंने जानकारी दिया कि सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय पर भी जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान के नेतृत्व में स्वागत किया गया था। मंगलवार को करही चौराहे पर पहुंचने पर भाजपा अनु0 मोर्चा के जिलाध्यक्ष डा0 संजय गौतम व पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीरेन्द्र कुमार राव की अगुवाई में ग्राम प्रधान श्याम विहारी सहित भाजपा के मंडल महामंत्री संजय सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता इन्द्रजीत शुक्ल, दिलीप शुक्ल, अवधेश धर, परमात्मा चौधरी, जवाहर चौधरी, हीरालाल गौड, साहेब राम चौधरी, राजाराम उर्फ भगत, हरिश्चन्द्र यादव आदि द्वारा रमेश धर द्विवेदी का माल्यार्पण के अलावा अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया गया। श्री द्विवेदी के अनुसार उनका जन्म ही भाजपा परिवार में हुआ। परन्तु उन्होंने वर्ष 1991 से बूथ अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किया। जानकारी के अनुसार लगभग 11 वर्षो तक बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने मंडल कार्यकारिणी में स्थान बनाया। उन्होंने चार दशक से अधिक समय तक कर्मयोगी के रुप में भाजपा में निरंतर सेवा दिया। चर्चा है कि निष्ठा पूर्वक सेवा के फलस्वरूप पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सम्मान जनक पद प्रदान कर सम्मानित कर समाज में संदेश दिया। डा संजय गौतम ने बताया कि भाजपा में हर वर्ग के लिए समान अवसर प्राप्त है।भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि गुणवत्ता व कर्म के आधार पर आम को खास बनाने की कूबत है।

मांगो को लेकर लखनऊ में जुटेंगे रोजगार सेवक आज

डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। भनवापुर ब्लाक क्षेत्र के सभी रोजगार सेवक अपने मांगों को लेकर लखनऊ में आज जुटेंगे। मंगलवार को बीडीओ भनवापुर को प्रार्थना पत्र देकर सामूहिक अवकाश का मांग किया है। ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के ब्लाक अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को आठ सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया गया था। मुख्यमंत्री के द्वारा अब तक किए घोषणाओं को अमल में नही लाया गया, जिस पर 27 दिसम्बर को पूरे प्रदेश के रोजगार सेवक लखनऊ के दारुलसफा से मुख्यमन्त्री आवास तक मानव श्रृंखला बनाकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपने मांगो को पूरा करने के लिए निवेदन करेंगे। सभी रोजगार सेवकों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भनवापुर बीडीओ आलोक दत्त उपाध्याय को सामूहिक रूप से अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस दौरान अजय यादव, आलोक चौधरी, नीरज मिश्रा, विक्रम प्रसाद, जोखूराम, राजमणि, विजय पाल, विकास, रौनक, प्रवीन, संगीता आदि मौजूद रहे।

योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु महेश कुमार कानपुर में सम्मानित

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। इंडो-नेपाल बोर्डर के अतिपिछड़े क्षेत्र के साथ जनपद सिद्धार्थनगर को योग शिक्षा के शैली को घर घर पहुंचाने के प्रयास के साथ राष्ट्रीय पटल पर विगत सत वर्षो से विद्यालय के छात्रों के साथ संघर्ष कर रहे बेसिक शिक्षा परिषद के जिला स्काउट मास्टर महेश कुमार को इंटरनेशनल योगा प्राइम अवार्ड से कानपुर में सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल योगा थेरेपी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरनेशनल योगा प्राइम अवार्ड जो जिला कानपुर नगर के पदमपाद सिंघानिया ऑडिटोरियम मर्चेंट चैंबर में आयोजित हुआ। जिसमें योग के क्षेत्र में अतुल्य योगदान हेतु महेश कुमार को इंटरनेशनल योगा फेडरेशन के प्रेसिडेंट एम. एस देशवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय योग चिकित्सक संघ के अध्यक्ष आचार्य विपिन पथिक एवं भारतीय योग खेल संघ की महासचिव डॉ. लिम लहामू शेरपा ने सम्मानित किया। महेश कुमार को बतौर योगाचार्य देश भर के 22 राज्यों से आए हुए कुल 108 योगाचार्यों के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नन्दलाल यादव, विनय प्रकाश श्रीवास्तव, डॉ. रूबी श्रीवास्तव, अर्चना वर्मा आदि उपस्थित रहे।

उप्र उद्योग व्यापार संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन

सिद्धार्थनगर। उप्र उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष अजय कसौधन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मिलकर वर्तमान में आ रही व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया तथा समस्याओं के समाधान एवं जांच के नाम पर हो रहे उत्पीड़न रोकने हेतु उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में जनपद मुख्यालय पर सदर उपजिलाधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन की मदद से कुछ दिनों से प्लास्टिक कैरी बैग के नाम पर छोटे व्यापारियों व रेहड़ी पटरी व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न को रोके जाने की मांग की है। कहा गया कि प्लास्टिक कैरी बैग का फैक्ट्री से उत्पादन बन्द कर देने पर समस्या का स्वतः निराकरण हो जायेगा। इस तरह से मूल कारण को नजरन्दाज कर छोटे व्यापापरियों का उत्पीडन न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, जिसे तत्काल रोक जाए। इस पर जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि छपेमारी को रोक दिया जायेगा, परन्तु व्यापारी तत्काल ही प्लास्टिक कैरी बैग से हो रहे नुकसान को देखते हुए उसका अपनी दुकानों पर प्रयोग करना बंद कर दें।

सांसद ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से खरीदा ढकिया

अवधनामा संवाददाता

बढ़नी सिद्धार्थनगर। विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिहोरवा में रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल व अन्य वक्ताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए लाभ से वंचित पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य किया।

रविवार को शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़नी ब्लाक के सिहोरवा में आयोजित संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदंबिका पाल ने जानकारी देते हुए कहा देश के आजाद होने के समय देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जो आज बढकर 140 करोड़ पहुँच गई। आजादी के 67 सालों में सबको रोटी कपड़ा मकान बिजली, दवा, गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, शौचालय आदि का जो कार्य पूर्व की सरकारों ने नहीं किया था, वह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षो से कम के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास व सबके विश्वास के भाव से सुनिश्चित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ सर्फ पात्रों को ही मिलना है। सांसद ने कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टाल पर जा कर उनके द्वारा बनाए गए ढकिया को पैसा देकर खरीदने का कार्य किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं को आयुष्मान कार्ड देने के साथ सभी को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान खण्ड विकास अधिकारी धनन्जय सिंह, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष डा0पवन मिश्रा, ब्लाक अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे उर्फ बब्लू चौबे, युवा समाजसेवी अनिल अग्रहरि, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र तिवारी, विधानसभा संयोजक प्रभात तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि राजेन्द्र जायसवाल, प्रधान प्रतिनिधि शिवा तिवारी, महामंत्री राधेश्याम तिवारी, राजेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश पाण्डेय सहित सचिव, अधिकारी और कर्मचारी सहित बडी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामीणों की मौजूदगी रही।

वीर बाल दिवस पर भाजपा जिला कार्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सिद्धार्थनगर। भाजपा जिला कार्यालय पर वीर बाल दिवस के अवसर पर जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान के नेतृत्व में मंगलवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोबिन्द सिंह जी महाराज के साहिबजादों की पवित्र स्मृतियो को पार्टी कार्यकर्ताओं ने नमन किया। भाजपा जिला प्रभारी हरि चरण कुशवाहा ने कहा गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है- वीर बाल दिवस आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कन्हैया पासवान ने कहा हर शिष्य सिख है। जो भी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धावनत है, वह अपने आप में एक सिख है। उन्होंने कहा साहिबजादों का पावन बलिदान युगों-युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। उनके शौर्य, वीरता, समर्पण और बलिदान को कोटिशः नमन करता हूं। इस अवसर पर क्षेत्रिय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा शिवनाथ चौधरी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र पांडेय, जिला महामंत्री विजयकांत चतुर्वेदी, विपिन सिंह, जिला उपाध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, तेजू विश्वकर्मा, जिला मंत्री अजय उपाध्याय, सौरभ त्रिपाठी आदि पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हिचकोले खाता गठबन्धन

विपक्षी गठबन्धन के घटक दलो ने इस बैठक भी सिटो की नही सिटो के बंटवारे की तारीख तय की है। भाजपा आम चुनाव को लेकर जोश खरोश और आत्म विश्वास के साथ अपने कार्यकर्ता सहित खुद 2024 का माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिये मैदान में आ चुकी है। दिसम्बर बीतने को है मार्च में चुनाव की घोषणा होगी फ़िर चुनाव कार्यक्रम विपक्षी गठबन्धन अभी भी सीटो के बंटवारे के लिये अगली बैठक के लिये कार्यक्रम रक्खा है। प्रधानमंत्री के लिये बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने दलित चेहरा के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नाम को प्रस्तावित किया। विपक्ष की धारण है कि बिना कांग्रेस को साथ लिये भाजपा को हराया नही जा सकता। खड़गे ने कहा पहले चुनाव जीतने दीजिये फ़िर तय होगा। निश्चय ही सोनियां और राहुल के लिहाज से वह नम्र बने रहे। राहुल का तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। राहुल ने इससे अपना आकलन समझ लिया होगा।

अभी सीटो को बटवारा नहीं हुआ पर हालाकि सीटो का बटवारा सबसे ऊपर रक्खा गया है। पर रैलियों के लिये घोषण की गई है। जनवरी से गठबन्धन की रैलियां शुरू होगी। संयुक्त रैलियो में पटना, कोलकता, नागपुर और चेन्नई को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। गठबन्धन का सीटो के बंटवारे के समय देखने को मिलेगा। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। कई राज्यों में हार के बाद, चेन्नई में जीत के बाद वह अपने वोट में किसी को हिस्सा देने को तैयार नही दिख रही है। खासकर हिन्दी क्षेत्र किसी दल की खास दावेदारी न होने का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और पूरे दम खम के साथ इस क्षेत्र के सीटो पर उतरने के लिये तैयार है।

सीटो को लेकर गठबन्धन में अभी अपसी टकराव जारी है। जिसका प्रमाण है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बिहार को लेकर संशय है कि कोई बटवारे को लेकर सहमति बन पायेगी। क्योकि इन राज्यों में गठबन्धन दूसरे दल अपनी दावेदारी को लेकर पीछे नहीं है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक को लेकर कांग्रेस जोश में है पर सिर्फ जोश से काम नही चलने वाला है। जोश के साथ होश हो तभी कामयाबी मिलती है। मोदी और भाजपा के खिलाफ गठबन्धन और कांग्रेस कोई अपनी छवि न तो बना पा रहे है न रख पा रहे है। कुछ दिनों तक कांग्रेस मोदी के बरबक्स राहुल के खड़ा करने की कोशिश करती रही है। पर राहुल अपने वक्ताओं और कारनामो से अपने को हस्यास्पद बनाते रहे है। कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के बार में कह जाते रहे है। जनता उनकी छवि को लेकर गम्भीर नही है। पैदल यात्रा से जो थोड़ी बहुत छवि बनी थी वह अब मिट गयी है। मोदी के व्यक्तिव के आगे उनके व्यक्तिव का कोई मुकाबला नही है न तो मोदी की सोच से राहुल की सोच का कोई मुकाबला हो सकता है। जनता अब राहुल के बहुत हलके से ले रही है। वह दाढ़ी बढ़ा मन्दिरों में मोदी के मुकाबले अपना व्यक्तित्व गढ़ना चाहते है पर कोई गम्भीरता से नही ले रहा है। ममता केजरीवाल ने राहुल को होड़ से बाहर कर दिया है।

मोदी की अपनी स्टाइल और सोच है जिसका लोहा दुनियां माना है। बड़े देशो के सभी राष्ट्रध्यक्ष मोदी के मुरीद है, अपने देश का सबसे बड़ा आनर उनके दे रहे है। अन्तरराष्ट्रीय मामलों में उनकी राय को गम्भीरता से लिया जाता है। दुनियां मानती है शाक्तिशाली व्यक्ति में तीन साल से सबसे ऊपर आ रहे है। खड़गे को लेकर गठबन्धन की सहमति बन सकती है पर अभी सम्भावना की बात हो रही है। जब सभी एकमत हो किसी का नाम नेतृत्व के लिये आगे करेगे तो एक से ज्यादे दावेदार अपने को पेश करवा सकते है। अभी सहमति कुछ मुद्दो पर भले दिख रही है पर जब आखिरी निर्णय की घड़ी आयेगी तो सहमति असहमति में बदलने में देर नही लगेगी।

सदस्यों के निलम्बन को लेकर अभी गठबन्धन ने खड़गे को आगे कर संयुक्त मोर्चा मोदी के खिलाफनिकाला है। पर सहमति सिर्फअसहमत दिखाने का प्रतीकात्मक कदम ही माना जायेगा। दरसल अभी गठबन्धन तय नहीं कर पाया है कि नेतृत्व किसे दिया जाय। निश्चत ही वह प्रधानमंत्री बनाने को इच्छुक होगा। पर अभी प्रधानमंत्री का निर्णय चुनाव के बाद लिया जायेगा। कह कर इस मुद्दे को टाल दिया गया है।

अगर विपक्ष मोदी की तुलना में किसी को खड़ा करती है तो पहले तो यही लोग देखेगे कि वह मोदी के समकक्ष तुलना में कितना प्रभावशाली है। खड़गे सिजन्ड नेता जरूर है पर सोनियां और राहुल के आगे दब दबे से रहते है। कोई भी निर्णय स्वतन्त्र रूप से लेते भी है तो स्वीकृति के लिये सोनियां राहुल के पास जरूर जाते है। गठबन्धन जब उनका नाम नेतृत्व के लिये तय करेगी तो खड़गे की इस कमजोरी को नजरन्दाज करना होगा जो सम्भव नही दिखता है। मोदी के सक्षम शरद पवार खड़े हो सकते है पर उनका स्वास्थ्य और उनकी पार्टी के सदस्यों की कम संख्या उनके लिये बाधा है। गठबन्धन उनका नाम भी नहीं ले रहा है। देखा जाता है जब ऐसी स्थति आती है तो विभिन्न दल ऐसे आदमी को चुनता है जिस पर उनका दबाव बन सके। अभी तक ऐसी स्थिति में जो पीएम बने है उनका यही रिकार्ड है।

पश्चिम दर्शन से दिग्गभ्रमित युवा वर्ग

संजीव ठाकुर

समय के परिवर्तन के साथ ही भौतिकता ने अपना परचम फैलाना शुरू कर दिया हैद्य पाश्चात्य शैली की आधुनिकता ने वैदिक और संस्कारी परिवारों में विखंडन की बड़ी विभीषिका ने आमद शुरू कर दी है। बड़े औभौतिकवाद की आधुनिकता से विखंडित होते संयुक्त परिवार। (पश्चिम दर्शन से दिग्गभ्रमित युवा वर्ग) संस्कारी परिवार गिनती के शेष रह गए हैं। परिवारों में स्नेह,प्यार और आपसी सम्मान की भावनाओं में बेहद कमी होने लगी है। भारत मूलतः परंपरावादी वैदिक तथा सनातनी देश है पर आधुनिकता ने देश के संयुक्त परिवारों को खंडित कर दिया है। अधिकांश परिवार अब एकल परिवार में परिवर्तित हो गए हैं ऐसे में बुजुर्ग तथा बच्चे सबसे ज्यादा इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। आधुनिक जीवन शैली ने माता पिता को नन्हे बच्चों से दूर कर दिया है इसी तरह बुजुर्गों के साथ उनकी संतानों की संवेदनहीनता ने असहाय सा बना दिया है। बच्चों तथा बुजुर्गों को इसी समय सबसे ज्यादा अपने माता पिता तथा संतानों के सहयोग एवं संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। यदि आधुनिक जीवन शैली के कारण बुजुर्गों तथा बच्चों का उनके अभिभावक एवं पुत्रों पुत्रियों के साथ संवाद हीनता एक बड़ी पीड़ा का कारण बन जाति है। भारत में सर्वे के अनुसार बुजुर्गों और नौजवान पीढ़ी के बीच संवाद हीनता एक चिंताजनक स्वरूप ले चुका हैद्य बुजुर्ग एकाकीपन से अब मानसिक रोगों के शिकार होने लगे हैं। जिन बुजुर्गों को चलने फिरने और बाहर जाने में परेशानी होती है उनके लिए नौजवान पीढ़ी के साथ संवाद हीनता परेशानी का एक बड़ा सबक बन चुका हैद्य महिला तथा पुरुष बुजुर्गों के साथ यह समस्या बृहद रूप लेकर सामाजिक समस्या बन गई हैद्य बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं इनका जीवन के हर दृष्टिकोण में संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह बच्चों को नैतिक तथा बुनियादी शिक्षा देकर उन्हें देश का अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी दम पत्तियों पर होती है पर वर्तमान में बच्चे मां बाप से दूर होते जा रहे हैं और बुजुर्ग अपनी संतानों से मोबाइल ,व्हाट्सएप फेसबुक और इंटरनेट ने नौजवान पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच एक बड़ा संवाद हीनता का संकट पैदा कर दिया है। बुजुर्ग यदि अपने मन की बात किसी से कह नहीं सकेंगे तो उन्हें मानसिक रूप से बीमारी का संकट हो सकता है। नौजवान पीढ़ी को खाली समय में मोबाइल कंप्यूटर में फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए यह संकट और गहराने का खतरा बढ़ता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बुजुर्गों का अनुभव उनका ज्ञान परिवार,समाज तथा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक तकदीस फ़ातिमा रिज़वी ने ग्रुप-5 प्रकाशन, 55-बी, वज़ीर हसन रोड, लखनऊ से मुद्रित कराकर प्रथम तल, मस्जिद नूर महल, साकेत पल्ली, नरही, लखनऊ से प्रकाशित किया।

किसी भी लेख में कोई विवाद के लिए 'अवधनामा' जिम्मेदार नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी लेखक की है। किसी भी समाचार के विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

पोलिटिकल एडीटर : एम.एम. मोहसिन

स्थानीय संपादक

मोहम्मद आलम रिज़वी

RNI No UPHIN/2010/31173

टेली फैक्स नं. : 2288091, 4065716

avadhnamahindi@gmail.com,

धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्यटन उद्योग में जिस तरह का उछाल आया वह इस दावे को सही साबित करने के लिए पर्याप्त है कि घाटी में आतंकवादी ताकतें कमजोर हुई हैं। इसका कारण जनता का भी उनसे दूरी बनाना है। स्थानीय निवासियों को ये बात समझ में आने लगी है कि आतंकवाद के रहते उसके जीवन में शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। आंकड़ों के आलोक में बात की जाए तो धारा 370 समाप्त होने से पहले जम्मू कश्मरी की जीएसडीपी 1 लाख करोड़ रूपए था, जो सिर्फ 5 साल में डबल होकर आज 2,27,927 करोड़ रूपए हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हताश अलगाववादी

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त करने और राज्य का विभाजन किए जाने के फैसले को सही बताए जाने के बाद घाटी में सक्रिय भारत विरोधी ताकतों की बौखलाहट में इजाफा हुआ है। अदालत के आदेश पर केंद्र ने विधानसभा चुनाव करवाने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिये हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य से

राजेश माहेश्वरी

जुड़े जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 पारित हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सरकार की तैयारियों और कार्रवाई से जम्मू-कश्मीर को अपनी बपौती समझने वाले चंद राजनीतिक परिवार और दल बहुत बेचैन हैं। अदालत के फैसले से उनकी बची खुची उम्मीदें भी दफन हो गई हैं।

5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति पर कुंडली मारकर बैठे दल धमकियां देने पर उतर आये थे। गुस्से और बौखलाहट में उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन मोदी सरकार ने इस सारी स्थिति को बड़ी सूझबूझ से संभाला। मोदी सरकार के धारा 370 को हटाने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के निपटारे तक घाटी में कार्यरत पाकिस्तान समर्थक नेताओं और संगठनों की उम्मीदें जीवित थीं किंतु फैसला आने के बाद वे हताश हो उठे। जम्मू अंचल में विधानसभा सीटें बढ़ जाने से अलगाववादी काफी चिंतित हैं। राज्य की राजनीति में घाटी का जो दबदबा था वह खत्म तो मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही होने लगा था। रही-सही कसर पूरी हो गई धारा 370 हटाए जाने के बाद बने हालातों से। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया है कि कोई ताकत दोबारा 370 लागू नहीं कर सकती।

बीते काफी समय से घाटी में पाकिस्तान प्रवर्तित आतंकवादी निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के साथ ही छुट्टी पर घर लौटे फौजी भी उनका निशाना बनते हैं। बीच-बीच में कुछ ऐसे लोग भी गोलियों के शिकार बने जिनका शासन या प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। अनेक मर्तबा मस्जिदों पर भी वे धावा बोल चुके हैं। अदालत के फैसले के बाद अलगाववादियों में उपजी निराशा से घाटी में फौजी काफिले पर हमले जैसी घटनाएं देखने मिल रही हैं। लेकिन मस्जिद में अजान दे रहे पूर्व पुलिस अधिकारी की हत्या निश्चित रूप से साबित करती है कि आतंकवादी बदहवासी पर उतर आए हैं।

सुरक्षाबलों की संयुक्त कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के बाद आतंकवादी लगातार कमजोर बिंदुओं की तलाश कर रहे हैं। कभी लक्षित हत्याओं, घात लगाकर किए जा रहे हमलों तो कभी सेना पर सीधे अटैक के जरिए पीर पंजाल क्षेत्र को आतंक के केंद्र के रूप में फिर से सक्रिय करने की आतंकी मंशा दिखती है। सेना द्वारा किसी

आतंकवादी को मारे जाने पर हल्ला मचाने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती ब्रांड नेताओं द्वारा न तो किसी शिक्षक की हत्या पर आंसू बहाए गए न ही वर्दीधारी पुलिस कर्मी अथवा फौजी जवान या अधिकारी की। गत दिवस बारामूला में की गई हत्या मस्जिद में की गई किंतु घाटी के नेताओं ने मुंह में दही जमा रखा है। इस सबसे लगता है कि ज्यों-ज्यों चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी त्यों-त्यों घाटी को अशांत करने वाली घटनाएं दोहराई जा सकती हैं।

धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की दशा और दिशा में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पर्यटन उद्योग में जिस तरह का उछाल आया वह इस दावे को सही साबित करने के लिए पर्याप्त है कि घाटी में आतंकवादी ताकतें कमजोर हुई हैं। इसका कारण जनता का भी उनसे दूरी बनाना है। स्थानीय निवासियों को ये बात समझ में आने लगी है कि आतंकवाद के रहते उसके जीवन में शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। आंकड़ों के आलोक में बात की जाए तो धारा 370 समाप्त होने से पहले जम्मू कष्मरी की जीएसडीपी 1 लाख करोड़ रूपए था, जो सिर्फ 5 साल में डबल होकर आज 2,27,927 करोड़ रूपए हो गई है। पहले 94 डिग्री कॉलेज थे, आज 147 हैं, आईआईटी, आईआईएम और 2 एम्स के वाला जम्मू और कश्मीर पहला राज्य बन चुका है। पिछले 70 सालों में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 15 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए गए हैं, पहले मेडिकल सीटें 500 थीं अब धारा 370 समाप्त होने के बाद 800 और सीटें जोड़ी गई हैं। पीजी सीटें 367 थीं, मोदी सरकार ने 397 नई सीटें जोड़ने का काम किया है। मिड-डे मील लगभग 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9,13,000 लोगों को मिड-डे मील मिलता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की औसत 158 किलोमीटर थी, अब 8,068 किलोमीटर प्रति साल हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 सालों में 24,000 घर दिए गए थे, पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने 1,45,000 लोगों को घर दिए हैं। 70 सालों में 4 पीढ़ियों ने 7,82,000 लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया, अब मोदी सरकार ने और 13 लाख परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया है। खेलों में जम्मू कश्मीर के युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची है। पेंशन के लाभार्थी 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारा परिवर्तन धारा 370 हटने के बाद हुआ है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद घटा है जिसके कारण वहां अच्छा वातावरण बना है और इसी के कारण वहां इतना विकास हो सका है। घाटी के नेताओं को यह बात अखर रही है। दरअसल ये सब राज्य में पिछले चार वर्षों के दौरान बने शांतिपूर्ण वातावरण को खत्म कर एक बार फिर घाटी को हिंसा की आग में झोंकने का षड्यंत्र है। इसे अलगाववादी नेता और उनकी पार्टियां परदे के पीछे रहते हुए समर्थन और सहायता दे रही हैं। ये वही तबका है जिसने चेतावनी दी थी कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार की तगड़ी मोर्चेबंदी के कारण जब उस फैसले के बाद कश्मीर घाटी में भारत विरोधी ताकतों की कमर टूटने लगी है। आम जनता विकास और बदलाव की दिशा में बढ़ चली है। उसे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिल रहा है। ऐसे में लोगों के बदलते नजरिए से परेशान अलगावादी ताकतें डर का माहौल बनाने की कोशिशों में जुटी हैं, ताकि लोग मुख्यधारा का हिस्सा बनने से डरें।

कश्मीर का विशेष दर्जा अब इतिहास बन चुका है। ऐसे में आतंकवाद के समर्थक किसी भी गुप्त असंतोष का लाभ उठाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी ताकि नए हालात में आतंकवादियों और उनके आकाओं को सिर उठाने का कोई बहाना न मिले। जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। स्थानीय समुदाय के भीतर स्लीपर सेल का पता लगाने के साथ-साथ आतंकियों के घुसपैठ से लड़ते हुए सेना शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करती है। बहुत ज्यादा दबाव, खतरनाक जिम्मेदारियां, गलत फैसले या गलतियों का कारण बन सकती हैं।

मिर्जा गालिब : गहन मानवीय चेतना के चितेरे

मिर्जा ग़ालिब शायरी के लोग आज भी दीवाने हैं कोई भी महफिल गालिब की शायरी के अधूरी है। उनका जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1797 को एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा बचपन ताजनगरी में ही बीता। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद-उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब था। उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था, गालिब का जीवनयापन मूलतः अपने चाचा के मरणोपरांत मिलने वाले पेंशन से होता था। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान मध्य एशिया के समरकन्द से सन् 1750 के आसपास अहमद शाह के शासन काल में भारत आये।

मिर्जा ग़ालिब उर्दू-फ़ारसी के प्रख्यात कवि तथा महान् शायर थे। वे सर्व-धर्म-सद्भाव एवं मानवीय चेतना के चितेरे थे। ग़ालिब का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक एवं बहुआयामी था। उनका जीवन संघर्ष से भागते या पलायन करते हुए नहीं बिता और न इनकी कविता एवं शायरी में कहीं निराशा का नाम है। वह इस संघर्ष को जीवन का एक अंश तथा आवश्यक अंग समझते थे। मानव की उच्चता तथा मनुष्यत्व को सब कुछ मानकर उसके भावों तथा विचारों का वर्णन करने में वह अत्यन्त निपुण थे और यह वर्णनशैली ऐसे नए ढंग की है कि इसे

ललित गर्ग

पढ़कर शताब्दियों बाद भी पाठक मुग्ध हो जाता है। ग़ालिब में जिस प्रकार शारीरिक सौंदर्य था, उसी प्रकार उनकी प्रकृति में विनोदप्रियता तथा वक्रता भी थी और ये सब विशेषताएं उनकी कविता एवं शायरी में यत्र-तत्र झलकती रहती हैं। चिन्ताओं से संघर्ष में इनकी सहायक एक तो थी शराब, जिन्दगी के अंतिम समय में जुए की लत भी लग गई। उन्हें शुरू से शतरंज और चौसर खेलने की आदत थी। अक्सर मित्र-मण्डली जमा होती और खेल-तमाशों में वक्त कटता था। अपने मदिरा प्रेम के कारण जो भाव प्रकट किए हैं, वे शेर ऐसे चुटीले तथा विनोदपूर्ण हैं कि उनका जोड़ उर्दू कविता में अन्यत्र नहीं मिलता।

हर जुबां का वो आसरा...उसके दिल में धड़कता था आगरा... गालिब को पूरी दुनिया जानती है, उनकी शायरी का सम्मान करती है। उनकी शायरी के लोग आज भी दीवाने हैं कोई भी महफिल गालिब की शायरी के अधूरी है। उनका जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1797 को एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनका पूरा बचपन ताजनगरी में ही बीता। मिर्जा गालिब का पूरा नाम मिर्जा असद-उल्लाह बेग खां उर्फ गालिब था। उन्होंने अपने पिता और चाचा को बचपन में ही खो दिया था, गालिब का जीवनयापन मूलतः अपने चाचा के मरणोपरांत मिलने वाले पेंशन से होता था। गालिब की पृष्ठभूमि एक तुर्क परिवार से थी और इनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान मध्य एशिया के समरकन्द से सन् 1750 के आसपास अहमद शाह के शासन काल में भारत आये। उन्होंने दिल्ली, लाहौर व जयपुर में काम किया और अन्ततः आगरा में बस गये। गालिब के पिता मिर्जा अब्दुल्ला बेग ने इज्जत-उत-निसा बेगम से निकाह किया और अपने ससुर के घर में रहने लगे। उन्होने पहले लखनऊ के नवाब और बाद में हैदराबाद के निजाम के यहाँ काम किया। 1802 में अलवर में एक युद्ध में उनकी मृत्यु के समय गालिब मात्र 5 वर्ष के थे। जब गालिब छोटे थे तो एक नव-मुस्लिम-वर्तित ईरान से दिल्ली आए थे और उनके सान्निध्य में रहकर गालिब ने फारसी सीखी। जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही वह दिल्ली चले गए। यहां जाने के बाद भी ताउम्र मिर्जा गालिब के दिल व दिमाग में आगरा छाया रहा। आगरा में गालिब के जन्मस्थान को ÷इन्द्रभान कन्या अन्तर

महाविद्यालय÷ में बदल दिया गया है, जिस कमरे में गालिब का जन्म हुआ था उसे आज भी सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली के चांदनी चौक के बल्लीमारान इलाके के कासिम जान गली में स्थित गालिब के घर को ÷गालिब मेमोरियल÷ में तब्दील कर दिया गया।

गालिब की प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अधिकतर फारसी और उर्दू में पारम्परिक भक्ति और सौन्दर्य रस पर रचनायें लिखी। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनो में पारंपरिक गीत काव्य की रहस्यमय-रोमांटिक शैली में सबसे व्यापक रूप से लिखा और यह गजल के रूप में जाना जाता है। उनकी शायरियों में गहन साहित्य और क्लिष्ट भाषा का समावेश था। उन्होंने अपनी शायरी का बड़ा हिस्सा असद के नाम से लिखा है। गालिब हिंदुस्तान में उर्दू अदबी के दुनिया के सबसे रोचक किरदार थे। उनकी जड़ें तुर्क से थीं। वे फारसी कविता को भारतीय भाषा में लोकप्रिय करने में माहिर थे, उन्हें पत्र लिखने का बहुत शौक था। इसीलिए उन्हें पत्र-पुरोधा भी कहा जाता था। आज भी उनके पत्रों को उर्दू साहित्य में एक अहम विरासत माना जाता है। मिर्जा गालिब ने 11 वर्ष की छोटी उम्र में ही अपनी पहली कविता लिखी थी। मिर्जा गालिब की मातृभाषा उर्दू थी लेकिन तुर्की और फारसी भाषाओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उन्होंने अरबी, फारसी, दर्शन और तर्कशक्ति का भी अध्ययन किया था।

बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1850 ई. में गालिब को दबीर-उल-मुल्क और नज्म-उद-दौला की उपाधि प्रदान की थी। इसके अलावा बहादुर शाह जफर द्वितीय ने गालिब को मिर्जा नोशा की उपाधि प्रदान की थी, जिसके बाद गालिब के नाम के साथ मिर्जा शब्द जुड़ गया। तबियत से खुद एक शायर बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कविता सीखने के उद्देश्य से 1854 में गालिब को अपना शिक्षक नियुक्त किया था। बाद में बहादुर शाह जफर ने गालिब को अपने बड़े बेटे शहजादा फखरूदीन मिर्जा का भी शिक्षक नियुक्त किया था। इसके अलावा गालिब मुगल दरबार में शाही इतिहासविद के रूप में भी काम करते थे।

मिर्ज़ा के विषय में पहली बात तो यह है कि वह अत्यन्त शिष्ट एवं मित्रप्रेमी थे। जो कोई उनसे मिलने आता, उससे खुले दिल से मिलते थे। इसीलिए जो आदमी एक बार इनसे मिलता था, उसे सदा इनसे मिलने की इच्छा बनी रहती थी। मित्रों के प्रति अत्यन्त वफ़ादार थे। उनकी खुशी में खुशी, उनके दुःख में दुःखी। मित्रों को देखकर बाग़-बाग़ हो जाते थे। उनके मित्रों का बहुत बड़ा दायरा था। उसमें हर जाति, धर्म और प्रान्त के लोग थे। वैसे वे शिया मुसलमान थे, पर मज़हब की भावनाओं में बहुत उदार और स्वतंत्र चेता थे। ग़ालिब सदा किराये के मकानों में रहे, अपना मकान न बनवा सके। ऐसा मकान ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें बैठकख़ाना जरूर हो और उनके दरवाज़े भी अलग हों, जिससे यार-दोस्त बेझिझक आ-जा सकें। खाने-खिलाने के शौक़ीन, स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रेमी थे। उन्हें हम स्नेह एवं मित्रता की छांह देने वाले बरगद कहे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। साल 1847 में जुआ खेलने के जुर्म में गालिब को जेल भी जाना पड़ा था और उन्हें 200 रूपए जुर्माना और सश्रम कारावास की सजा दी गई थी। एक मुसलमान होने के बावजूद गालिब ने कभी रोजा नहीं रखा। एक जानकारी के मुताबिक ये किस्सा गदर के दिनों का है। उस वक्त जब दिल्ली से मुसलमान बाहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन मिर्जा गालिब वहीं रहे। इन्हीं दिनों उनका सामना एक अंग्रेज कर्नल से हो गया। अंग्रेज कर्नल ने मिर्जा गालिब के कपड़े देखकर उनसे सवाल किया, क्या आप मुसलमान हैं? ये सवाल सुनकर मिर्जा गालिब ने ऐसा जवाब दिया कि अंग्रेज कर्नल हैरान और हक्का बक्का रह गया। उन्होंने अंग्रेज कर्नल को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि मैं आधा मुसलमान हूं। ये जवाब सुनकर अंग्रेज कर्नल ने अगला सवाल दागा और पूछा कि ऐसा कैसे कि आप आधे मुसलमान हैं?

ख़ालिद मशाल का ख़िताब भारत जैसे जमहूरी हुकूमत में!

रेशम फ़ातिमा

मज़हबी पहलू अक्सर इसराईल फ़िलिस्तीन तनाज़े के साथ मुंसलिक होते हैं। मस्जिद-ए-अक़्सा इस्लाम में आला अहमियत के हामिल है और इससे मुताल्लिक़ कोई भी अमल या बयान दुनिया-भर की मुस्लिम कम्यूनिटी में शदीद जज़्बात को उरूज दे सकता है। ख़ालिद मशाल की अल-अक़्सा की हिमायत करने की दरख़ास्त बहुत से लोगों के साथ गूँजती है जो इस मसले को मज़हबी नज़र से देखते हैं। ताहम, ये याद रखना ज़रूरी है कि तनाज़ा ख़ुद कसीर जेहती, सियासी, तारीख़ी और इलाक़ाई जेहतों के साथ है। जबकि फ़िलिस्तीनी काज़ बहुत से लोगों के लिए ख़ासतौर पर इन्साफ़ और इन्सानी हुक़ूक़ की वकालत करने वालों के लिए इंतिहाई तश्वीश का बाइस बना हुआ है।

हालिया ख़बरों में, हम्मास के क़ाइद ख़ालिद मशाल ने फ़िलिस्तीन के हक़ में रैली को वर्चूअल ख़िताब किया जो जमात-ए-इस्लामी यूथ विंग, सोलेडारेटी यूथ मूवमेंट ने मल्लापुरम में मुनज़्ज़म किया था, जिसने गर्म मुकालमा और ख़दशात को केराला में उरूज किया। इस ख़िताब ने सिर्फ रियासत के सियासी जमात की तवज्जो को मुतहर्रिक नही किया बल्कि हिंदोस्तान में इसराईल के सफ़ीर नूर गेलोन के शदीद रद्द-ए-अमल को भी मबजूल किया। मशाल का ख़िताब फ़िलिस्तीनी मामला के हामियों को वरग़लाने के लिए था। उन्होंने फ़िलिस्तीन की हिमायत और मस्जिद-ए-अकसा की बहाली के लिए मुश्तर्का कोशिशें करने की ज़रूरत पर तवज्जो मर्कूज़ किया।

ख़ालिद के ख़िताब ने ग़ौर के लिए कई तन्क़ीदी नुकात को फ़रोग़ दिया है। ख़ालिद मशाल फ़िलिस्तीनी तंज़ीम हम्मास की क़यादत करते हैं जिसे अक़वाम-ए-मुत्तहिदा और कई ममालिक ने दहशतगर्द तंज़ीम के तौर पर ऐलान किया है। ये नाम, ख़ासतौर पर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जानिब से, हम्मास को एक पेचीदा हालत में रखता है। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे फ़िलिस्तीन लिबरेशन आर्गेनाईज़ेशन (पीएलओ) को फ़िलिस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए काबिल-ए-एतमाद इदारा तस्लीम करते हैं। इसके बरअक्स, हम्मास 1970 की दहाई में अच्छी कुव्वत हासिल की और उसने पीएलओ की अथार्टी के मुअस्सर तरीक़े को क़बूल नहीं किया। इससे हम्मास की क़ानूनी हैसियत के बारे में सवालात उठते हैं और क्या ये वाक़ई फ़िलिस्तीनी अवाम की उम्मीदों की नुमाइंदगी करती है। ये हक़ीक़त है कि हम्मास को अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की तरफ़ से दहशतगर्द तंज़ीम क़रार दिया गया है। ये दर्जा-बन्दी इस ग्रुप की सरगर्मीयों की नौइयत और इसके मक़ासिद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल पर बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की अक्कासी करती है। फ़िलिस्तीनी क़यादत के अंदर तक़सीम तवील अर्से से फ़िलिस्तीनी इसराईल तनाज़ा के लिए एक मुत्तफ़िक़ा नुक़्ता-ए-नज़र के हुसूल में एक रुकावट है। हिन्दोस्तान समेत अक़्वाम के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसी तन्ज़ीमों के साथ अपनी बातचीत में एहतियात से चलें, इन ओहदों से वाबस्ता वसीअ-तर मुज़म्मिरात और क़ानूनी ज़िम्मेदारीयों को मद्द-ए-नज़र रखते हुए।

मज़हबी पहलू अक्सर इसराईल फ़िलिस्तीन तनाज़े के साथ मुंसलिक होते हैं। मस्जिद-ए-अक़्सा इस्लाम में आला अहमियत के हामिल है और इससे मुताल्लिक़ कोई भी अमल या बयान दुनिया-भर की मुस्लिम कम्यूनिटी में शदीद जज़्बात को उरूज दे सकता है। ख़ालिद मशाल की अल-अक़्सा की हिमायत करने की दरख़ास्त बहुत से लोगों के साथ गूँजती है जो इस मसले को मज़हबी नज़र से देखते हैं। ताहम, ये याद रखना ज़रूरी है कि तनाज़ा ख़ुद कसीर जेहती, सियासी, तारीख़ी और इलाक़ाई जेहतों के साथ है। जबकि फ़िलिस्तीनी काज़ बहुत से लोगों के लिए ख़ासतौर पर इन्साफ़ और इन्सानी हुक़ूक़ की वकालत करने वालों के लिए इंतिहाई तश्वीश का बाइस बना हुआ है। इस बात को यक़ीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी मक़सद की हिमायत में किए गए एक़दामात नादानिस्ता तौर पर मुआशरे में बदअमनी को फ़रोग़ ना दें। किसी ख़ास मसले पर इज़हार-ए-यकजेहती और समाजी हम-आहंगी को बरक़रार रखने के दरमियान तवाज़ुन क़ायम करना एक नाज़ुक काम है।

ख़ालिद मशाल के ख़िताब और इसराईल और फ़िलिस्तीन के वसीअ-तर तनाज़े के गिर्द तनाज़ा और बहस के दरमियान, ये याद रखने की ज़रूरत है कि ग़ज़ा की सूरत-ए-हाल ऐसी है जिस पर कई हलक़ों से गहरी तश्वीश और तन्क़ीद की गई है। जबकि इसराईल फ़िलिस्तीन तनाज़ा की पेचीदगियां नाक़ाबिले-तरदीद हैं, फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान तनासुब और शहरी ज़िंदगियों के एहतराम के उसूलों को बरक़रार रखने की ज़रूरत एक आलमी अख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है। इन एक़दामात का तन्क़ीदी जायज़ा लिया जाना चाहिए, और इन्सानी हुक़ूक़ और बैनुल-अक़्वामी क़ानून की किसी भी ख़िलाफ़-वर्ज़ी की मुज़म्मत की जानी चाहिए। तामीरी बातचीत, सिफ़ारत-कारी और बैनुल-अक़्वामी तआवुन के ज़रिये ही हम इस तवील तनाज़ा का मुंसिफ़ाना और दाइम हल तलाश करने की उम्मीद कर सकते हैं। अमन के हुसूल में, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ग़ज़ा के लोगों को दरपेश मसाइब और नुक़्सान को लोगों के नज़र और तवज्जो से ग़ायब नहीं होने देना चाहते।

विश्व युद्ध की आशंका।
सिर्फ युद्ध का उन्माद,
डरा देता है अंदर तक,
दिल और दिमाग
सहम जाते हैं,
आने वाले कल की
भयानक तस्वीर,
विभीषिका मानव को
कंप्लीट कर देती है।
क्या हम भूल गए
नागासाकी की विभीषिका को,
अभी भी जापान में
मानव जाति कराह रही है,
अणु और परमाणु बमों की
त्रासदाई पीड़ा और संत्रास से,
क्या हम भूल गए हिरोशिमा के विनाश को जहां मानवता रोती कराती बिलबिला रही है,
निर्दयी बम और बारूद के
निर्दयी संताप से,
मानव की कई पीढ़ियां
उसके प्रभाव को झेल रही है।
अब फिर यूक्रेन और रूस,
कमजोर यूक्रेन पर हमला,
कमजोर होना निर्मल होना
क्या जीवन जीने का
हक छीन लेती है? -**संजीव ठाकुर**

पीएम की रैली में तीन लाख लोगों को आमंत्रित करने की तैयारी

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अब तीन लाख लोगों को आमंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह संख्या दो लाख तय की गई थी। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह व क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने सर्किट हाउस में बैठक की। इसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर व बाराबंकी के जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि हर बूथ तक पीएम का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की है। रैली में सभी क्षेत्रों से लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कहा कि चारों जनपदों में बैठकें करके जनसभा व स्वागत कार्यक्रम की कार्ययोजना बना ली जाए।

■ बैठक में हुई तैयारी

जनता तक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का आमंत्रण पहुंचाने व उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने की जिम्मेदारी पदाधिकारियों की है। प्रदेश महामंत्री व क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने कहा कि जिला स्तर पर पदाधिकारी रोजाना तैयारियों की समीक्षा करें। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, सांसद लल्लू सिंह व उपेन्द्र रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्त, रामचंद्र यादव, डॉ. अमित सिंह चौहान, जिला प्रभारी मिथिलेश त्रिपाठी, महानगर प्रभारी विजय प्रताप सिंह, अंबेडकर नगर जिलाध्यक्ष त्रयंबक तिवारी, बाराबंकी के अरविंद मौर्य व सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष डॉ. आरए वर्मा मौजूद रहे।

टीएमयू को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजी 100 अवार्ड

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद देश के टॉप 100 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटीज में चुनी गई है। इसे न्यू ईयर 2024 का अविस्मरणीय तोहफा कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए।

इस सम्मान से गदगद टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश जैन, जीवीसी मनीष जैन और एग्जीक्यूटिव अक्षत जैन कहते हैं, यह पुरस्कार यूनिवर्सिटी में डिजिटली परिवर्तन का प्रतिफल है। हम प्रारंभ से ही टीएमयू में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रबल पैरोकार रहे हैं। नतीजतन एनईपी 2020 को यूनिवर्सिटी ने बेहद संजीदगी और सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्रियान्वित किया है। एक नामचीन पब्लिशिंग की ओर से छात्र कल्याण और सफलता के लिए डिजिटल लाभांश को अनलॉक करने को लेकर डिजी 100 समिट में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी समेत देश के दीगर 100 प्राइवेट और सरकारी विवि और उच्च शिक्षण संस्थान इस सम्मान से नवाजे गए। टीएमयू समेत इन विवि ने तेजी से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इससे इनके शिक्षा, कौशल और अनुसंधान में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में डिजी के सीईओ श्री हेमंत सहल ने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो. रघुवीर सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया।

वीसी प्रो. रघुवीर सिंह कहते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की झोली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेशुमार उपलब्धियां से लबरेज़ है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, डिजिटल इंटरएक्टिव, इलेक्ट्रॉनिक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया, डिजिटल पुस्तकालय, ऑनलाइन जर्नल्स, विभिन्न परीक्षाएं कराई जा रही हैं । एक्सेल, ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, और ऑटोमेटेड मूल्यांकन सिस्टम से मूल्यांकित किया जा रहा है।

समस्त ग्राम पंचायतों में चल रहा, वन ग्राम पंचायत-वन विद्युत सखी अभियान : केशव

अवधनामा संवाददाता

■ विद्युत सखियों को मीटर रीडिंग के कार्य में जोड़े जाने की पहल की जा रही : उपमुख्यमंत्री

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के आर्थिक उन्नयन, स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए पूरी संवेदनशीलता व गम्भीरता से काम कर रही है। ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक प्रकार के आमदनी के साधनों से सशक्त बनाने का कार्य कर रही है और इसका एक उदाहरण ''विद्युत सखी'' कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम से महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चयनित विद्युत सखियों द्वारा जहां एक ओर जहां एक ओर अपनी आय बढ़ाना है वहीं डिस्कॉम

(बकाया) का राजस्व बढ़ाना है। इसमें उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन एंव महिलाओं के आय सृजन हेतु उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेरणा और मार्गदर्शन के फलस्वरुप प्रदेश के सभी 75 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिलों के कलेक्शन का कार्य स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत विद्युत सखियों के माध्यम से कराया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत महिला सदस्यों ने विभिन्न गाँवों में बिजली बिलों के कलेक्शन का कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया है, अब तक कुल 15,521 महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें से 10,215 सक्रिय सदस्यों द्वारा रुपये 613.57 करोड़ का बिल कलेक्शन किया गया है। इस कलेक्शन पर कुल रुपये 9.23 करोड़ का कमीशन विद्युत सखियों को प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत काम करने वाली स्वयं सहायता समूहों की विद्युत सखियों ने इस वर्ष 263.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिसमें विद्युत सखियों को 4.14 करोड़ रुपये का कमीशन मिला है। सरकार की इस योजना से ग्रामीण और सुदूर इलाकों में रहने वाले ग्राम वासियों को भी लाभ मिल रहा है।

बौद्ध शोध संस्थान में अटल जी पर संगोष्ठी

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान व युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेई सेवा संस्थान द्वारा भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रोन्मुख विकास में अटल जी का योगदान एवं उनकी कविताएं नामक विषय पर गोष्ठी का आयोजन संस्थान के प्रेक्षागृह गोमतीनगर में सोमवार को किया गया।

मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल थी। संस्थान के सदस्य भंते देवानंद, भंते आर्यवंश, भंते शील रतन, तरुणेश बौद्ध, जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष डॉ अभय कुमार जैन, भंते प्रज्ञा शांति मित्र, संस्थान निदेशक डॉ राकेश सिंह ने श्रद्धेय अटल जी से जुड़ी बातें साझा की, अपने संस्मरण सुनाए तथा संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त किए।

चिकित्सा स्वास्थ्य एकादश ने दर्ज की जीत

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल विहारी वाजपेयी के जन्म दिन 25 दिसम्बर सुशासन दिवस पर लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज एक सद्भावना क्रिकेट मैच चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभागों के मध्य खेला गया। इसमें बेहद कड़े एवं रोमांचक मुकाबले में चिकित्सा स्वास्थ्य एकादश ने चिकित्सा शिक्षा एकादश टीम से अन्तिम गेंद पर जीत हासिल की।

चिकित्सा स्वास्थ्य की टीम ने ट्रास जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए चिकित्सा शिक्षा की टीम ने प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के नाबाद 43 रन की मदद् से 20 ओवर में 121 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चिकित्सा स्वास्थ्य एकादश ने काफी कड़े एवं रोचक मुकाबले में 20वें ओवर के अन्तिम गेंद पर जीत हासिल किया। इस मैच में मैन आफ मैच प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा रहे। बेस्ट बैट्समैन की

■ प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा ने बनाये नाबाद 43 रन, बने `मैन आफ द मैच'

ट्राफी अमित सिंह को वेस्ट बालर विशेष सचिव धीरेन्द्र साचान तथा वेस्ट स्पोर्ट्समैन की ट्राफी सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री पवन कुमार को दी गयी। श्री रंजन कुमार सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को वेस्ट फिल्डर चुना गया।

विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्राफी प्रदान करते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थसार्थी सेन शर्मा ने कहा कि यह जीत किसी एक टीम की जीत नही अपितु हमारे दोनो विभागों के टीमवर्क, खेलभावना, सौहार्द प्रेम और एकता की जीत है, इस तरह के मैच के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल व आयोजन के लिए विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री धीरेन्द्र साचान बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहें जिससे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक रहनें के लिए प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रम के अन्त में विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री धीरेन्द्र कुमार साचान ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासन, परस्पर सहयोग की भावना, टीमवर्क और सामाजिक सौहार्द को भी प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार के आयोजन से लोगो में स्वास्थ के प्रति जागरुकता का विकास होगा।

सनातन महासभा की 120वी मां गोमती महाआरती का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

■ पूर्णिमा पर भारत में मंदिरों से धर्म व संस्कार के विस्तार को लेकर 1101 दीपो को प्रज्जवलित करके लिया संकल्प

लखनऊ। सनातन महासभा की ओर से झूलेलाल वाटिका, गोमती तट पर प्रत्येक पूर्णिमा पर आयोजित मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर आयोजित 120वी आदि गंगा माँ गोमती महाआरती व सनातन समागम का आयोजन मंगलवार को किया गया।

मंगलाचरण, स्वस्तिवाचन, पुष्पांजलि व शंखनाद के साथ हरिद्वार की तर्ज पर 07 भव्य मंचो से पूज्य, स्वामी कृष्ण मोहन, देवेंद्र शुक्ल, डॉ. राघवेन्द्र शुक्ल के सानिध्य में हुई। महाआरती में मृदंग, मंजीरा, ढोल, तासे, शंख का खूब प्रयोग किया गया।

अध्यक्ष डॉ. प्रवीण ने बताया कि बच्चों द्वारा विभिन्न देवताओं के रूप में महाआरती का पूर्व भारतीय समूह लोकनृत्य का आयोजन अमित दीक्षित, भूषण अग्रवाल, महर्षि कपूर, मंजू श्रीवास्तव के संयोजन में हुआ। कार्यक्रम का आरंभ रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति..., से हुआ। सभी बच्चो को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का आरंभ 108 श्री हनुमान चालीसा से हुआ। महाआरती का संयोजन कर रहे महासभा के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण व मुख्य सचिव देवेंद्र शुक्ल ने बताया कि महाआरती के बाद 1101 दीपो से घाट दिवाली की तरह जगमगा उठा साथ ही सभी ने मंदिरों से सनातन धर्म व संस्कार के विस्तार को लेकर संकल्प लिया और सभी ने वरिष्ठ समाजसेवी हिमांशु शेखर व आरती शुक्ला के नेतृत्व में मां गोमती की स्वच्छता व किनारों के अतिक्रमण को लेकर संकल्प दीपो से सभी भक्तों को कराया। इस भव्य कार्यक्रम का संचालन विकास मिश्र ने किया।

प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू कराया : आनंद

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के तत्वाधान में विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी जी की गारंटी वाला रथ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रातः कैंट विधानसभा के केसरी खेड़ा वार्ड पहुंचा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि आज यहां आज मोदी सरकार का रथ आपके द्वार आया है योजनाओं की जानकारी लेकर पात्रता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का लाभ लीजिए ।पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू कराया है। मोदी सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी है वह गरीबों को समर्पित है। प्रधानमंत्री स्वयं गरीबी में पले-बड़े हैं इसलिए वह गरीबों की आवश्यकताओं और परेशानियों को समझते हैं और उसको

दूर करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। पूर्ववती सरकारों में बिचौलियों ने गरीबों का हक मारा लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में स्वयं आपके द्वारा जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

रक्षा मंत्री के प्रयासों से लखनऊ महानगर में भी विकास के अंतर्गत अनगिनत कार्य हो रहे हैं। जिस ओवर ब्रिज के नीचे कार्यक्रम हो रहा है ऐसे 21 ओवर ब्रिज लखनऊ में स्वीकृत हो चुके हैं और लगभग 12 पर आवागमन भी शुरू हो चुका है। अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रगुप्त नगर वार्ड में मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी बैंक हरसरण लाल गुप्ता और पार्षद नरेंद्र पाल उपस्थित रहे। अभियान संयोजक अभिषेक खरे ने बताया कि आज प्रधान मंत्री जी की भारत संकल्प यात्रा के तहत आवास योजना में 130, आयुष्मान योजना में 76, पीएम स्वनिधि योजना में 110 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 83,आधार अपडेशन 112 प्रधामंत्री छय रोग उन्मूलन में 16 पात्र लोगों का मौके पर निशुल्क पंजीकरण किया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आवाज बुलंद की सीएमएस छात्रा ने

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, राजाजीपुरम प्रथम कैम्पस की छात्रा आयुषी शुक्ला ने अभी हाल ही में न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अल्पसंख्यकों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 16वें सेशन को संबोधित कर देश का गौरव सारे विश्व में बढ़ाया है। सी.एम.एस. संस्थापक डा. जगदीश गाँधी व सी.एम.एस. प्रेसीडेन्ट प्रो. गीता गाँधी किंगडन ने आयुषी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में आयुषी का यह पहला अभिभाषण था, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों के अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार और समान न्याय पर सारगर्भित व समाधानप्रेरक उद्बोधन दिया। अपने अभिभाषण में आयुषी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप उन सभी

विषयों को उठाया जो राजनीतिक प्रणालियों में अल्पसंख्यकों को समान स्थान प्रदान करने का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र में अभिभाषण देकर आयुषी ने स्वयं को महिला सशक्तीकरण के प्रेरक उद्धरण के रूप में साबित किया है।

श्री शर्मा ने बताया कि आयुषी सी.एम.एस. की अत्यन्त प्रतिभाशाली छात्रा रही है एवं विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक समारोहो में बढ़चढ़कर प्रतिभाग करती रही है।

सीएमएस के 'मिनी स्पोर्टस डे' में बच्चों ने दिखाये अपने करतब

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल, अशर्फाबाद कैम्पस द्वारा 'मिनी स्पोर्टस डे' का आयोजन आज विद्यालय प्रांगण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्री-प्राइमरी व प्राइमरी के नन्हें-मुन्हें छात्रों ने अपनी अभूतपूर्व खेल प्रतिभा व अपने करतबों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया एवं चुस्ती-फुर्ती से परिपूर्ण फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी द्वारा इण्डिया फिट एण्ड यंग का सन्देश दिया।

खेल समारोह का शुभारम्भ सर्व-धर्म एवं विश्व शान्ति प्रार्थना से हुआ एवं इसके उपरान्त खेल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक पदकों के जबरदस्त होड़ रही और छात्रों ने अपनी शक्ति, दमखम, प्रतिभा व क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया। विद्यालय के नन्हें-मुन्हें छात्रों ने विभिन्न प्रकार की रेस व अन्य रोचक खेलों में अपनी खेल प्रतिभा का गजब का प्रदर्शन किया। खेल

अभिभावकों ने भी बड़े उत्साह से प्रतिभाग किया।

इससे पहले, 'मिनी स्पोर्टस डे' का शुभारम्भ सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में डा. गाँधी ने कहा कि खेल का मैदान ऐसा है जहां अनेक गुण पैदा होते हैं एवं चरित्र का निर्माण होता है। इस तरह के आयोजन छात्रों में समारोह में बच्चों के माता-पिता व एकता, सहयोग व सौहार्द जैसे उच्च होना अति आवश्यक है। जीवन मूल्यों का विकास करते हैं। सी.एम.एस. अशर्फाबाद कैम्पस की प्रधानाचार्या श्रीमती तृप्ति द्विवेदी ने इस अवसर पर कहा कि छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए शारीरिक विकास का

नेशनल टीचर्स ओलंपियाड ने भारत के शीर्ष 500 शिक्षक सम्मानित

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च (स्टार) नेशनल टीचर्स ओलंपियाड के बहुप्रतीक्षित परिणाम 22 दिसंबर को घोषित किए गए, जिसमें सबसे उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी अद्वितीय अखिल भारतीय रैंक और नकद पुरस्कारों सहित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

एनटीओ एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसे सामर्थ्य टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च द्वारा शिक्षाशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षकों के ज्ञान और विशेषज्ञता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओलंपियाड के उद्घाटन संस्करण में 4 देशों, 25 भारतीय राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के हजारों शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 9 और 10 दिसंबर को आयोजित परीक्षण का उद्देश्य पांच प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षकों की

क्षमता का परीक्षण करना था बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान, समावेशी शिक्षा, शिक्षण और शिक्षाशास्त्र, मूल्यांकन और शिक्षा में वर्तमान मामले।

परिणामों के अनुसार, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा की मनीषा भाटी अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) 1 हासिल करके और 4 लाख रुपये का नकद पुरस्कार हासिल करके टॉपर बनकर उभरीं। दूसरा स्थान पोदार इंटरनेशनल स्कूल, परभणी, महाराष्ट्र के अजिंक्य सोलुंके ने हासिल किया, जिन्हें 2 लाख रुपये का पुरस्कार मिला। बिड़ला हाई स्कूल, कोलकाता की देबलीना दास ने एआईआर 3 और 1 लाख रुपये के नकद पुरस्कार का दावा किया।

वोदयंस का हुआ समागम, स्कूली दिनों की खट्टी-मीठी यादें हुई ताजा

अवधनामा संवाददाता

लखनऊ। जवाहर नवोदय विद्यालय के पुरातन छात्र-छात्राओं के समागम का आयोजन 25 दिसंबर को बनारस क्लब में वाराणसी एवं प्रयागराज परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव की अध्यक्षता में किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से तमाम नवोदयन्स जुटे और अपनी जड़ों को मजबूत करने का संकल्प लिया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नवोदयन्स की उपलब्धियों के विस्तार के साथ स्कूली दिनों की खट्टी-मीठी यादें ताजा कीढ़ू स्वागत के बीच सभी ने एक से बढ़कर एक काव्यमय प्रस्तुतियाँ दीं।

इस अवसर पर नवोदय विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे श्री अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, श्री केके पांडेय, मुख्य वित्त अधिकारी, नगर निगम, सुश्री सुनीता गुप्ता, उपजिलाधिकारी, राजातालाब, श्री विनोद सिंह, असिस्टेंट

कमाण्डेन्ट, सी.आर.पी.एफ, श्री रविंद्र देव, हेड, पेप्सिको इंडिया, श्री बृजेश त्रिपाठी डिप्टी रजिस्ट्रार, बीएचयू, श्री सुरेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान, बीएचयू, श्री घनश्याम यादव, अध्यक्ष नवोदय एल्युमिनाई वेलफेयर एसोसिएशन, कविवर श्री दान बहादुर सिंह, बिजनेस मैन श्री रजनीश कुमार, सोमेश, सुश्री ममता पांडेय, चीफ नर्सिंग इंचार्ज, बीएचयू, श्री हरिलाल, प्रोफ़ेसर, शारीरिक शिक्षा, श्री सुजीत कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, श्री राम जी त्रिपाठी, हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोशन अधिकारी, सुश्री सुनैना, दंत रोग विशेषज्ञ, श्री अमित सिंह, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, राजर्षि स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, अभय यादव, निदेशक, आर. के. फार्मेसी कॉलेज, श्री अभिषेक वर्मा शारीरिक शिक्षा विभाग, बीएचयू, श्री सत्य विजय, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, भौतिकी विज्ञान, श्री सूर्य प्रकाश यादव, श्री उपेंद्र कुमार, श्री शिवम सहित तमाम नवोदयन्स ने भागीदारी की और अपने विचार साझा किये।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग लखनऊ

पत्रांक : 8801/523(2)सी-एल0 वृ0/23-242022-23 दिनांक : 23/12/2023

ई-निविदा (अल्पकालीन)

राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रतिशत दर पर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में मार्ग कार्य हेतु रजिस्टर्ड श्रेणी ''ए'' एवं ''बी'' ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को सलाह दी जाती है कि वह न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में निविदादाता निर्देश पुस्तिका में वर्णित ठेका प्राप्त करने नियमों से अवगत हो लें।

क्र. सं.	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित धनराशि (रू. लाख में)	धरोहर धनराशि (रू. लाख में)	श्रेणी	निविदा शुल्क + प्रपत्र का मूल्य + स्टेशनरी + जी.एस.टी. (रू. लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा ऋतु सहित)	कार्य सम्पादन हेतु अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लखनऊ	शारदा नहर पटरी के बाई ओर पर निर्मित किसानपथ पर रोड साइनेज का कार्य। चै0 0.000 से 6.000	112.00	7.60	''ए'' एवं ''बी''	नि0 मूल्य=300 स्टे0 चार्जेज=2000 जी0एस0टी0=414 कुल=2714/-	15 दिन	निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ वृत, लो.नि.वि., लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (म.क्षे.) लो.नि.वि., लखनऊ
2	लखनऊ	शारदा नहर पटरी के दाईं ओर पर निर्मित किसानपथ पर रोड साइनेज का कार्य। चै0 0.000 से 6.000	112.00	7.60	''ए'' एवं ''बी''	नि0 मूल्य=300 स्टे0 चार्जेज=2000 जी0एस0टी0=414 कुल=2714/-	15 दिन	निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., लखनऊ	अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ वृत, लो.नि.वि., लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (म.क्षे.) लो.नि.वि., लखनऊ

➤बिल ऑफ क्वान्टिटी में लगाई गयी दरें सभी करो को जोड़ते हुए तथा जी0एस0टी0 को छोड़कर लगाई गयी है।

निविदा आनलाइन दिनांक 27/12/2023 की पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 02/01/2024 की अपरान्ह 12:00 बजे तक डाउनलोड की जा सकती है, एवं दिनांक 02/01/2024 के अपरान्ह 12:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है। उक्त निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 02/01/2024 को अपरान्ह 12:30 बजे खोली जायेगीं। शासनादेश संख्या-1/2018/3070/78-2-2018/42आई0टी0/2017 (22) दिनांक-03.01.2018 में निहित व्यवस्थानुसार निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से विभाग/कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने है। निविदादाता द्वारा मूल मूल अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की दशा में शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रहरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है, जिसकी विस्तृत जानकारी बिड डाक्यूमेण्ट के साथ संलग्न निविदा सूचना में उपलब्ध है।

निविदादाता सम्बन्धी शेष सभी शर्तें http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

(अनूप कुमार मिश्रा)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड-2, लो.नि.वि., लखनऊ

UPID-199497 Dated-23-12-2023
विज्ञापन आदेश के अनुसार www.upgov.in पर उपलब्ध

(जे.पी. सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता,
लखनऊ वृत्त, लो.नि.वि., लखनऊ
For on behalf of Governor of UP

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने वार्षिक अधिवेशन का किया आयोजन

एआइपीएमएम पसमांदा मुसलमानों की लड़ रहा लड़ाईः परवेज़

अवधनामा संवाददाता

देश की आजादी के बाद पसमांदा समाज की शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआः यूनुस

लखनऊ। 24 दिसम्बर को ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने भारतीय मूल के पसमांदा समाज का वार्षिक अधिवेशन कार्यालय लालबाग लखनऊ में संपन्न हुआ तथा 25 दिसम्बर को प्रेस क्लब हजरत गंज लखनऊ में पसमांदा समाज का अधिवेशन एवं प्रेस वार्ता संपन्न हुआ। इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा कि आज ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज देश के 12 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व हरियाणा में पसमांदा मुसलमानों के हक की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ रहा है, जिसका असर प्रदेश की राजनीति में साफ देखने को मिल रहा है। अब पक्ष हो या विपक्ष पसमांदा विर्मश का अनदेखा नहीं कर सकते है। ऑल इण्डिया पसमांदा मुस्लिम महाज के संयोजक मुहम्मद यूनुस ने कहा है देश की आजादी के बाद पसमांदा समाज की शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा ही एक मात्र जरिए है जो हमको समाज में अपनी पहचान बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होने ने कहा है कि पसमांदा समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और अपने फैसले खुद करने चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों से पसमांदा समाज के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शारिक अदीब ने कहा है कि पसमांदा समाज को जागरूक होकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करे। राष्ट्रीय प्रभारी अहमद अंसारी ने कहा है कि पसमांदा समाज देश की सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करता है और उस दल के साथ है जो पसमांदा समाज के हित की बात करता है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नेहाल अंसारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में पसमांदा जागरुकता संवाद आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ नियाजी मंसूरी ने कहा छत्तीसगढ़ में इस समय भाजपा की सरकार हैं, इसलिए सरकार के साथ बातचीत करके समाज को सरकार द्वारा संचालित स्कीम से फायदा पहुंचाना है। संगठन मंत्री हाशिम पसमांदा ने संगठन के विस्तार हेतु पदाधिकारियों से आर्थिक सहायता देने की बात कही है। प्रधान महासचिव मारूफ अंसारी ने संगठन के पदाधिकारियों से कहा संगठन को मजबूती देने के लिये सदस्यता अभियान चलाना बहुत ही जरूरी है, जिसकी निर्धारित फीस 10/-प्रति व्यक्ति रखी जानी चाहिए। शकील घोसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड को छत्तीसगढ़ के मॉडल पर कार्य करने की जरूरत है। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शमीम अंसारी, पूर्व आईएएस अनीस अंसारी, प्रो. मसूद आलम फलाही, कोषा अध्यक्ष मो. इदरीस, जलील अहमद, नफीस अहमद सैफी, अकबर मंसूरी, रफी मंसूरी, हैदर अली, एड. मेराज आजाद, एजाज अहमद इदरीसी, मो. खालिक, मो. शादाब, दिलबहार, आरिफ सलमानी, फारूक, अली मोहम्मद, एजाज अहमद, शकील अंसारी, नदीम राइन, शमशाद राइन रजाउल हक, स्कॉलर नदीम अहमद अंसारी, प्रो. खालिद अंसारी, नजाकत अंसारी, शकील लेड़ी आदि पसमांदा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रदर्शनी पंडाल में हुआ कुल हिन्द मुशायरा

वहाज अली खान (निहाल)

- माँ के पाओ दबाकर जब मज़दूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते है मुट्ठी कम पड़ जाती है- डॉ नवाज़ देवबंदी
- इतनी प्यारी है मुझें अपने वतन की मिट्टी, हो क़यामत भी तो हिजरत नहीं करने वालेः मंज़र भोपाली

इटावा। सर्द रात, घने कोहरे का समय और देश-विदेश के मशहूर शायरों की मौजूदगी में कुल हिन्द मुशायरे का आयोजन इटावा महोत्सव एवं प्रदर्शनी के खूबसूरत पंडाल में किया गया, जिसमे देश के कोने-कोने से आये नामचीन शायरों ने शानदार गजलो के साथ-साथ शायरी के ज़रिये ऐसे जौहर दिखाए कि पंडाल में मौजूद मुशायरे के शौकीन लोग देर रात तक मुशायरे का आनंद लेते रहे और शायरों के कलाम पर वाह-वाह कह कर तालियों से उनकी हौसला अफजाई करते रहे। इस बार मुशायरे का आगाज़ समय पर हुआ और अपने समय पर खत्म हुआ।

मुशायरे की अध्यक्षता देश के विख्यात शायर नवाज़ देवबन्दी ने की। अखिल भारतीय मुशायरे का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने मंच पर शमा रोशन करके किया। एसएसपी संजय कुमार पत्नी सहित मंचासीन रहे और फ़रमाइशी गजलों का खूब लुत्फ उठाया। अखिल भारतीय मुशायरे के संयोजक सईद नक़वी, सह संयोजक गुफरान अहमद प्रधानाचार्य इस्लामिया कालेज ने मुख्य अतिथि डीआईओएस, एसएसपी और उनकी पत्नी के अलावा शायरों का बैज लगाकर स्वागत किया। कुल हिन्द मुशायरे में देश के नामी-गिरामी शायरों ने कुछ इस तरह कलाम पेश किए...

बहुत मज़ाक उड़ाते हो तुम गरीबों का, मदद तो करते हो तस्वीर खींच लेते हो।

एक आँखों के पास है एक आँखों से दूर,
बेटा हीरा होता है बेटी कोहिनूर।
माँ तो हर एक औलाद को मिलती है अच्छी, पर हर माँ को हर औलाद अच्छी नहीं मिलती।
रूखी-सूखी खाकर खुश होकर सो जाते है, जिस दिन चटनी मिल जाती है रोटी कम पड़ जाती है।

डॉ.नवाज़ देवबन्दी

माँ के पाओ दबाकर जब मज़दूरी करने जाता हूँ, इतने पैसे मिल जाते है मुट्ठी कम पड़ जाती है।

डॉ.नवाज़ देवबन्दी

इतनी प्यारी है मुझें अपने वतन की मिट्टी, हो क़यामत भी तो हिजरत नहीं करने वाले।

वो बादशाह बने बैठे है मुकद्दर से, मगर मिजाज़ अब तक वही भिकारी का।

हो सके तो ज़िंदगी से प्यार कीजिए, चाँद बन के चाँदनी से प्यार कीजिए।

मंज़र भोपाली

पल्लवी दुबे बनीं मिसेज इटावा 2023, रेनू, राधा व प्रगति रनरअप

- महिला सम्मेलन की प्रतियोगिताओं में मास्टर सैफ, रंगोली का भी हुआ आयोजन

अवधनामा संवाददाता

इटावा। इटावा महोत्सव पंडाल में सोमवार को महिला सम्मेलन के दौरान मैसेज इटावा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पल्लवी दुबे ने मिसेज इटावा 2023 का खिताब जीता। इसके अलावा रेनू पचौरी ने फस्ट रनरअप, राधा यादव ने सेकंड रनर अप व प्रगति उपाध्याय ने थर्ड रनर अप के पुरस्कार जीते। सभी को नगर पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, बुके व ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा दिन भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। गायन प्रतियोगिता के मध्यम वर्ग में काव्या व शुभांगिनी यादव ने प्रथम, हिमांशी साहू ने द्वितीय और शिवानी भारद्वाज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में नीलम सक्सेना व आरती वर्मा ने प्रथम जबकि पूनम कुलश्रेष्ठ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कलश व थाल सजा प्रतियोगिता में तान्या सोनी ने प्रथम, आयुषी व निहारिका ने द्वितीय, अनुष्का व दिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में तृप्ति कुलश्रेष्ठ ने प्रथम, वंदना हजेला ने द्वितीय और शिल्पी पोरवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सिलाई बुनाई कढ़ाई प्रतियोगिता में अर्शी व मंजू शर्मा ने प्रथम, प्रभा व संध्या ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रंगोली प्रतियोगिता में सीमा गुप्ता ने प्रथम, तृप्ति सिंह ने द्वितीय व प्रियांशी गोयल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मिट्टी के खिलौने आदि बनाने की प्रतियोगिता में कुमकुम सक्सेना ने प्रथम, खुशी यादव ने द्वितीय, अंशिका वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा विनीता सक्सेना व पूनम कुलश्रेष्ठ विजेता रहीं। माला मखाना में राधिका सक्सेना ने प्रथम, अनुष्का यादव ने द्वितीय, सोनम सोनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में अंबिका सक्सेना ने प्रथम, प्रशंसा अग्रवाल ने द्वितीय वर्ष शशि पोरवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मास्टरशेफ प्रतियोगिता में सुकीर्ति शाक्य ने प्रथम, अनामिका ने द्वितीय व वंदना कुशवाहा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि वरिष्ठ वर्ग में सिंकी जैन ने प्रथम, सिमरन मलिक ने द्वितीय व वंदना हजेला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बच्चों को सांता क्लाज बनाने की प्रतियोगिता में हैदर, शिवी व हैरी शाक्य ने पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका प्रीति छाबड़ा, संगीता गौर आदि ने निभायी। कार्यक्रम के संचालन व प्रबंधन में ओपी गौर, स्वाति गौर, शालिनी, कृष्णा, अर्पित, नेहा दीक्षित आदि का सहयोग रहा।

हेमा मालिनी गीता शोध संस्थान में चल रहे प्रशिक्षण व कार्यकलापों से खुश

निरीक्षण में गीता के प्रचार-प्रसार, रासलीला प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी ली

अवधनामा संवाददाता

वृंदावन (मथुरा)। सांसद हेमा मालिनी ने गीता शोध संस्थान एवं रासलीला अकादमी के आकस्मिक निरीक्षण में अकादमी की गतिविधियों और कार्यकलापों की जानकारी ली। परिसर में निर्माणाधीन एक हजार क्षमता के ऑडिटोरियम के शेष कार्य जल्द पूरे कराने के निर्देश दिए।।

सांसद हेमा मालिनी ने निरीक्षण में गीता शोध संस्थान के निदेशक प्रो दिनेश खन्ना, ब्रज संस्कृति विशेषज्ञ डा उमेश चंद्र शर्मा और कोआर्डीनेटर चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार से संस्थान में गीता के प्रचार-प्रसार, रासलीला प्रशिक्षण, ब्रज भाषा के संरक्षण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। विगत में हुई कार्यशाला व संगोष्ठी आदि के लगातार आयोजन पर खुशी जतायी।

सांसद ने संस्थान भवन के स्टूडियो कक्ष में पहुंच कर रासलीला प्रशिक्षण को देखा व प्रशिक्षण ले रहे बच्चों से संगीत सुना। उन्होने संतों की उन प्रतिमाओं को भी सभागार में देखा जिन्हे उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने राजकीय संग्रहालय में लगे मूर्तिकला शिविर में तैयार कराया था। इन प्रतिमाओं को स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्थलों को जानकारी ली। गीता ग्रंथालय, प्रस्तावित म्यूजिम कक्ष का भी अवलोकन कर निर्देश दिए। परिसर में प्रस्तावित गेस्ट हाउस के स्थल को देखा। परिसर में सघन पौधारोपण के तहत कदम्ब के पौधे रोपने के निर्देश दिए।

एक हजार क्षमता वाले बड़े ऑडीटोरियम का शेष कार्य जल्द पूर्ण कर इसके बाहरी हिस्से को सुंदर बनाने के निर्देश दिए। सांसद के कहना था कि ये समूचा परिसर वाहनविहीन, हरा भरा, सुरम्य व सुंदर बनना चाहिए।

आकस्मिक निरीक्षण में सांसद ने निर्देश दिए कि 500 दर्शक क्षमता वाले दूसरे ओपन ऑडीटोरियम (ओएटी) पर मीराबाई से जुड़े मंचन होते रहने चाहिए। निरीक्षण में सांसद के प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, दीपक शर्मा, कंस्ट्रक्शन कंपनी के शौरभ गोयल आदि उपस्थित रहे।

कॉंग्रेस अल्पसंख्यक विभाग गुजरात के प्रांतीय महासचिव शुऐब का हुआ स्वागत

इटावा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रांतीय महासचिव शुऐब रंगरेज ने जनपद का दौरा किया इस दौरान रविवार को कांग्रेसियों ने शुऐब का फूल मालाओं से स्वागत किया। अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष व सभासद अफजाल वारसी एवं अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों आदि से मुलाकात कर कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपील की।नगर पालिका परिषद के ऊपर स्थित पार्टी कार्यालय व तिकोनिया पर आसिफ जारदान, कासिम फारूकी अशरफी, जाबेद खान, समीर अंसारी, सऊद सिद्दीकी, मालिक कुरैशी, ज़ीशान, आरिफ राइन, कलीम फारूकी आदि ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रांतीय महासचिव शुऐब रंगरेज का स्वागत व सम्मान किया।

कुल हिन्द मुशायरे में संगम का हुआ इजरा

अवधनामा ब्यूरो

इटावा। नुमाइश पंडाल में कुल हिन्द मुशायरे के बीच में शम्सुद्दीन शम्स की किताब संगम का भी इजरा हुआ। किताब के पहले सफे पर कुछ इस तरह लिखा सारे आलम को जगमगाएंगे, शमा एक ऐसी हम जलायेंगे। किताब के इजरे (विमोचन) के बाद शायर डॉ.नवाज़ देवन्दी, मंज़र भोपाली, जोहर कानपुरी, शबीना अदीब, अना देहलवी, संयोजक सईद नकवी, गुफरान अहमद, रौनक इटावी, मिर्ज़ा इफ्तिखार, मिर्ज़ा दानिश, नदीम अहमद खां एडवोकेट आदि के अलावा इटावा के साहित्यकारों ने श्री शम्स को मुबारकबाद दी।

भाकियू अराजनैतिक के महासचिव की कमान लेखराज प्रधान को दी

अवधनामा संवाददाता

वृंदावन (मथुरा)। बलदेव में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अवैरनी के प्रधान चौधरी लेखराज सिंह की किसानों के प्रति निःस्वार्थ सेवा, सकुशलता, लग्नशीलता को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अनुशासन समिति के अध्यक्ष अवदेश रावत, की सहमति से मथुरा जनपद का ज़िला महासचिव नियुक्त किया गया।

चौधरी लेखराज सिंह विगत 10-12 बर्षों से किसानों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं दिल्ली ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर चले धरने में इनका काफ़ी योगदान रहा हैं। लेखराज सिंह प्रधान ने बताया कि मुझ पर जो विश्वास संगठन ने किया हैं।

में उसपर ख़रा उतरूँगा और किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से निश्वार्थ भाव से सेवा करता रहूँगा।

ज़िला महासचिव बनाए जाने पर मण्डल अध्यक्ष राजकुमार तोमर, ज़िलाअध्यक्ष सोनवीर सिंह, उदयवीर सरपंच, लालसिंह तोमर,राजकुमार जी,मुकेश प्रधान, मोहन सिंह काका, मा0 खेम सिंह, अजय प्रधान, होशियार प्रधान, बलवीर बाबा, रतन बाबा, कोमल बाबा, नारायण बाबा, पूरन प्रधान, खुशी पहलवान, जीतू पहलवान, संदीप छोंकर, हरपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह सैंकड़ों लोगो ने हर्ष व्यक्त किया।

भूमाफियाओं के कारण राधाकुंड में फसल डूबी, किसान परेशान

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजना चला रहे हैं। किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं। लेकिन गोवर्धन तहसील के नगर पंचायत राधाकुंड से कोन्हई जाने वाले मार्ग पर स्थित कुंजेरा ड्रेन जिसका खसरा नंबर 1490 की सफाई न होने से किसानों की लगभग 35 बीघे जमीन जल मग्न हो गई है। किसनों की फसल डूबी हुई है। किसान बहुत परेशान है आने-जाने को भी रास्ता नहीं है। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विश्वस सूत्रों के अनुसार बताया गया कि राधा नगर नाले को भूमाफियाओं ने आट कर छोटा कर दिया है। पहले यह नाला बहुत बड़ा था अब इसका आकार भूमाफियाओं ने अपने लाभ के लिए छोटा कर दिया है। भूमाफियाओं के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। इसी के कारण पानी नहीं निकल पाता है। हमेशा गंदगी रहती है। पूरा नाला गंदगी से भरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे प्रदेश में भूमाफियाओं पर पर कार्रवाई हो रही है लेकिन राधाकुंड में कब होगी। इसके अलावा भूमाफियाओं ने बराबर मिट्टी डालकर अपनी जमीन को ऊंचा कर लिया गया है। नई कालोनी काटी जा रही है। बताया जाता है कि मिलीभगत कर वन विभाग की जमीन पर रास्ता निकाला गया है। वन विभाग की जमीन को भूमाफियाओं ने दाब लिया है। जिसका खसरा नंबर 1506 है। जिम्मेदार लोग जानकर अनजान बने हुए हैं। आगरा खंड सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता व नगर पंचायत अध्यक्ष को दिए प्रार्थना पत्र में स्थानीय लोगों ने बताया खसरा संख्या 1503, 1505,1380,1389 आदि में काफी समय से भारी जल भराव है। परेशान किसानों ने प्रशासन से समस्या का हल कराने की मांग करने वालों में नरेंद्र कुमार पुत्र गोपीनाथ शर्मा, रामेश्वर देशला पुत्र जमुना प्रसाद, बांके गोस्वामी, ठाकुर लाल, मोहनलाल, सत्यनारायण, अमित व नारायण बघेल आदि हैं।

बैग मिलने पर महिला ने ट्रेफिक पुलिस का जताया आभार

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर दिल्ली से वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आई थी। दर्शन करने के बाद सोमवार की सायं ई-रिक्शा से मथुरा लौटते समय उसका बैग ई रिक्शा में रह गया। इस बात का पता लगने पर उसके होश उड़ गए। ट्रेफिक पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने एक घंटे कड़ी मशक्कत के बाद महिला का बैग बरामद कर उसे सौंप दिया। बैग में एक लाख रुपये मूल्य के जेवरात थे। बैग बरामद होने पर महिला ने पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की। लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय की टीचर राजन रविवार को मथुरा भ्रमण करने के लिए रविवार को आई थी। सोमवार को वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने अपना सामान और जरूरी कागजात एक बैग में रख लिए। दर्शन करने के बाद देर शाम राजन वृंदावन से ई-रिक्शा में सवार होकर मथुरा रवाना हो गई। जैसे ही वह स्टेट बैंक चौराहे पर उतरी तो उसका बैग ई- रिक्शा में छूट गया। उसके उतरने के बाद ई-रिक्शा वहां से चला गया। इसके बाद राजन को ध्यान आया कि बैग ई-रिक्शा में छूट गया। इस पर महिला के होश उड़ गए। महिला बैग की तलाश में इधर-उधर बदहवास घूम रही थी। जब वहां तैनात ट्रेफिक पुलिस कर्मियों ने उसे देखा तो उससे समस्या के बारे में पूछा। इस पर राजन ने बैग गुम होने की जानकारी पुलिस को दी। इस पर ट्रेफिक पुलिस कर्मियों ने उसे सांत्वना दी और बैग तलाश ने का आश्वासन दिया। ट्रेफिक पुलिस ने बैग की जानकारी करने के बाद ई-रिक्शा की तलाश शुरू कर दी।

मजदूर ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। थाना हाइवे की कुसुम वाटिका कालोनी में किराए के मकान में रह रहे मजदूर ने बीती रात फांसी लगा कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सीतापुर जनपद के रहने वाला युवक अरविंद (30) पुत्र रतिराम अपनी पत्नी के साथ हाइवे थाना क्षेत्र की कुसुम वाटिका कालोनी में किराए का मकान लेकर रह रहा था। करीब चार साल से वह यहां मजदूरी का काम कर रहा था। बताया गया कि सोमवार की सायं वह खाना खाने के बाद कमरे में सो गया। रात के किसी पहर में अरविंद ने कमरे में फांसी लगा ली। इस बात की जानकारी पत्नी को होने पर उसके होश उड़ गए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अरविंद के शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरविंद की मौत का पता लगने पर उसके परिवारीजन भी मोरचरी पर पहुंच गए। परिवारीजनों का कहना है कि अरविंद ने इस तरह की घटना किस कारण की इसका उन्हें कुछ पता नहीं है।

नवजात शिशु से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्दी में रखें अधिक ध्यान- डॉ. शिवओम

अवधनामा ब्यूरो

इटावा। दिसम्बर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है सर्दी दिन प्रतिदिन बड़ती जा रही है और अब रात के समय कोहरा भी होने लगा है। विशेष रूप से नवजात शिशु से लेकर 6 साल तक के बच्चों को सर्दी से कैसे बचाव करें अथवा अधिक ठंडक से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है आदि के बारे में डॉ.शिवओम वर्मा नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ ऊँ नव जीवन हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर कचौरा रोड से वार्ता की तो उन्होंने इससे बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि सर्दी अथवा कोहरे के समय छोटे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए, सर को ढके रखें, बाहर न निकाले आदि सावधानी रखें। उन्होंने कहा कि यदि सावधानी नहीं बरती गई तो अधिक सर्दी में नवजात शिशु से 6 साल के बच्चों को सबसे पहले निमोनिया हो सकता है उन्होंने इसके सिम्टम्स बताए सर्दी में छोटे-छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खासी, जुकाम, बुखार, बच्चें दूध पीना बंद कर देते है या बहुत कम कर देते है। उन्होंने कहा कि सर्दी में बच्चों के साथ अगर ऐसी दिक्कत दिखाई दे तो आप तुरंत योग्य चिकित्सक को दिखाए। डॉ.शिवओम वर्मा ने कुछ सावधानियां बताई वह इस प्रकार है। जैसे ही मौसम बारिश से सर्दियों में बदलता है तो पहले मौसम में ठंडक फैलती है सामान्य सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है। यह अक्सर रेसीपरेट्री वायरल से होता है। यह अधिकतर शिशुओं और बच्चों को होता है। बच्चों को साल में औसतन 6 से 8 बार सर्दी-जुकाम होता है, जिसके लक्ष्ण औसतन 14 दिनों तक रहते है। उन्होंने सर्दी-जुकाम की रोकथाम के लिए आसान सुझाव बताए। अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोए। खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोए। खासते और छींकते समय अपने नाक और मुहं को टीश्यू से ढके। शरीर में नमी बनाए रखें, गुनगुना पानी या गरम सूप पीए। अच्छी नींद ले और सेहतमंद भोजन करें। गुनगुने पानी और नमक से गरारे करें। अपने घर को नियमित कीटाणु रहित बनाते रहे। पूरी तरह साफ करने के बाद ही खिलौने बच्चों को दे। भीड़-भाड़ वाली जगह पर न जाये, क्योंकि यहाँ इंफेक्शन तेज़ी से फैल सकता है। यदि आपके लक्ष्ण बड़ जाए या नए दिखाई दे तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।

कोतवाली क्षेत्र में अवैध गोश्त के कारोबार का भंडाफोड़

- भारी तादाद में गोस्त बरामद एक गिरफ्तार दूसरा फरार

अवधनामा संवाददाता

मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म और क्रीड़ा स्थली मथुरा में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भैंस के गोस्त की बिक्री और कटान पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है इसके बावजूद शहर में कुछ इलाकों में अवैध रूप से गुपचुप तरीके से इलाका पुलिस के संरक्षण में भैंसों के अवैध कटान और बिक्री का काम संचालित किया जा रहा है यह अवैध कारोबार थाना कोतवाली क्षेत्र, थाना सदर बाजार क्षेत्र और थाना गोविंद नगर क्षेत्र में बड़े स्तर पर चल रहा है ऐसे ही मामले का भंडाफोड़ थाना कोतवाली पुलिस ने करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पशुबध में प्रयोग होने वाले औजार और भारी तादात में गोश्त बरामद किया है जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहा है।

जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र की रिपोर्टिंग चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र के अंतर्गत सोंख रोड पर स्थित आजाद नगर में एक बंद पड़े मकान में भैंस काटने की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए जहां पर गोस्त को खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई थी।

पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी तादात में भैंस का गोश्त और काटने में प्रयोग किए गए औजार बरामद किए हैं जबकि उसका साथी भाग जाने में सफल रहा है।

जानकारी के अनुसार इसी इलाके में आधा दर्जन दुकान अवैध भैंस के गोश्त की बिक्री और कटान के लिए संचालित की गई है जिसकी स्थानीय लोगों ने तमाम शिकायत संबंधित अधिकारियों को किए जाने के बावजूद क्षेत्रीय पुलिस की खाओ पियो नीति के चलते यह अवैध कारोबार लंबे समय से दिन दूंगी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था पुलिस के द्वारा आज की गई प्रभावी कार्रवाई से इस अवैध कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है दूसरी ओर इस अवैध कारोबार से आहत लोगों ने राहत की सांस ली है।

पुलिस ने बताया अवैध गोश्त का कारोबार पप्पू पुत्र शाहिद के घर में चल रहा था इस कारोबार को संचालित करने वाला चाँद पुत्र हनी निवासी भरतपुर गेट थाना कोतवाली दोनों लोगों को गिरफ्तार कर 150 किलो गोश्त बरामद किया है पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।

पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोग जो इस अवैध कारोबार से दुखी रहते थे उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है।

हॉकी इंडिया ने महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 34 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की

भारत की 34 खिलाड़ी बुधवार से यहां सीनियर महिला हॉकी कोचिंग शिविर में हिस्सा लेंगी। स्पेन में पांच देशों के टूर्नामेंट में मेजबान के अलावा बेल्जियम, जर्मनी और आयरलैंड से भिड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को ब्रेक मिला था और अब वे शिविर में हिस्सा लेंगी।

ओलंपिक क्वालीफायर और हॉकी फाइव्स विश्व कप की तैयारी के लक्ष्य के साथ भारत की 34 खिलाड़ी बुधवार से यहां सीनियर महिला हॉकी कोचिंग शिविर में हिस्सा लेंगी। स्पेन में पांच देशों के टूर्नामेंट में मेजबान के अलावा बेल्जियम, जर्मनी और आयरलैंड से भिड़ने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को ब्रेक मिला था और अब वे शिविर में हिस्सा लेंगी।

ओलंपिक क्वालीफायर रांची में 13 से 19 जनवरी तक होने हैं जिसमें भारत को पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली और अमेरिका के साथ रखा गया है। पूल ए में जर्मनी, जापान, चिली और चेक गणराज्य को जगह मिली है। भारत ने रांची में महिला एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और अब वे इसी मैदान पर लय जारी रखने के इरादे से उतरेंगे।

भारत की मुख्य कोच यानेक शॉपमैन ने कहा पांच देशों का टूर्नामेंट ओलंपिक क्वालीफायर से पहले तैयारियों को परखने का अच्छा मौका था। हमने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां सुधार की गुंजाइश है और शिविर के दौरान इन पर काम करेंगे। उन्होंने कहा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद टीम रांची में दोबारा खेलने को लेकर उत्सुक है। अब थोड़ा समय बचा है, हम अपने खेल को निखारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालीफाई करने के लिए शारीरिक, रणनीतिक और मानसिक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हों।

इसके बाद भारतीय टीम ओमान के मस्कट के लिए रवाना होगी जहां वे 24 से 27 जनवरी तक हॉकी फाइव्स विश्व कप में हिस्सा लेंगे।

शिविर में हिस्सा लेने वालीसंभावित खिलाड़ी इस प्रकार हैं।

गोलकीपरः सविता, रजनी एटिमार्पु, बिचू देवी खारीबाम, बंसारी सोलंकी

डिफेंडरः दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, निक्की प्रधान, उदिता, इशिका चौधरी, अक्षता अबासो ढेकाले, ज्योति छेत्री, महिमा चौधरी

मिडफील्डरः निशा, सलीमा टेटे, सुशीला चानू पुखरंबम, ज्योति, नवजोत कौर, मोनिका, मारियाना कुजूर, सोनिका, नेहा, बलजीत कौर, रीना खोखर, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, अजमीना कुजूर

फॉरवडः लालरेम्सियामी, नवनीत कौर, वंदना कटारिया, शर्मिला देवी, दीपिका, संगीता कुमारी, मुमताज खान, सुनेलिता टोप्पो और ब्यूटी डुंगडुंग।

शाहीन अफरीदी और मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस, वीडियो हो रहा वायरल

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच गर्मागर्मी देखी गई, लेकिन मार्नस लाबुशेन ने इस दौरान अपना आपा नहीं खोया और क्रीज पर डटे रहे। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच गर्मागर्मी देखी गई, लेकिन मार्नस लाबुशेन ने इस दौरान अपना आपा नहीं खोया और क्रीज पर डटे रहे। वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि, दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बहस 33वें ओवर में शुरू हुई जब शाहीन शाह अफरीदी अपना अगला स्पेल लेकर आए।

एमसीजी में कबूतरों ने किया खिलाड़ियों को परेशान, लाबुशेन और हसन अली ने भगाए

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट की पहली पारी के 48वें ओवर में मेलबर्न ग्राउंड पर कबूतरों ने हमला बोल दिया। मार्नस लाबुशेन और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने मिलकर इन कबूतरों से सबको निजात दिलाई।

मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वहीं पहले दिन बारिश के कारण महज 66 ओवर का ही मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक तीन विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। मार्नस लाबुशेन 44 और ट्रेविस हेड 9 रन बनाकर नॉटआउट लैटे हैं। लेकिन इस मैच के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका मनोरंजन किया।

दरअसल, पहली पारी के 48वें ओवर में मेलबर्न ग्राउंड पर कबूतरों ने हमला बोल दिया। मार्नस लाबुशेन और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने मिलकर इन कबूतरों से सबको निजात दिलाई।

बता दें कि, कबूतरों को भगाने के लिए मार्नस लाबुशेन ने बल्ला हवा में लहराया तो हसन अली ने दौड़ाकर इन कबूतरों को मैदान से उड़ाया।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हर कोई इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है।

वहीं दोनों टीमों के बीच की सीरीज की बात करें तो पहले मैच में पाकिस्तान को 360 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे हैं।

टॉस हारकर हंसने लगे रोहित शर्मा, जानें क्यों?

मेजबान टीम ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टॉस गंवाने के बावजूद हंसते हुए नजर आए। हालांकि, इस हंसी के पीछे का कारण खुद उन्होंने बताया है।

सेंचुरियन में खेले जा रहे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत को टॉस गंवाना पड़ा। जिसके बाद मेजबान टीम ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टॉस गंवाने के बावजूद हंसते हुए नजर आए। हालांकि, इस हंसी के पीछे का कारण खुद उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि क्या बेहतर फैसला होता। पहले बल्लेबाजी करना या पहले गेंदबाजी करना तो ऐसे में टॉस हारना बेहतर होता है।

वहीं भारत की प्लेइंग इलेवन में प्रसिद्ध कृष्णा को जगह मिली है। जो टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की जगह आर अश्विन टीम में हैं। जडेजा पूरी तरह फिट नहीं थे।

रोहित शर्मा ने टॉस के बाद कहा कि, पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या पहले गेंदबाजी, इसको लेकर मैं श्योर नहीं था। हमें यहां की कंडीशन पता है, हम यहां पहले भी खेल चुके हैं। हमें स्कोरकार्ड पर रन खड़े करने होंगे, जिससे गेंदबाज अपना काम कर सकें। हमें पता है कि पहले बैटिंग करने में किन मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इस चैलेंज के लिए तैयार हैं। जब भी हम यहां आते हैं, हम बड़ी उम्मीदें लिए आते हैं। पिछले दो दोरों में हम टेस्ट सीरीज जीतने के करीब पहुंचे थे, हम स्क्वॉड को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं।

वहीं भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि, हम चार तेज गेंदबाजों के साथ और एक स्पिनर के साथ खेल रहे हैं। जडेजा की जगह आर अश्विन खेल रहे हैं, जडेजा की पीठ में अकड़न है, प्रसिद्ध डेब्यू कर रहे हैं। सिराज, बुमराह और शार्दुल ठाकुर के साथ प्रसिद्ध चौथे तेज गेंदबाज होंगे।

साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले बल्लेबाजी का दिया न्योता, प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जहां भारत टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। वहीं इस दौरान भारत ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला है। सेंचुरियन में भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जहां भारत टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। वहीं इस दौरान भारत ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला है। बारिश के कारण मैदान गीला होने से टॉस में 45 मिनट का विलंब हुआ जबकि मैच आधा घंटा देरी से शुरू होगा। रविंद्र जडेजा पीठ में जकड़न के कारण इस टेस्ट में नहीं खेल रहे। रविचंद्रन अश्विन भारतीय टीम में स्पिनर की जिम्मेदारी निभाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर और बल्लेबाज डेविड बेडिंघम पदार्पण कर रहे हैं।

आपको निश्चित रूप से सही समय पर जवाब मिलेगा, रोहित ने टी20 अंतरराष्ट्रीय भविष्य पर कहा

विश्व कप फाइनल तक हम जैसे खेले, आप एक और कदम आगे बढ़ने की उम्मीद करते हो। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर पाये और यह बहुत मुश्किल था। ईमानदारी से कहूं तो हमने इसके लिये कड़ी मेहनत की थी और आपने देखा कि हम पहले 10 मैच और फाइनल में कैसा खेले।

जोहानिसबर्ग। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय भविष्य पर कहा कि सही समय पर सबको इसका जवाब मिल जायेगा। सोमवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस शुरू होने से पहले उन्होंने मुस्कुराते हुए सभी से कहा आईपीएल पर कोई सवाल नहीं। सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम पर। पर किसी ने पूछ ही लिया, यह एक प्रेस कांफ्रेंस हैं, हम पूछ सकते हैं। तो रोहित ने अपनी टीशर्ट पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के 'लोगो' की ओर इशारा किया कि यह प्रेस कांफ्रेंस बोर्ड द्वारा करायी गयी है। वह जानते थे कि उनके सफेद गेंद के भविष्य के बारे में सवाल पूछे जायेंगे। तो रोहित बल्लेबाज के तौर पर आगामी दो वर्षों में खुद को कहां देखते हैं, इस पर उन्होंने कहा, ''जो भी क्रिकेट मेरे लिये है, मैं खेलूंगा। अगला सवाल पूछा गया कि क्या आप सीनियर (आप) और विराट (कोहली) टी20 विश्व कप में खेलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, सभी को क्रिकेट खेलने के लिए बेताबी होती है। खिलाड़ी को जो भी मौका मिले, वह उसमें अच्छा करना चाहता है।''

फिर उन्होंने कहा, ''मैं जानता हूं कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो, आपको जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। रोहित ने स्वीकार किया कि विश्व कप फाइनल की हार पचा पाना टीम में सभी के लिए मुश्किल था। उन्होंने कहा, विश्व कप फाइनल तक हम जैसे खेले, आप एक और कदम आगे बढ़ने की उम्मीद करते हो। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं कर पाये और यह बहुत मुश्किल था। ईमानदारी से कहूं तो हमने इसके लिये कड़ी मेहनत की थी और आपने देखा कि हम पहले 10 मैच और फाइनल में कैसा खेले। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से हम फाइनल में कुछ चीजें सही नहीं कर पाये जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा।

शाहरुख, सलमान और आमिर खान संग अपने रिश्तों पर सनी देवल ने मीडिया के साथ की खास बातचीत

अभिनेता सनी देओल का कहना है कि शाहरुख खान के साथ उनके संबंध समय के साथ परिपक्व हुए हैं, सलमान खान के साथ भावनात्मक जुड़ाव रहा है और आमिर खान के साथ आगामी फिल्म को लेकर वह काफी उत्सुक हैं। मीडिया में आईं खबरों के अनुसार, 1993 में फिल्म 'डर' में काम करते समय सनी का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, जिसमें शाहरुख ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जूही चावला ने भी अभिनय किया था। रविवार को इस फिल्म को 30 साल पूरे हो गए। सितंबर में 'गदर 2' की सफलता में आयोजित समारोह में सनी और शाहरुख को साथ फोटो खिंचवाते और एक-दूसरे से गले मिलते देखा गया था।

सनी (66) ने यहां 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा, मैं उनका (शाहरुख) बहुत आभारी हूं। मुझे उनसे हुई बात याद है और वह (जवान के) प्रचार के सिलसिले में दुबई में थे। मैंने सोचा कि वह नहीं आएंगे, लेकिन वह सीधे वहां से आए। वह कुछ देर वहां रुके। उसके (पार्टी) बाद मुझे उनसे मिलने या बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब मिलेगा तो यह बहुत अच्छा होगा।

उन्होंने कहा, हम कलाकारों के बीच समय के साथ कुछ चीजें (होती) हैं। जब हम युवा होते हैं, तो थोड़े मतभेद होते हैं और जैसे-जैसे समय बीतता है, हम परिपक्व होने लगते हैं तथा समझने लगते हैं कि वास्तविक जीवन क्या होता है। हम सभी में काफी बदलाव आए हैं। यह बहुत अच्छी चीज है। समय के साथ सबकुछ ठीक हो जाता है। फिल्म 'जीत' में साथ अभिनय करने वाले सलमान के बारे में उन्होंने कहा कि वह हाल में उनसे मिले थे। सनी के भाई बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र से भी सलमान खान के करीबी संबंध हैं।

सनी देओल ने कहा, हमने गोवा में करीब दो-तीन घंटे गुजारे। हमने काफी हंसी-मजाक किया। हमने साथ में कुछ करने को लेकर भी बात की। वह (सलमान) बहुत खुश थे। मुझे याद है कि उन्होंने एक बार मुझे फोन किया था और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए बताया था कि वह मुझे कितना प्यार करते हैं। हमारे बीच ऐसा ही जुड़ाव है। सनी की अगली फिल्म 'लाहौर 1947' है, जिसके निर्माता आमिर खान हैं। विभाजन पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आमिर ने भी समारोह में शिरकत की थी और कहा था कि मैं कल आपसे मिलना चाहता हूं। इसके बाद हमने मुलाकात कर एक फिल्म (लाहौर,1947) पर बात की। यह काफी भावुक और खूबसूरत पल था। सनी और आमिर ने एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया है, लेकिन वे संतोषी की अलग-अलग फिल्मों में काम कर चुके हैं।

ताबड़तोड़ कमाई कर रही है प्रभास की सालार, दो दिन में 300 करोड़ रुपये के करीब पहुंचा बॉ स ऑफिस कले शन

दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने-माने अभिनेता प्रभास अभिनीत फिल्म 'सलारः पार्ट 1-सीजफायर' ने रिलीज होने के दो दिनों के भीतर दुनियाभर के सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर 295.7 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म के निर्माताओं ने रविवार को यह जानकारी दी। इस फिल्म का निर्माण 'होम्बले फिल्म्स' ने किया है और इसके निर्देशक प्रशांत नील हैं। इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी भूमिका निभाई है। निर्माताओं ने सलार के आधिकारिक एक्स पेज पर कमाई के आंकड़े साझा किए। एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया, दुनियाभर में टिकट खिड़की पर दबदबा कायम करते हुए सलार ने दो दिनों में 295.7 करोड़ रुपये की कमाई की। होम्बले फिल्म्स के अनुसार, सलार ने पहले दिन दुनिया भर में 178.7 करोड़ रुपये की कमाई की जो वर्ष 2023 में किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़ी शुरुआत है।

'सलार' की कहानी दो दोस्तों देवा और वर्धा के इर्द-गिर्द घूमती है जिनकी भूमिका क्रमशः प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाई है, जो अंत में कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। यह फिल्म शुक्रवार को तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। प्रभास की इस फिल्म के शुरुआती दिन का आंकड़ा शाहरुख खान की 2023 की दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों पठान और जवान से को पार कर गया।

'पठान' और 'जवान' ने पहले दिन में दुनियाभर में क्रमशः 106 करोड़ रुपये और 129.6 करोड़ रुपये की कमाई की थी। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म एनिमल ने पहले दिन 116 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 'सलार : पार्ट 1- सीजफायर'में रुति हसन, ईश्वरी राव, जगपति बाबू और श्रिया रेड्डी भी हैं। फिल्म के सीक्वल का नाम सलारः पार्ट 2 - शौर्यांग पर्वम है।

पठान और जवान की तरह बवाल नहीं मचा पायी शाहरुख खान की अच्छी फिल्म डंकी

शाहरुख खान स्टारर डंकी कमाई के मामले में धीरे-धीरे और लगातार ऊपर की ओर चढ़ रही है। हर बीतते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। भावनाओं, रोमांस और संघर्ष के सही मिश्रण ने नेटिज़न्स के दिलों को छू लिया है।

शाहरुख खान स्टारर डंकी कमाई के मामले में धीरे-धीरे और लगातार ऊपर की ओर चढ़ रही है। हर बीतते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। भावनाओं, रोमांस और संघर्ष के सही मिश्रण ने नेटिज़न्स के दिलों को छू लिया है। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डंकी ने पांचवें दिन करीब 22.50 करोड़ रुपये की कमाई की और इसका कुल कलेक्शन 128.13 करोड़ रुपये हो गया है।

डंकी दसग्रह

पहले दिन का कलेक्शन : 29.2 करोड़ रुपये

दूसरे दिन का कलेक्शन : 20.12 करोड़ रुपये

तीसरे दिन का कलेक्शन : 26 करोड़ रुपये

चौथे दिन का कलेक्शन : 31.50 करोड़ रुपये

डंकी दिवस 5 थिएटरों में हिंदी अधिभोग

सुबह के शो : 20.94

दोपहर के शो : 44.92

शाम के शो : 52.15

रात्रि शो : 40.09

डंकी क्या है?

डंकी एक पंजाबी मुहावरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सरल शब्दों में कहें तो जब लोगों को अलग-अलग देशों में रोककर अवैध तरीके से दूसरे देश भेजा जाता है तो उसे गधा मार्ग कहा जाता है। पंजाबी में डंकी का अर्थ है कूद-कूदकर, छलाँग लगाकर अवैध रूप से कहीं जाना। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों तक पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है, जिसे अवैध आप्रवासन भी कहा जाता है। इन रास्तों से लोगों को अवैध रास्तों से कनाडा, अमेरिका या यूरोप भेजा जाता है।

राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित, डंकी में बोमन ईरानी, तापसी पन्नू, विक्की कौशल, विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। फिल्म चार दोस्तों की कहानी बताती है जो विदेश जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। यह फिल्म पूरी तरह से अवैध आप्रवासन तकनीक पर आधारित है जिसके माध्यम से हजारों भारतीय दूसरे देश में चले जाते हैं।

फिलहाल यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और डंकी कई देशों में तीसरी ब्लॉकबस्टर ओपनर बन गई है। जीओ स्टूडियोज़, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और राजकुमार हिरानी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत, राजकुमार हिरानी और गौरी खान द्वारा निर्मित और अभिजात जोशी, राजकुमार हिरानी और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखित।

सालार ने बचा लिया प्रभास का डूबता करियर! 5 साल बाद दी ऐसी फिल्म जिसे लोगों ने किया पसंद, चार दिन में 250 करोड़ कमाए

प्रभास की नवीनतम पेशकश सालार सीज फायर- पार्ट 1 क्रिसमस के अवसर पर अपने भी कैश रजिस्टर को चालू रखती है। फिल्म ने हाल ही में प्रतिष्ठित 200 करोड़ रुपये क्लब में प्रवेश किया।

प्रभास की नवीनतम पेशकश सालार सीज फायर- पार्ट 1 क्रिसमस के अवसर पर अपने भी कैश रजिस्टर को चालू रखती है। फिल्म ने हाल ही में प्रतिष्ठित 200 करोड़ रुपये क्लब में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सालार ने चौथे दिन 42.50 करोड़ रुपये कमाए और इसका कुल कलेक्शन 251 करोड़ रुपये हो गया है।

सालार सीज फायर- पार्ट 1 में सोमवार होने के बावजूद क्रिसमस पर कुल मिलाकर 63.41त्न तेलुगु ऑक्यूपेंसी थी। इतना ही नहीं, सालार के तेलुगु संस्करण को अपने शुरुआती दिन में कुल 88.93त्न ऑक्यूपेंसी मिली, जिसमें एक बड़ा योगदान रात के शो का था।

फिल्म के पेज सालार के आधिकारिक हैंडल ने वैश्विक कमाई साझा की। तस्वीर में प्रभास थे और उन्होंने कैप्शन में लिखा, रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर। 402 करोड़ रुपये (दुनिया भर में 3 दिन)। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रभास के अलावा रुति हासन, पृथ्वीराज सुकुमारन, मीनाक्षी चौधरी और जगपति बाबू भी शामिल हैं। सीज फायर- पार्ट 1 एक गिरोह के नेता की कहानी बताता है जो अन्य आपराधिक गिरोहों से मुकाबला करने का एक मरते हुए दोस्त से वादा करता है। सालार को दुनिया भर में 22 दिसंबर को तमिल, मलयालम, हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु में रिलीज़ किया गया था। फिल्म के सीक्वल का नाम सालारः पार्ट 2-शौर्यंगा पर्व है।

फिर डराने लगा कोरोना का खतरा

देश में कोविड-19 के सामने आए 412 नए मामले

संक्रमण

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे अद्यतन आंकड़ें जारी किए गए।
- कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से तीन और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,33,337 हो गई।



नई दिल्ली। कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि भारत में कोविड-19 के 412 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,170 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे अद्यतन आंकड़ें जारी किए गए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से तीन और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,33,337 हो गई। वहीं, भारत में वर्तमान में कोविड मामलों की संख्या 4,50,09,660 है।

इसके अलावा, बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,44,72,153 हो गई है और मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है। बता दें, मामले की मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है।

मंत्रालय के अनुसार, देश में अब तक कोविड टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं सूत्रों की मानें तो देश में 25 दिसंबर तक कुल 69 जेएन.1 कोविड वैरिएंट के मामले सामने आए हैं।

केरल के लोगों के लिए राहत की बात है। फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया और उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,096 रह गई है।

आज सुबह आठ बजे तक देश भर में सामने आए 116 नए मामलों में से केरल से कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 32 मामलों में कमी आई। इससे सोमवार के 3,128 से सक्रिय मामले 3,096 हो गए। राज्य में आज किसी की मौत नहीं हुई।

राज्य में सोमवार को कोविड-19 के 128 नए मामले सामने आए और इस बीमारी से एक मरीज की मौत हो गई। बता दें, केरल में तीन साल पहले कोरोना वायरस फैलने के बाद से अब तक कुल 72,064 लोगों की मौत हो चुकी है।

केरल में क्रिसमस पर्व के दौरान हुआ बड़ा हादसा, अस्थायी पुल ढहा, कई लोग घायल

तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेय्याट्टिनकरा के पास पूवर में क्रिसमस समारोह के लिए बनाया गया एक अस्थायी पुल सोमवार रात ढह गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस घटना में सात से आठ लोगों के घायल होने की सूचना है, जिनमें से एक महिला के पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने कहा गया की बाकी लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं। अधिकारी ने बताया कि घटना रात करीब नौ बजे हुई जब कई लोग पुल के ऊपर चढ़ गये।

उनहोंने बताया कि पुल लोगों का वजन नहीं झेल सका और एक तरफ झुक गया, जिससे वहां खड़े लोग गिर गए। उन्होंने बताया कि जमीन से पुल की ऊंचाई लगभग पांच फुट थी।

गौरतलब है कि अधिकारी ने बताया अस्थायी पुल लोगों को क्रिसमस समारोह के लिए बनाया गया था। जिस पर एक झरना और यीशु के जन्म के साथ-साथ अन्य सजावट को दर्शाने वाले क्रिसमस दृश्य को देखने के लिए एक दीवार के पार दूसरी तरफ जाने के लिए स्थापित किया गया था।

उन्होंने कहा, पुल जमीन से लगभग पांच फीट ऊपर था और एक समय में कुछ लोगों के लिए बनाया गया था। अधिकारी ने कहा, कई लोग एक साथ उस पर चढ़ गए जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई।

युवा शक्ति ही इस पृथ्वी को बचा सकते हैं: राकेश चानना

कापसहेड़ा, नई दिल्ली। ऑरवेल इंग्लिश इस्टीट्यूट एवम इंटलेक्चुअल सोसाइटी के द्वारा आयोजित धरती संरक्षण सम्मान समारोह में देश के जाने माने आपदा प्रबंधक विशेषज्ञ नकुल तरुण को शिक्षाविद् एवम सोशल एक्टिविस्ट राकेश चानना ने धरती संरक्षण सम्मान से नवाजा।इस मौके पर राकेश चानना ने युवाओं से आग्रह किया कि वे ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूक बनें और नकुल तरुण जैसे आपदा विशेषज्ञों का साथ दें ताकि पृथ्वी को रहने लायक बनाया जा सके।श्री चानना ने कहा कि प्राकृतिक के पास लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयाप्त मात्रा में सारी चीजें उपलब्ध हैं लेकिन प्राकृतिक हमारी लालच को पूरा करने में असमर्थ है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान नकुल तरुण ने आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छात्रों के साथ साझा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में युवाओं को अवश्य आना चाहिए इसमें रोजगार के भी भरपूर अवसर हैं। नकुल तरुण ने संस्था के निदेशक दीपक सिन्हा के इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं के बीच जोश और जागरूकता बढ़ती है और यही जोश और जागरूकता हमें आपदा जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। दीपक सिन्हा अंग्रेजी के एक अच्छे शिक्षक हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि वे आपदा प्रबंधन विषय में भी काफी रुचि रखते हैं।

अयोध्या से अमृत भारत एक्सप्रेस को जल्द हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही पहली अमृत भारत ट्रेन का अयोध्या से शुभारंभ करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को नई दिल्ली स्टेशन पर इसके कोच और इंजन के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। वैष्णव ने प्लेटफार्म पर करीब आधा घंटा बिताया।

उन्होंने इस ट्रेन की नई पुश-पुल तकनीक के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार यह तकनीक ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए कई नई सुविधाएं पेश की गई हैं। रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेनों को चलाने में दुनिया भर में दो तरह की तकनीक का इस्तेमाल की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नालॉजी और पुश-पुल टेक्नालॉजी।

वैष्णव ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टेक्नालॉजी में हर दूसरे या तीसरे कोच में एक मोटर होती है, जो ओवरहेड उपकरण के माध्यम से आपूर्ति की गई बिजली की मदद से चलती है। वंदे भारत ट्रेनें इसी पर आधारित हैं। दूसरी तकनीक पुश-पुल है, जिसका मतलब है कि ट्रेन में दो इंजन होते हैं। एक सामने की तरफ और दूसरा अंत में। जहां आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है, वहीं पीछे वाला इंजन ट्रेन को आगे की तरफ धकेलता है। वैष्णव ने कहा कि ट्रेन में पुश-पुल तकनीक को शामिल करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं।

आंदोलन के बड़े चेहरे विनय कटियार को अब तक न्योता नहीं, उमा भारती 18 जनवरी को पहुंचेंगी अयोध्या

नई दिल्ली। अयोध्या में भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन समारोह (22 जनवरी) में विशेष अतिथियों को बुलाए जाने का क्रम जारी है। उद्घाटन समारोह में देश-समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के प्रतिनिधि लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे विनय कटियार से इस कार्यक्रम के लिए अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है। यह स्थिति तब है, जब कि वे अयोध्या में ही रहते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मुख्यालय भी यहीं पर है और यहीं से उद्घाटन कार्यक्रम की सभी तैयारियां की जा रही हैं। इसके बाद भी ट्रस्ट के किसी सदस्य ने उनसे अब तक औपचारिक तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संपर्क नहीं किया है। अपने ही बड़े चेहरे से किसी का संपर्क न करना कई लोगों को चौंका रहा है। हालांकि, इस कार्यक्रम के लिए राम मंदिर आंदोलन की बड़ी चेहरा रहीं उमा भारती को आमंत्रित कर दिया गया है और वे 18 जनवरी को प्रातः अयोध्या पहुंच रही हैं। विनय कटियार के करीबी सूत्रों के अनुसार, हिंदुत्व के इस बड़े चेहरे से अभी तक आधिकारिक तौर पर राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया है। विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे बजरंग दल के संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिसके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद कई बड़े आंदोलन चलाती रहती है। लेकिन अभी तक उनसे राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया है।

क्या विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने अब तक विनय कटियार को राम मंदिर उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया है? अमर उजाला के इस प्रश्न पर विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कार्यक्रम के लिए अतिथियों को आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया जारी है। अभी भी इस कार्यक्रम के लिए कई लोगों को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया दिसंबर माह तक चलती रहेगी। ऐसे में अभी यह नहीं कहना चाहिए कि किसी को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

विनोद बंसल ने कहा कि यह संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके लिए किसी को आमंत्रित किए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए 22 जनवरी को देश के हर व्यक्ति को अपने नजदीकी मंदिर में पहुंचकर उसे ही अयोध्या का मंदिर मानकर 11 बजे से दो बजे के बीच उद्घाटन पूजा में शामिल होने के लिए अनुरोध किया गया है। यह आमंत्रण देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जीव से किया गया है।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में इस तरह की पूजा के लिए बिना आमंत्रण के भी पूजा में शामिल होने को सौभाग्य माना जाता है। इसलिए किसी को आमंत्रण की प्रतीक्षा के बिना ही अपने नजदीकी मंदिर को अयोध्या मानकर वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए।

इसके पूर्व लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के उद्घाटन समारोह में न बुलाने की खबरों से हंगामा मच गया था। इसके बाद विहिप ने फोटो जारी कर बताया था कि उसने अपने इन दोनों दिग्गज नेताओं से उद्घाटन समारोह में आने के लिए अनुरोध किया है।

अमित शाह ने सिख गुरु गोबिंद सिंह को किया नमन, कहा- उनकी वीरता भविष्य को प्रेरित करेगी

नई दिल्ली। अमित शाह ने कहा कि सिख गुरु गोबिंद सिंह की शहादत दिवस को वीर बाल दिवस घोषित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बलिदान की कहानी को पूरी दुनिया में फैलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को वीर बाल दिवस के मौके पर सिख गुरु गोबिंद सिंह, उनके पुत्रों और पत्नी माता गुजरी को नमन किया। बता दें कि 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, वीर बाल दिवस के मौके पर मैं गुरु गोबिंद जी के चार साहिबजादों और माता गुजरी जी को नमन करता हूं। पूरे साहस के साथ वे क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हुए और धर्म परिवर्तन को इनकार करते हुए शहादत को चुना। उनकी ये अतुलनीय वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि उनके शहादत दिवस को वीर बाल दिवस घोषित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बलिदान की कहानी को पूरी दुनिया में फैलाया। नौ जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

भारत-रूस के रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में दिया बड़ा

मॉस्को। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के पांच दिवसीय दौरे पर है। रूस के विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात से पहले एस जयशंकर ने रूस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भूराजनीति और रणनीतिक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता की वजह से भारत और रूस के संबंध हमेशा मजबूत बने रहेंगे। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में लिखा कि वह रूसी नेताओं के साथ दोनों देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने, क्षेत्रीय संघर्ष आदि मुद्दों पर बात होगी।

बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दुनियाभर में रूस के इस कदम की आलोचना हुई लेकिन भारत ने भारी दबाव के बावजूद अपने पुराने मित्र देश की आलोचना नहीं की। हालांकि भारत ने साफ किया कि वह युद्ध के खिलाफ है लेकिन खुले तौर पर रूस की आलोचना करने से भारतीय नेतृत्व ने परहेज किया और कहा कि कूटनीति और बातचीत से विवाद का हल होना चाहिए। यूक्रेन से युद्ध

के बाद भारत ने रूस के बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया है। रूस में जयशंकर रूसी उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों के लोगों से संबंध मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। विदेश मंत्री व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों पर भी बात करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर 25-29 दिसंबर तक रूस के दौरे पर रहेंगे।

विदेश मंत्री के दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट बरकरार रखने की कोशिश की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस साल भी भारत और रूस के बीच शिखर सम्मेलन नहीं होगा। दोनों देशों के बीच आखिरी शिखर सम्मेलन छह दिसंबर 2021 को हुआ था। उस शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। इसके बाद कोरोना महामारी और यूक्रेन युद्ध के चलते दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन नहीं हो सका। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार सितंबर 2019 को रूस का दौरा किया था।

कर्नाटक में कांग्रेस की पांचवी गारंटी लागू, सीएम सिद्धारमैया ने लॉन्च की युवा निधि योजना

बंगलूरू। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में की पांचवी गारंटी लागू कर दी है। इस गारंटी के तहत राज्य के बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारी युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। मंगलवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है।

नेतन्याहू का उनके ही देश में बढ़ रहा विरोध, संसद में भाषण के दौरान बंधकों के परिजनों का हंगामा

तेल अवीव। इस्राइल हमास को शुरू हुए ढाई महीने से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन अभी तक सभी इस्राइली बंधकों की रिहाई नहीं हुई है। यही वजह है कि जैसे-जैसे इस्राइल का अभियान लंबा होता जा रहा है, वैसे ही इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का उनके ही देश में विरोध भी बढ़ता जा रहा है। सोमवार को बेंजामिन नेतन्याहू इस्राइली संसद को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान बंधकों के परिजनों ने हंगामा कर दिया और बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने की मांग की।

बंधकों के परिजनों ने अपने हाथों में प्लेकार्ड पकड़े हुए थे, जिनमें बंधकों की तस्वीरें और नाम लिखे हुए थे। नेतन्याहू हाल ही में गाजा से लौटे हैं और उन्होंने सोमवार को संसद में अपने संबोधन में कहा कि अभी बंधकों को छुड़ाने के अभियान में और वक्त लगेगा। इस पर बंधकों के परिजनों ने हंगामा करते हुए तुरंत अपने परिजनों को छुड़ाने की मांग की। बंधकों के परिजनों का कहना

प्लेकार्ड

- बंधकों के परिजनों ने अपने हाथों में प्लेकार्ड पकड़े हुए थे, जिनमें बंधकों की तस्वीरें और नाम लिखे हुए थे।

है कि हमने सरकार पर विश्वास किया कि वह उनके प्रियजनों को वापस ले आएगी लेकिन 80 दिन बीत गए हैं और हर एक मिनट नरक के समान गुजरा है।

लोगों ने सवाल किया कि क्या सरकार तभी भी इतना वक्त लगाती, अगर उनके अपने बच्चे बंधक होते तो? वहीं नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार बंधकों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बता दें कि इस्राइल के 129 बंधक अभी भी

हमास की कैद में हैं। इनमें से 22 के मारे जाने की खबर है, जिनके शव भी गाजा में मौजूद हो सकते हैं। वहीं 107 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं और रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।

इस्राइल हमास युद्ध की विभीषिका ने हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं। इस युद्ध में 13 साल के एक यूट्यूबर की जिंदगी भी छीन ली। इस बच्चे का सपना था कि उसके यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले ही वह गाजा में इस्राइली एयर स्ट्राइक में मारा गया। अब उसकी मौत के बाद उसका सपना पूरा हुआ है और उसके यूट्यूब पर दस लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। साथ ही लोगों ने बच्चे से माफी भी मांगी है कि वह जीते जी उसका सपना पूरा नहीं कर पाए। बता दें कि गाजा में रहने वाला 13 साल अवनी एलदौस एक यूट्यूबर था और कंप्यूटर और गेमिंग का शौकीन था। बीती 7 अक्तूबर को एलदौस की गाजा पर हुई एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। अब जब उसके यूट्यूब पर 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं तो एलदौस चर्चा में आ गया है।

डोनाल्ड ट्रंप को मिला पत्नी का साथ

वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप बेहद लो प्रोफाइल रहीं और चर्चाओं से दूर रहीं, लेकिन इस बार मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के लिए खासी सक्रिय दिख रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में मेलानिया ट्रंप ने रोजलिन कार्टन के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी शामिल हुईं थी और कई अन्य कार्यक्रमों में भी ट्रंप के साथ नजर आ चुकी हैं।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप परिवार को पूरा यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप परिवार के करीबी का दावा है कि यही वजह है कि अब मेलानिया ट्रंप भी सक्रिय रूप से ट्रंप के प्रचार अभियान का हिस्सा बन गई हैं। बीते शुक्रवार को वॉशिंगटन डीसी में नेशनल आर्काइव में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में 25 प्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता दी गई।

अमेरिका में आठ साल की बच्ची के सामने पत्नी की गोली मारकर हत्या, बाद में खुद की भी ली जान

वॉशिंगटन। अमेरिका के हवाई से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 33 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त उनकी आठ साल की बच्ची मौके पर ही मौजूद थी। बताया जा रहा है कि शख्स ने बाद में खुद को भी गोली मार ली।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल दहलाने वाली यह घटना शुक्रवार सुबह पर्लरिज सेंटर की पार्किंग में हुई। पुलिस अधिकारी इस घटना की हत्या और आत्महत्या के रूप में जांच रहे हैं। वाइपाहू में हाउस ऑफ ग्लैम हवाई एलएलसी की मालिक और तीन बच्चों की मां थेरेसा कैचुएला की उनके 44 वर्षीय पति जेसन कैचुएला ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

बताया जा रहा है जिस वक्त जेसन ने गोली चलाई वहां उनकी आठ साल की बेटी मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को गोली चलाते हुए देखा था।

जेसन ने कथित तौर पर ग्रे माजदा में घटनास्थल से भागने के तुरंत बाद

खुद को गोली मार ली। पुलिस इन मौतों की जांच हत्या-आत्महत्या के रूप में कर रही है। बता दें, थेरेसा ने अदालत से अपने अलग रह रहे पति से सुरक्षा के आदेश के लिए याचिका दी थी, जिसे दो हफ्ते पहले ही स्वीकारा गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, जेसन के मृत पाए जाने से पहले पुलिस लेफ्टिनेंट दीना थोम्स ने शुक्रवार को कहा था कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। पीड़ित और संदिग्ध के बीच एक रिश्ता था। इसके बाद भी ऐसी घटना को अंजाम देना आम बात नहीं है। उन्होंने एक अस्थायी रोक का हवाला देते हुए कहा था कि हम जानते हैं कि एक टीआरओ था जो उसे दिया गया था, यही कारण है कि इस मामले को पहली डिग्री में हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

घटना के बाद पुलिस ने जेसन के घर पर जांच की, जहां से पांच पंजीकृत आग्नेयास्त्र बरामद किए गए। इंफ्लुएसर की मां लुसिटा अनी निहोआ ने बताया कि पूरी घटना को मृत दंपत्ति की आठ साल की बेटी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह सदमे में है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी मां अब नहीं रहीं। वह भगवान से लगातार प्रार्थना कर रही है कि उसकी मां वापस आ जाएं।

टीआरओ के लिए डाली गई याचिका में कैचुअला की ओर से कहा गया था कि जेसन ने उन्हें खुद को मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उन्हें वाइकीकी लेकर गया और अपनी गर्दन पर चाकू रख कर उन्हें परेशान करने लगा। कैचुअला ने कहा था, मुझे ङ्घत्ररु डर लग रहा था। अगली सुबह वह माफी मांगने के लिए घर आया। मैंने उसकी मदद करने और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से खुद को मारने की धमकी देता रहा।

आर्कटिक की खतरनाक जेल में मिले पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नवलनी, दो हफ्ते से नहीं थी कोई जानकारी

मॉस्को। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवलनी के बारे में बीते दो हफ्ते से कोई जानकारी नहीं थी। अब नवलनी आर्कटिक की सोवियत काल की जेल में बंद मिले हैं। रूसी सरकार ने नवलनी को बेहद ठंडे आर्कटिक क्षेत्र में स्थित जेल में शिफ्ट कर दिया है। नवलनी की सहयोगी किरा यारमेश ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।

यारमेश ने बताया कि नवलनी यामालो नेनेट्स के खार्प इलाके में स्थित जेल में बंद हैं। बता दें कि खार्प में करीब 5 हजार लोग रहते हैं और यह क्षेत्र आर्कटिक सर्किल के ऊपर स्थित है। इसके चलते यहां जबरदस्त ठंड होती है और यहां की परिस्थितियां बेहद खतरनाक होती हैं। जेल के कैदियों का बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होता और यह रूस के सबसे खतरनाक जेलों में गिनी जाती है। यह इलाका रूस की राजधानी मॉस्को से उत्तर पूर्व में दो हजार किलोमीटर दूर स्थित है।



इस जेल की स्थापना साल 1961 में सोवियत काल के दौरान हुई थी। जेल में कैदियों को कई घंटे काम करना पड़ता है और इसके बदले उन्हें

बेहद कम सुविधाएं मिलती हैं। माना जा रहा है कि नवलनी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें इस जेल में भेजा गया है। रूस में कुछ ही समय बाद आम चुनाव होने हैं और संभव है कि पांचवी बार भी रूस की सत्ता पुतिन के हाथ में जाएगी।

नवलनी के आर्कटिक जेल में बंद होने की खबरें बाहर आने के बाद उनके समर्थकों ने चिंता जाहिर की है। बता दें कि बीते कई दिनों से नवलनी कहां हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब उनके आर्कटिक क्षेत्र की जेल में मिलने पर दुनिया के कई देशों ने भी चिंता जाहिर की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया है। बता दें कि नवलनी को रूस में पुतिन का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए नवलनी को साल 2021 में जेल हुई थी। इससे पहले नवलनी को जहर देकर मारने की भी कोशिश हुई थी। जिसमें नवलनी बच गए थे।

जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति एवं एम0डी0एम0/निपुण टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा की की अध्यक्षता मे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक मे जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को कायाकल्प के सम्बंध में समस्त विद्यालयों कार्यक्रम के अंतर्गत शत प्रतिशत संतृप्त कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। 40 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित विद्युत पोल वाले विद्युत सयोंजन विहिन विद्यालयों मे विद्युत सयोंजन कराये जाने हेतु झटपट पोर्टल पर किये गये विद्यालयों द्वारा आवेदन के क्रम में विद्युत विभाग से स्टीमेट प्राप्त कर ग्राम पंचायत स्तर से विद्युत सन्योजन कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

जिला समन्वयक (निर्माण) को बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों के जर्जर होने की स्थित मे चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। जिला स्तरीय एवं ब्लाक टास्क फोर्स द्वारा विद्यालयों मे संचालित योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष अनुश्रवण किये

जाने हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा निर्देशित किया गया। जनपद के समस्त विकास खण्डों मे परिषदीय विद्यालयोंमे अध्ययनरत छात्रों की उपस्थित एवं ठहराव के सम्बंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को उक्त के सम्बंध मे लगातार समीक्षा किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत करनें के साथ-साथ चेतावनी दी गयी कि जनपद के किसी भी विकासखण्ड के परिषदीय विद्यालयों मे 60 प्रतिशत से कम उपस्थित पाये जाने पर सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाएगा। निपुण विद्यालय होने की दशा मे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी को विद्यालय मे अध्ययनरत छात्रो के अधिगम स्तर का मूल्यांकन कर निपुण घोषित किये जाने हेतु निर्देश देने के साथ-साथ विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्रों को लर्निंग आधारित स्वीप और अन्य प्रतियोगी कार्यक्रम कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लक्ष्य आधारित 5 विद्यालय का निरीक्षण यदि बीटीएफ के सदस्य 30 दिसम्बर तक नही किये तो वेतन रोकने या प्रासंगिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम, समिति के सभी सदस्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त (खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समंवयक, एस0आर0जी0) एवं अन्य जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

काव्य गोष्ठी में कवियों ने बिखेरा जलवा

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। डॉ शिवानी चंद्रा पर केंद्रित शहर समता के साहित्यिक विशेषांक का लोकार्पण एवं एक काव्य गोष्ठी का आयोजन बायोवेद सभागार में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीप्रकाश मिश्र, अध्यक्षता डॉक्टर बृजेश कांत द्विवेदी और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राम जी मिश्रा शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया। विशेषांक का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संपादकीय वाचन शहर समता समता के संपादक और साहित्यकार उमेश श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामजी मिश्र ने कहा कि शिवानी जी में न केवल विज्ञान है बल्कि काव्य का अजस्र स्रोत भी है। यह एक पूर्णता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि काव्य दैवीय गुण है। अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा कि आदमी का लेखन जब समाज को अर्पित कर दिया जाता तो सामाजिक हो जाता है। प्रकाशक रंजन पाण्डेय ने भी अपने विचार व उद्गार व्यक्त किए। वहीं काव्य गोष्ठी का शुभारंभ केपी गिरि की अवधी सरस्वती वंदना से हुआ। इस अवसर पर मुक्तक सम्राट रामकैलाश पाल प्रयागी ने पढ़ा, पंडित राकेश मालवीय मुस्कान ने दोहा पढ़ते हुए कहा--चलो वहीं फिर से चलें, ढूँढें वह सौगात।/मन मलंग नाचा करें, हो जाए बरसात।।, देवी प्रसाद पाण्डेय ने सुनाया, केपी गिरि, रचना सक्सेना, संजय सक्सेना, मिली श्रीवास्तव, मीता सहाय और रंजन पाण्डेय, शहर समता के संपादक व कवि लेखक उमेश श्रीवास्तव ने काव्य पाठ किया। डॉक्टर रवि मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया।

ब्राह्मण धर्मशाला को लेकर की गयी औपचारिक बैठक

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। श्री त्रिलोचन महादेव स्थित मंदिर परिसर में ब्राह्मण धर्मशाला का निर्माण जीडीएस कंपनी के अध्यक्ष संजीव उपाध्याय की अध्यक्षता में किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य ब्राह्मण धर्मशाला व चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 25 जो ओम प्रकाश उपाध्याय की स्मृति में बनाया गया है, के द्वारा किया जा रहा है। इसी को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक निर्माण स्थल पर की गई। बैठक में सभी उपस्थित सज्जनों ने निर्माण कार्य की प्रशंसा करते हुये ब्राह्मण समुदाय के लोगों से आह्वान किया कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आवें, क्योंकि निर्माण कार्य का वीणा संजीव

उपाध्याय ने उठाया है तो वह अवश्य पूर्ण करेंगे, फिर भी जनमानस की भावना को देखते हुए जो भी ब्राह्मण भाई-बंधु इस निर्माण कार्य में सहयोग देना चाहते हैं तो सहयोग राशि को किसी भी व्यक्ति को नगद के रूप या वस्तु के रूप में न देकर रजिस्टर्ड सोसाइटी के खाता नंबर में ही योगदान दें जिससे दी गई धनराशि का सदुपयोग हो सके। इस अवसर पर त्रिलोचन महादेव मंदिर के प्रबंधक मुरली गिरी, जगदीश उपाध्याय, कैलाश पाठक, अनुज शुक्ला एडवोकेट हाईकोर्ट, प्रहलाद मिश्रा, ओंकार तिवारी, दिनेश दुबे, सुधीर पाठक, गिरिजा तिवारी, कमलेश शुक्ला, महंत संतोष देव, सुशील दुबे, संतोष दुबे, सुनील, मनोज, झुल्लन मिश्रा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे।

विधायक ने गरीबों के बीच वितरण किया कम्बल

जौनपुर (महराजगंज) क्षेत्र के सराय गौरा,भरथरी,महराजगंज बाज़ार में बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा मुसहर, दलित व असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया।

विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार का सपना है कि गरीबों को उनका हक मिले। कोई भी गरीब सरकार की योजनाओं से अछूता न रहे।भाजपा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के जन जन के हितार्थ हेतु कृत संकल्पित है। भाजपा नेता मनोज सिंह सोमवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि चहुंओर विकास कार्य तेजी से कराया जाय।इस मौके पर उमा प्रताप सिंह, राजन पांडेय, नन्हे बीडीसी,भोला प्रसाद सेठ, सत्येंद्र निगम, अम्बुज तिवारी, सुरेश चौहान सहित मौजूद रहे।

जाड़ा, गर्मी, बरसात झेलकर हम तक अखबार पहुंचाने वालों के लिये सदैव खड़ा रहूंगा: ज्ञान

अवधनामा संवाददाता

जौनपुर। समाचार पत्र विक्रेता संघ जौनपुर का 28वां वार्षिक समारोह नगर के मीरपुर में स्थित संघ भवन के सभागार में हुआ जहां सर्वप्रथम अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम की शुरूआत किया। जौनपुर नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि डा. राम सूरत मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता/समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह रहे जिनका अध्यक्ष राम सहारे मौर्य ने अंगवस्त्रम, सम्मान पत्र एवं विजय तिलक लगाते हुये पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।

साथ ही पूर्व चेयरमैन दिनेश टण्डन का स्वागत महामंत्री अवधेश मौर्य, लोक गीत गायक आशीष पाठक अमृत व पूर्व अध्यक्ष राम प्यारे प्रजापति का स्वागत संतोष मौर्य पचोखर और राष्ट्रीय बैडमिण्टन खिलाड़ी बाबा मौर्य का स्वागत मीडिया प्रभारी पंकज मौर्य ने किया। वहीं कार्यक्रम अध्यक्ष डा. राम सूरत मौर्य का स्वागत कोषाध्यक्ष मंगरू राम मौर्य, भागवत नारायण चौरसिया का स्वागत पवन साहू, सभासद कलेन्दर बिन्द एडवोकेट का स्वागत कुलदीप साहू ने किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संघ को विभिन्न रूप से सहयोग करने पर समाजसेवी अरविन्द बैंकर्स, सपा नेता राजकुमार यादव, कोटेदार अजय गौतम, शिव कुमार द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य विकास यादव, समाजसेवी जगदीश बिन्द, सभासद जगदीश मौर्य गप्पू को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुये माल्यार्पण करके स्वागत किया गया।

इसी क्रम में मुख्य अतिथि श्री सिंह ने समाचार पत्र विक्रेता विरेन्द्र मौर्य गप्पू, विजय शर्मा सहित अन्य साथियों को अंगवस्त्रम् एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही कहा कि समाचार वितरक जाड़ा, गर्मी एवं बरसात को झेलते हुये प्रतिदिन देश–दुनिया की खबरें अखबार के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तमाम राजनैतिक लोग हैं लेकिन अभी तक इन विक्रेताओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देखा। साथ ही उन्होंने घोषणा किया कि मैं किसी राजनैतिक पद पर रहूं या न रहूं लेकिन इस वितरक समाज के लिये समय–समय पर इनका सहयोग करता रहूंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये डा. राम सूरत मौर्य ने कहा कि इन समाचार पत्र विक्रेताओं के लिये मैं हर सम्भव सहयोग करूंगा।

कैंडिल मार्च निकालकर दी उमेष सेठ को श्रद्धांजलि

जौनपुर। सर्राफा एसोसिएशन एवं सोनार नरहरि सेना की बैठक नगर के हनुमान घाट पर की गई जहां से सैकड़ो सर्राफा व्यवसायी कैंडल मार्च निकाल कर हत्या और लूट के षिकार उमेष सेठ को श्रद्धांजलि दिया मार्च चहारसू चैराहे पर समाप्त हुआ। इस दौरान एसोसिएशन ने बताया कि पुलिस अधीक्षक से पूर्ण आश्वासन मिला है जल्द से जल्द घटना का खुलासा हो जाएगा और जो भी अपराधी इस घटना में शामिल है उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। कैडिल मार्च में सोनार नरहरि सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा बबलू भदोही, राकेश सेठ मुरलीधर सेठ वाराणसी , स्वर्णकार कारीगर संघ के अध्यक्ष रविंद्र सेठ, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दयाशंकर सेठ मोनू धीरज सेठ संजय वर्मा अशोक सेठ सूरज सोनी संजय सेठ मोहन सेठ दिनेश सेठ नागेंद्र सेठ सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर मना स्थापना दिवस

अवधनामा संवाददाता

निज़ामाबाद,आजमगढ़। मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तहसील निज़ामाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर कॉमरेड लालचंद यादव की अध्यक्षता में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। जिसका संचालन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिलामंत्री जितेंद्र हरि पांडेय ने किया। इस अवसर पर एक गोष्ठी की गयी जिसका विषय था, साम्यवाद ही क्यों।विषय पर बोलते हुए उप्र पार्टी राज्य परिषद सदस्य रामाज्ञा यादव ने कहा कि हम आदिम समाज से पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद तक पहुंचे।

आज दुनियां में पूँजीवाद का बोलबाला है।आज़ादी के बाद भारत में सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा मिला।आज उसे निजी हाथों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है।कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक विचारों वाली पार्टी है जो यह मानती है कि समाज मे दो ही वर्ग हैं। एक अमीर दूसरा गरीब है। इनके बीच समानता लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी भारत मे समानता के विचारों पर डटकर कार्य कर रही है। पार्टी के राज्य कंट्रोल कमीशन के सदस्य हरिगेन राम ने कहा कि 1917 में रूसी क्रांति से वहां साम्यवाद की स्थापना हुई। उसी से प्रभावित होकर मार्क्सवादी विचारों को लेकर 1925 में 25 व 26 दिसम्बर को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।हम मार्क्सवादी विचारों के साथ गरीबों, मजदूरों,किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अशोक कुमार यादव,अब्दुल्लाह ने भी गोष्ठी में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अजय तिवारी, हरिकेश गोंड, प्रेमचंद पांडेय, लालजी, दुलचंद यादव, मो रियाज आदि लोग उपस्थित रहे।

क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन

आजमगढ़। जनपद के हरिबंशपुर स्थित पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के आवास पर क्रिसमस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चो ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर बलिहारी बाबू स्मृति सामाजिक सेवा संस्थान की सचिव- चाँदनी आनंद ने बच्चो को शुभकामना देते हुए कहाँ कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आज हमें याद दिलाने आया, कि वह गरीबों दलितों व बेस हारा लोगों को सहारा देने आया हैं। हमें एक दूसरे को प्रेम आदर व सम्मान देना चाहिए। इस मौके पर संस्था की अध्यक्ष- सीता देवी जी, आकाश, आकाश, हर्ष,उज्जवल, कृति, जागृति आनंद शिवांगी आनंद , शुभम आनंद सहीत काफी संख्या में लोग उपस्थित रहें हैं।

फरार चल रहे इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम का मकान कुर्क

- भारी फोर्स रही तैनात, अब हथौड़े से तोड़ा जाएगा मकान

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी फरार चल रहे बमबाज गुड्डू मुस्लिम का मकान और उसके घर के सामान को पुलिस ने मंगलवार को कुर्क कर दिया। चकिया इलाके के चक निरातुल स्थित मकान पर पहुंची पुलिस ने यह कार्रवाई की। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस ने पांच लाख का इनाम घोषित किया है। बड़ी संख्या में फोर्स के साथ पहुंची पुलिस ने यह कार्रवाई की। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा।

24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था। वह लगातार बमबाजी कर मौके पर दहशत पैदा कर रहा था। उसमें उमेश पाल के गनर को बम से हमला कर जख्मी कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना के बाद से वह फरार चल रहा है। पुलिस की कई टीमें उसकी खोजबीन में जुटी हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका है।

उसका मकान चकिया के चक निरातुल इलाके में सकरी गली में है। इसके चलते मकान को ढहाया नहीं जा सका। पुलिस ने मकान को कुर्क करने के साथ ही उसमें रखे सामान को भी जब्त कर लिया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही परिवार के लोग भी भूमिगत हैं। पुलिस ने इसको पहले ही सील कर दिया था। अब कुर्की की कार्रवाई की गई।

कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गुड्डू का सारा घर खंगाल डाला। घर में लगे दरवाजों और खिड़कियों को उखड़वा लिया गया। इसके साथ ही टूटी चारपाई भी पुलिस अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है घर को खाली करवाने के बाद इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी मिली है कि गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक अहमद के चार अन्य करीबियों को भी पीडीए की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बताया गया कि गुड्डू मुस्लिम के अवैध मकान को हथौड़े से ढहाया जाएगा, जिसके लिए आठ श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा।

एनुअल स्पोर्ट्स मीट का हुआ आगाज

आजमगढ़। सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का भव्य शुभारंभ हुआ एनुअल स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि लक्ष्मण मौर्य जी चेयरमैन , जिला कोऑपरेटिव बैंक, आजमगढ़ विशिष्ट अतिथि मनीष कुमार सिंह जी क्षेत्रीय सह-संयोजक , शिक्षक प्रकोष्ठ, गोरखपुर क्षेत्र गोविंद दुबे जी प्रदेश महासचिव , उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ) राजेंद्र मौर्य जी समाजसेवी,विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य एस.एन.यादव जी ने दीप प्रजलन एवं मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण किया स तत्पश्चात भव्य मशाल जलाकर मुख्य अतिथि जी ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आगाज एवं शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट के माध्यम से मुख्य अतिथि एवं विशिष्टअतिथि को सलामी दी गई। उसके बाद गुब्बारा उड़ाकर मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं विद्यालय परिवार द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया।

डा. भक्तवत्सल का होमियो विभूषण सम्मान से हुआ सम्मान

अवधनामा संवाददाता

आजमगढ़। राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होमियोपैथी रिवॉल्यूशन प्रोग्राम-2023 में शनिवार को होमियोपैथी के ख्यातिलब्ध चिकित्सक एवं समाजसेवी डा. भक्तवत्सल सहाय को होमियोपैथी जगत में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए होमियो विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आईपीएस नवनीत सिकेरा ने डा. भक्तवत्सल को उक्त सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा केंद्रीय होमियोपैथी परिषद के पूर्व अध्यक्ष डा. रामजी सिंह, डा. एसएन सिंह, डा. बीएन सिंह को लाइफटाइम एचीवमेंट एवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि हाल ही में डा. भक्तवत्सल को होमियो श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनकी

इस उपलब्धि से होमियोपैथिक चिकित्सक गदगद है। डा. भक्तवत्सल को बधाई देने वालों को ताता लगा हुआ है। होमियोपैथी रिवॉल्यूशन प्रोग्राम-2023 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, आयुष मंत्री दयाशकर मिश्रा, विधायक पंकज सिंह, राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। वहीं वर्ष 1983 वर्ल्डकप टीम के कप्तान कपिल देव, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, मशहूर कवि कुमार विश्वास, डॉ हरिओम पवार, युवा कवि स्वंम श्रीवस्त्व विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभी ने डा. भक्तवत्सल और अन्य चिकित्सकों द्वारा होमियोपैथ के विकास में दिए गए योगदान की सराहना की। कारण कि यह अन्य पद्धतियों के अपेक्षा सस्ती तो है ही असाध्य रोगों को भी जड़ से समाप्त करती है। डा. भक्तवत्सल ने कहा कि होमियोपैथी तेजी से प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। इस चिकित्सा पद्धति ने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। इस पद्धति को गांव के अंतिम छोर पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। हमाई विभिन्न माध्यमों से इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। डाक्टर भक्तवत्सल की उपलब्धि के लिए आजमगढ़ के चिकित्सक डा. राजेश तिवारी, डा. प्रमोद गुप्ता, डा नेहा दुबे, डा. अनुतोष वत्सल, डा. देवेश कुमार दूबे, डा. रणधीर सिंह, डा. सलमानी, डा. रणधीर सिंह, डा. वी पांडेय, आयोजक बर्नेट फार्मा के सीइओ डा. नितीश दुवे आदि ने बधाई दी।

सोहबतियाबाग में हुई भगवान चित्र गुप्त की मूर्ति की स्थापना

प्रयागराज। शहर के सोहबतियाबाग में स्थित साई मंदिर परिसर में भगवान चित्र गुप्त की मूर्ति की स्थापना रविवार को विधिवत पूजन अर्चन के बाद की गई। बतौर मुख्य अतिथि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्याय मूर्ति बी. के. नारायण एवं विशिष्ट अतिथि आशीष श्रीवास्तव रजिस्ट्रार हाईकोर्ट रहे। कार्यक्रम के आयोजक मण्डल में अधिवक्ता कल्पना श्रीवास्तव, शौर्य दीप सचिन श्रीवास्तव, जय दीप श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, मनोज निगम, रंग जी श्रीवास्तव शामिल रहे। आभार प्रदर्शन पूर्व मेयर प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव ने किया। मूर्ति स्थापना के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कायस्थ समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

वीर साहबजादे राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान हुए: भाजपा

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। वीर बाल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे के बलिदान को याद करते हुए मंडल स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पक्की संगत मालवीय नगर के गुरुद्वारे में आयोजित समागम में प्रयागराज महानगर के प्रभारी महेश चंद्र श्रीवास्तव, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, महापौर गणेश केसरवानी एवं महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होकर शब्द कीर्तन का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश हीं नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में गुरु गोविंद सिंह के अमर

पुत्रों के बलिदान को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हुए उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के वीर साहिबजादे जोरावर सिंह, जुझारू सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह ने स्वयं जीने की बजाय राष्ट्र धर्म और इस देश की मिट्टी के लिए बलिदान हुए आज देश उन वीर पुत्रों के बलिदान पर गर्व कर रहा है और आने वाले पीढ़ियों को राष्ट्र धर्म के लिए जीने की और मरने की प्रेरणा दे रहा है। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंडल स्तर पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस अवसर पर नरेश कुंद्रा, सरदार पतिविंदर सिंह, सिख सेवा संगम के अध्यक्ष हरिंदर पाल सिंह, नरेश कुंद्रा, राजेश केसरवानी, परम जीत सिंह बग्गा, परमिंदर सिंह, मान सिंह चावला, जसबीर सिंह, बंटी पुरी, लखविंदर सिंह, रजिंदर सिंह ग्रोवर, चरन जीत सिंह, एस सरना एवं सैकड़ो भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डॉ. सुशील सिन्हा चुने गए केपी ट्रस्ट के अध्यक्ष, चौधरी राघवेंद्र को 18 मतों से हराया

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। एशिया के सबसे बड़े शैक्षणिक ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला के चुनाव में डॉ. सुशील कुमार सिन्हा अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने केपी ट्रस्ट पूर्व अध्यक्ष रहे चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह को कड़ी टक्कर में 18 मतों से पराजित किया। चुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले गए थे। इसकी मतगणना मंगलवार को हुई। इसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। चुनाव के एक दिन पहले रविवार को दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हो गई थी। जिसमें डेढ़ सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह चुनाव दोनों प्रत्याशियों के लिए प्रतिष्ठा

का विषय बन गया था। कई दशक से अध्यक्ष पद पर कबिज चौधरी परिवार भी इस चुनाव में दो खेमों में बंटा नजर आया। चौधरी जितेंद्रनाथ सिंह और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ जहां राघवेंद्र नाथ के समर्थन में दिखे, वहीं ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी चौधरी केपी श्रीवास्तव और टीपी सिंह डॉ. सुशील सिन्हा के समर्थन में नजर आए। सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। 32 बूथों पर शाम पांच बजे तक 9563 मत पड़े। अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में थे जबकि कार्यकारिणी सदस्यों के 21 पदों पर 64 प्रत्याशियों के भाग्य आजमा रहे थे। कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज परिसर में सुबह आठ बजे वोटिंग शुरू हुई। शुरुआत से ही सुशील बढ़त बनाए रहे जो अंत तक कायम रही। बीच में राघवेंद्र का भी पलड़ा भारी नजर आया जो परिणाम आते आते कुछ मतों से पीछे हो गया। परिणाम आने के बाद सुशील के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की।

महाकुंभ की प्राथमिकता ने बदली कुंभ नगरी प्रयागराज की तस्वीर

- इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के सहारे दाखिल हुआ बदलाव
- दो नए औद्योगिक गलियारों की सौगात ने दी मजबूती
- धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यटन ने पकड़ी रफ्तार

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। कुंभ नगरी प्रयागराज के विकास की तस्वीर तेजी से बदली है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज प्रदेश की योगी सरकार के लिए विकास की उच्च प्राथमिकता में रहा है। वर्ष 2023 में भी प्रयागराज के नाम कई उपलब्धियां दर्ज है जिसके आलोक में यह वर्ष 2024 में प्रवेश करने जा रहा है।

विकास की धुरी कहे जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं सड़कें, हाइवे, फ्लाइओवर्स और एयर कनेक्टिविटी। योगी सरकार की तरफ से जनपद में सड़कों, हाईवे और फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया जा रहा है। जनपद में 13 सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और नई सड़कों का निर्माण हो रहा है जिसका पचास फीसदी कार्य इस साल पूरा हो गया है। इसके लिए पहले फेज में 365 करोड़ खर्च किए जाने थे। उत्तर मध्य रेलवे के दायरे में प्रयागराज में कुल 17 रेलवे ओवर ब्रिज और रेल अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। जनपद में 9 फ्लाई ओवर्स में 4 का निर्माण पूरा हो चुका है दो फ्लाई ओवर में शेष कार्य जारी है। प्रदेश सरकार की तरफ से शहर को मिली आउटर रिंग की परियोजना से शहर का नक्शा बदलने जा रहा है। एनएचएआई की 4068 करोड़ की लागत से बनने वाली 65 किलोमीटर लंबी इस रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। फाफामऊ से शहर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 1948 करोड़ की लागत से बन रहा 9.8 किलोमीटर लंबा सिक्स लेन पुल भी तकरीबन बनकर तैयार है।

प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है और यह एयरपोर्ट इस साल अब घरेलू उड़ानों की संख्या में प्रदेश में नंबर वन हो चुका है।

कुंभ नगरी प्रयागराज को धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान देने के साथ प्रदेश की योगी सरकार ने जनपद में उद्योगों का हब बनाने की बुनियाद रखी है। एक तरफ जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जनपद में करोड़ के निवेश के लिए निवेशकों ने एमओयू किए। कुंभ नगरी प्रयागराज में योगी सरकार ने बीते वर्ष 2023 में उन पिछड़े इलाकों में भी उद्योग स्थापना का रोड मैप तैयार किया जो अब तक औद्योगिक विकास उपेक्षित रहे हैं। जिले के यमुनापार का शंकरगढ़ इलाका भी उसी में एक है।

पर्यटन विस्तार से बनी नई पहचान

प्रयागराज। बीते वर्ष में पर्यटन के क्षेत्र में प्रयागराज ने अलग पहचान बनाई है। रोपवे से संगम -अक्षय वट दर्शन की योजना के अंतर्गत संगम क्षेत्र में 251 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण की प्रक्रिया की बुनियाद इसमें अहम है। इसी कड़ी में इस साल कुम्भ मेला प्राधिकरण की तरफ से प्रयागराज के प्रमुख 7 घाटों को काशी के घाटों की तर्ज पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पक्के घाट के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हुई है। संगम के किला घाट के बगल 60 मीटर चौड़ा और 72 मीटर लंबा पक्का घाट बनना शुरू हो गया है जिसकी लागत 7 करोड़ के करीब है। साल के जाते -जाते संगम किनारे लेटे हनुमान मंदिर का 40.4 करोड़ की लागत से कायाकल्प का प्रस्ताव भी शासन से स्वीकृत हुआ है। अक्षयवट हनुमान मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया भी इसी साल शुरू हुई जिसके अंतर्गत अक्षयवट कॉरिडोर का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस योजना में 251करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 230 अंक चढ़ा, निफ्टी 21400 के पार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 229.84 (0.32%) अंकों की बढ़त के साथ 71,336.80 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 91.95 (0.43%) अंकों की बढ़त के साथ 21,441.35 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को आईटी सेक्टर के शेयरों में बिकवाली से बाजार में सपाट शुरुआत हुई। बाद में मेटल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी बाजार संभला। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 241 अंक चढ़कर 71,106 के स्तर पर बंद हुआ था।

बिजली, यूटिलिटीज, तेल व गैस और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 229.84 अंक यानी 0.32 प्रतिशत बढ़कर 71,336.80 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 364.33 अंक या 0.51 प्रतिशत के लाभ से 71,471.29 अंक पर पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों ने तेजी में करीब 120 अंक का योगदान दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 91.95 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,441.35 अंक पर बंद हुआ।

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार के कारोबारी सेशन के दौरान बिजली, यूटिलिटीज, बैंकिंग, तेल व गैस और जिंसों (कॉमोडिटीज) के शेयरों में खरीदारी देखी गई जबकि आईटी और प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली दर्ज की गई। सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, टाइटन और एचडीएफसी बैंक के शेयर लाभ में रहे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में गिरावट रही।

राष्ट्रपति ने क्रॉम्पटन को प्रतिष्ठित नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया

मुंबई। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लि. (सीजीसीईएल), भारत की अग्रणी कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कंपनियों में से एक, को प्रतिष्ठित नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विद्युत मंत्रालय ने इसके एक निकाय, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के माध्यम से दिया है। कंपनी ने अपने स्टोरेज वाटर हीटर के लिये मोस्ट एनर्जी एफिशियेंट अप्लायंस ऑफ द ईयर 2023 की कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की है।

क्रॉम्पटन को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाना ऊर्जा बचाने वाले नवाचारों के लिये इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। यह अवार्ड क्रॉम्पटन की स्थायी उत्कृष्टता का सबूत है। कंपनी को इससे पहले विभिन्न कैटेगरीज में यह प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है। पिछले

संस्करणों में उसे पंखों और लाइट्स के लिये सम्मानित किया गया था। समारोह का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। सीजीसीईएल की ओर से प्रबंध निदेशक एवं सीईओ प्रोमीत घोष और होम इलेक्ट्रिकल्स के बिजनेस हेड सचिन फर्तियाल ने अवार्ड प्राप्त किया।

नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स (एनईसीएल) एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। इसमें ऊर्जा संरक्षण के लिये बेजोड़ योगदानों पर प्रकाश डाला जाता है। 14 दिसंबर, 1991 को हुई अपनी शुरूआत से ही यह अवार्ड भारत सरकार के गणमान्य पदाधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं। इनमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे ऊर्जा संरक्षण के आदर्श प्रयासों को सम्मानित किया जाता है। यह पहल देशभर के उद्योगों और प्रतिष्ठानों को ऊर्जा बचाने वाले उपाय अपनाने और उनका समर्थन करने की प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण रही है। इस अवसर पर बात करते हुए, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लि. के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ प्रोमीत घोष ने कहा, ''ऐसा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करना, वह भी भारत की राष्ट्रपति से, एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह ऊर्जा बचाने वाले नवाचारों की पहल करने के लिये क्रॉम्पटन के समर्पण को दर्शाता है। यह सम्मान ऐसे उपकरण बनाने के लिये हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देता है, जो प्रदर्शन से समझौता किये बिना पर्यावरण को बचाने को महत्व दें। क्रॉम्पटन में हमारा मानना है कि नवाचार और ऊर्जा बचाना साथ-साथ हो सकता है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखण्ड में रेत, शराब और जमीन की अवैध बिक्री से जुड़ी जांच में धनशोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्ष 2021-22 के बीच 14 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय मिली है। अभियोजन शिकायत 16 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी। ईडी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने 23 दिसंबर को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झारखण्ड पुलिस द्वारा जोगेंद्र तिवारी और अन्य के खिलाफ रेत और शराब की अवैध बिक्री के अलावा जमीन की फर्जी बिक्री, खरीद समेत कई आपराधिक गतिविधियों से संबंधित 19 एफआईआर से जुड़ा है। ईडी ने कहा कि जोगेंद्र तिवारी रेत और शराब के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर थे। इन सभी संस्थाओं को जोगेंद्र तिवारी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। आरोप लगाया गया कि इन आपराधिक गतिविधियों से अब तक लगभग 14 करोड़ रुपये की अपराध आय हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 32 क्षेत्रों की तलाशी ली थी, जिसके बाद अक्तूबर में ईडी ने जोगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।

बूट्स इंडिया और स्वीडिश कंपनी यूआरबीएस ने लॉन्च की कूलिंग एस-ए-सर्विस

लखनऊ। देश की प्रमुख नेट-जीरो कंस्ट्रक्शन-टेक कंपनी बूट्स इंडिया ने स्थाई बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अत्याधुनिक 'कूलिंग एस-ए-सर्विस% सॉल्यूशन देने के लिए स्टॉकहोम आधारित स्वीडिश कंपनी यूआरबीएस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह सा?झेदारी भारतीय घरों, कार्यालयों, होटलों, स्कूलों, अस्पतालों, डेटा केंद्रों, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों को कम ऊर्जा लागत में ठंडा रखने और गर्म रखने के प्रयासों में अहम साबित होगी,क्योंकि इसे नए निर्माणों और पहले से मौजूद संरचनाओं में कम लागत पर लागू किया जा सकेगा। साथ ही इससे ऊर्जा लागत में 50 फीसदी तक कमी, कार्बन उत्सर्जन 85 प्रतिशत तक कमी और घर के अंदर धूल वाली हवा को समाप्त करने जैसे लक्ष्य हासिल किया जा सकेंगे। इससे दुनिया के सर्वोत्तम

BOOTES
A NET ZERO COMPANY

मानकों के अनुसार घर में उच्च गुणवत्ता की वायु प्रवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। बूट्स इंडिया और स्वीडिश कंपनी यूआरबीएस ऐसी तकनीक को आगे लाए हैं जो मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता के उन्नत नॉर्डिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें बेहतर ऊर्जा क्षमता के लिए जानी जाने वाली जल-आधारित तकनीक हाइड्रोनिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक वायु-आधारित सिस्टम से 400 फीसदी बेहतर प्रदर्शन करती है और प्राकृतिक व लगातार ठंडा /गर्म प्रभाव प्रदान करती है। इस सिस्टम को पहले से मौजूद इमारतों में दोबारा लगाया जा सकता है, जिसका मतलब है कि ये सिस्टम आम तौर पर इमारत के बुनियादी ढांचे में या तो फर्श या छत पैनलों के भीतर फिट हो जाते हैं और संपूर्ण आंतरिक वायु गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और पारंपरिक एयर कंडीशनिंग / हीटिंग इकाइयों की आवश्यकता को कम करते हैं। ऐसा लचीलापन ऊर्जा कुशल जियोथर्मल टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने की जटिलता और लागत को काफी कम कर देता है। आवासीय और वाणिज्यिक उपयोगकर्ता प्राथमिकता से हाइड्रोनिक कूलिंग एचवीएसी सिस्टम को अपना रहे हैं क्योंकि ये पारंपरिक कूलिंग और हीटिंग सिस्टम की तुलना में उपयोगकर्ताओं को कई आर्थिक, पर्यावरणीय और परिचालन लाभ प्रदान करते हैं।

टॉपरैंकर्स के सुपरग्रैड्स ने फिर से लहराया परचम

लखनऊ। भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक, सुपरग्रैड्स टॉपरैंकर्स, जो छात्रों को मैनेजमेंट और केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेशों

जैसे कि आईपीएमएट, सीयूईटी, कैट और अन्य की तैयारी करने में मदद करता है, को यह घोषणा करते हुए गर्व है की उनके 10+ छात्रों ने 99% प्राप्त किया है, 30+ छात्रों ने 98त्न प्राप्त किया है जबकि 55+ छात्रों ने 95%, हाल ही में हुए कैट 2023 परीक्षा में प्राप्त किये है। संस्थान सालो से निरंतर परिणाम देता आ रहा है जैसे ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 7 के साथ आईपीएमएट इंदौर 2023 में, सीयूईटी 2023 में 650+ छात्रों ने 100 प्रतिशत प्राप्त किये और अन्य। छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धि पर अपनी खुशी साझा करते हुए, सुपरग्रैड्स बाय टॉपरैंकर्स के कैट विभाग के शैक्षिक प्रमुख, भूषण बापट ने कहा, कैट 2023 में हमारे छात्रों की अभूतपूर्व सफलता टॉपरैंकर्स के लिए एक और उपलब्धि है। मैं अपने छात्रों और अत्यधिक कुशल टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने पूरी परीक्षा यात्रा में एक साथ काम किया और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। हम इस तरह के मुकाम हासिल करना जारी रखेंगे और छात्रों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। सुपरग्रैड्स बाय टॉपरैंकर्स के छात्र, राहुल चोरारिया, 99.85 प्रतिशत, कैट 2023, ने कहा मैं सुपरग्रैड्स बाय टॉपरैंकर्स के अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनका अत्यधिक आभारी हूं, उनके संसाधनों और परामर्श ने मेरी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर, भूषण बापट सर ने मेरी तैयारी की रणनीति और समय प्रबंधन को बनाने में मेरी मदद की। इस सफलता में मेरे परिवार और दोस्तों ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की है।

सौंदर्य प्रतियोगिता में छाया लखनऊ का जलवा

लखनऊ। रंग बिरंगी रोशनी और संगीत की धुनों पर लहराते कदमों की ताल पर गृहणियों का हौसला हर किसी को चौंका रहा था। क्योंकि कल तक परिवार और सामाजिक दायित्वों को बुलंदी पर ले जाने वाली महिलाएं आज रैंप पर अपना जलवा बिखेर रही थीं। उनके हौसले और जुनून ने आज फिर यह साबित कर दिया कि लगन और परिश्रम के बल पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। मौका था सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज़ उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ़ वर्चु सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले का । मिसेज़ उत्तर प्रदेश द्वारा हॉलीडे इन होटल में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से 350 महिलाओं ने ऑडिशन राउंड में भाग लिया, जिसमें से 18 महिलाएं सेमीफाइनल राउंड के लिए चुनी गई।और ग्रैंड फिनाले में 14 प्रतिभागियों को स्थान मिला। समारोह की मुख्य अतिथि आईएएस अधिकारी ऋतु सुहास थी। विशिष्ट अतिथि नोयोनिता लोध, पूर्व मिस इंडिया 2014 और गौरव प्रकाश थे।

प्रतियोगिता में लखनऊ की प्रीती सौरभ मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ़

वर्चु सीजन 3 की विजेता चुनी गई, लखनऊ की दीप्ती जोशी फर्स्ट रनर अप बनी और लखनऊ की ही सुप्रिया वर्मा सेकंड रनरअप चुनी गई। इन तीनो विजयी प्रतिभागियों को मिसेज़ इंडिया 2024 में भाग लेने का मौका मिलेगा।विजेता को 51000 रुपये का नकद पुरस्कार भी दिया गया। प्रतियोगियों को जज करने के लिए शिखा सेठ, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर अदिति जग्गी रस्तोगी और यावर अली शाह मौजूद थे।

मिसेज उत्तर प्रदेश की निदेशक प्रीति यादव ने बताया कि हमारी संस्था ने बीते कई वर्षों में हजारों महिलाओं का रैंप पर आने का सपना साकार किया है मेरा मानना है कि महिलाएं चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में है वह जो लक्ष्य तय करती हैं उसे अपनी लगन और परिश्रम के बल पर हासिल कर लेती हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमन वर्मा ने किया और उन्होंने सभी प्रतियोगियों का उत्साहवर्धनभी किया।

इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

यूपी में मेंथा के किसानों को डब्ल्यूआरएमएस की फसल सलाह सेवा से मिले सकारात्मक परिणाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले में, अच्छा लाभ देने वाली मेंथा की खेती करने में किसानो की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेंथा की खेती करने में किसानों को कड़ी मेहनत के बावजूद पोषक तत्वों की कमी, खर-पतवार, अनियमित बारिश और कीटों और रोग जैसी कई समस्याएं बनी रहती थीं। किसानों को इस फसल की सुरक्षा और अधिक उत्पादन के लिए लगातार कई उपाय भी करने पड़ते थे। भारत में स्मार्ट और सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर, वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, ((डब्ल्यूआरएमएस) ने मेंथा किसानों को तकनीकी मदद और अत्याधुनिक सपोर्ट सिस्टम प्रदान किया है। इससे किसानों को मेंथा की खेती में आने वाली चुनौतियों से उबरने में मदद मिली जिससे उनकी खेती में काफी सुधार हुआ और उन्हें ज़्यादा लाभ मिलने लगा। वे अब पहले से भी बेहतर तरीके से खेती कर रहे हैं और पहले से जयदा उत्पादन प्राप्त कर रहे है।

डब्ल्यूआरएमएस द्वारा ली गई इस डिजिटल पहल से मेंथा किसानों को काफी मदद मिली है। जल संसाधनों को बचाते हुए मेंथा की खेती में आने वाला खर्च 20 प्रतिशत तक घटा है, वहीं पानी की खपत भी 18 प्रतिशत कम हुई है। खेती में किए गए कई बदलावों से किसानों को बेहतर परिणाम मिले हैं और इस ज़िले के किसानों को मेंथा की खेती में अब अच्छा खासा आर्थिक लाभ हो रहा है।

सबसे कम उम्र के प्रतिभावान उदय पांधी ने जीती पोको एमटीवी हसल 03 रिप्रेजेंट ट्रॉफी

नई दिल्ली। भारत का अभूतपूर्व रैप रियलिटी टेलीविजन शो पोको एमटीवी हसल 03 रिप्रेजेंट एक

रोमांचक फ़िनाले के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली के उदय पांधी को निर्विवाद विजेता घोषित किया गया! 10 हफ़्ते चले ज़बरदस्त मुक़ाबलों में बेजोड़ रैप कला के माहिर, सीज़न के सबसे कम उम्र के प्रतिभा के धनी उदय पांधी को अगली देसी हिप-हॉप सनसनी का ताज पहनाया गया!

झाँसी के बैसिक को उपविजेता घोषित किया गया, जबकि अमरावती के 100आरबीएच ने ओजी हसलर ट्रॉफी जीती।

पोको एमटीवी हसल 03 रिप्रेजेंट का ज़बरदस्त ग्रैंड फिनाले सचमुच एक लड़ाई का मैदान था, जिसमें 6 टॉप फायनलिस्टों मृणाल शंकर, केडिन शर्मा, विजय दादा, बैसिक, 100RBH और उदय पांधी ने शानदार प्रदर्शन किया और चुनौतियों की इस रोलरकोस्टर राइड के ज़रिये अपनी योग्यता को साबित किया।

बेहद उत्साहित उदय पांधी ने कहा, पोको एमटीवी हसल 03 रिप्रेजेंट एक मंच ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने, कड़ी मेहनत और प्रयोग का एक अविश्वसनीय अनुभव रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अनुभव का हिस्सा बनने का मौक़ा मिला, जिसने मुझे अपनी सीमाओं को पार करने, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और एक कलाकार के तौर पर विकसित होने का अवसर दिया।

गुजरात साइंस सिटी ने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए गणित कार्निवल की मेजबानी की

गुजरात साइंस सिटी ने प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन और गणित के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की याद में एक जीवंत गणित कार्निवल के साथ राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर को चिह्नित किया। पूरे भारत में 22 दिसंबर को मनाए गए वार्षिक उत्सव में 25 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों ने भाग लिया। मैथ्स कार्निवल में छात्रों द्वारा विविध पहेलियों और मॉडलों के निर्माण और प्रदर्शनी सहित कई गतिविधियाँ शामिल थीं। गणित प्रश्नोत्तरी और गणितज्ञ पात्रों के रूप में भूमिका निभाने जैसे आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे एक इंटरैक्टिव और शैक्षिक माहौल को बढ़ावा मिला। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों ने नवीन गणित शिक्षण विधियों पर प्रस्तुतियाँ दीं। कार्निवल में हॉल ऑफ फेम में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात साइंस सिटी के कार्यकारी निदेशक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने छात्रों को उनके उत्साह और रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित किया और सराहना की।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप और गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित, साइंस सिटी आम जनता को विज्ञान से जोड़ने के लिए समर्पित है। 107 हेक्टेयर से अधिक के विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए, साइंस सिटी का लक्ष्य मनोरंजन और अनुभवात्मक ज्ञान के माध्यम से युवा दिमाग में वैज्ञानिक स्वभाव पैदा करना है।

टाटा मोटर्स को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से 1350 बस चेसिस का ऑर्डर मिला

मुंबई। टाटा मोटर्स, कमर्शियल वाहन बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी, ने आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) से टाटा एलपीओ 1618 डीजल बस चेसिस की 1350 यूनिट्स की आपूर्ति करने का प्रतिष्ठित ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। अंतर्शहरी एवं लंबी दूरी की यात्रा के लिये विकसित, टाटा एलपीओ 1618 उत्सर्जन के बीएस6 प्रोटोकॉल्स के मुताबिक है। यह शानदार प्रदर्शन करती है और यात्रियों को जबर्दस्त आराम देती है तथा श्रेणी में सबसे बेहतरीन टोटाल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप (टीसीओ) की पेशकश करती है। टाटा मोटर्स को यह ऑर्डर सरकार की निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हुई एक प्रतिस्पर्द्धी ई-बिडिंग प्रोसेस के बाद मिला है। बस चेसिस की आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। ऑर्डर प्राप्त करते हुए, रोहित श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट एण्ड बिजनेस हेड-सीवी पैसेंजर्स, टाटा मोटर्स ने कहा, ''सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा प्रभावी एवं एफिशिएंट बनाना हमारा मिशन है। हम उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और यूपीएसआरटीसी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक बार फिर आधुनिक बस चेसिस की आपूर्ति करने का मौका दिया है। टाटा एलपीओ 1618 अपनी मजबूत बनावट, अच्छी गुणवत्ता की इंजीनियरिंग और कम मेंटेनेन्स के कारण एक प्रमाणित वर्क हॉर्स है। इसे ज्यादा अपटाइम और परिचालन के उचित कुल खर्च के साथ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता के लिये डिजाइन और इंजीनियर किया गया है। हम यूपीएसआरटीसी के मार्गदर्शन के मुताबिक सप्लाई शुरू करने के लिए तत्पर हैं।'' टाटा मोटर्स भारत के विभिन्न शहरों एवं राज्यों में आधुनिक बसें और सार्वजनिक परिवहन समाधान प्रदान करने में आगे रही है। अब तक राज्य एवं सार्वजनिक परिवहन के कई उपक्रमों को 58,000 से ज्यादा बसों की आपूर्ति की गई है। भारत की सड़कों पर कई हजार बसें लगातार सफलतापूर्वक चल रही हैं। वे शहरों और कस्बों को दूर-दराज के इलाकों से जोड़ती हैं और यात्रियों के लिये आरामदायक यात्रा को संभव बना रही हैं।

स्विगी की हाउ इंडिया स्विगीड 2023 रिपोर्ट में आया सामने कि लखनऊ में बिरयानी और स्थानीय व्यंजनों के प्रति प्रेम बरकरार

लखनऊ। भारत के लोकप्रिय ऑन-डिमांड कन्विनिएंस प्लेटफॉर्म, स्विगी की वार्षिक रिपोर्ट हाउ इंडिया स्विगीड 2023 में खाने-पीने के मामले में लखनऊवासियों की पसंद उजागर हुई। स्विगी इस शहर में फूड एवं क्रिक कॉमर्स डिलीवरी के लिए लोगों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। 2023 में स्विगी पर सबसे ज्यादा बिल लखनऊ में खाने-पीने के एक सबसे शौकीन व्यक्ति ने 21,426 रु. का दिया। स्विगी की इस रिपोर्ट में सामने आया कि लखनऊ में बिरयानी और स्थानीय व्यंजन, जैसे विश्वप्रसिद्ध टुंडे मटन कबाब (गलूटी), मटन बिरयानी और चिकन शवर्मा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद हैं। इन ऑर्डर के ट्रेंड्स के बारे में सिद्धार्थ भाकू, वीपी, नेशनल बिजनेस हेड, स्विगी ने कहा लखनऊ ने फिर साबित कर दिया कि यह खाने-पीने के शौकीनों का शहर है। इस साल मशहूर बिरयानी और कबाब के अलावा, इस शहर में छोले भटूरे भी बहुत पसंद किए गए। स्विगी को शहर के भोजनप्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय कन्विनिएंस प्लेटफॉर्म बनने पर गर्व है। इससके खाने-पीने का शानदार अनुभव प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। सुविधा और सुकून पर केंद्रित रहते हुए हम लखनऊवासियों को अपनी पसंद का खाना मंगाने और उनकी क्रिक कॉमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

2023 में लखनऊवासियों ने स्विगी पर क्या ऑर्डर किया लखनऊ में निम्नलिखित 5 व्यंजनों के सबसे ज्यादा ऑर्डर के साथ मिश्रित परिणाम मिलेरू चिकन बिरयानी, मसाला डोसा, मटन बिरयानी, मार्गेरिटा पिज्जा, चिकन रोल समोसा और आलू के व्यंजनों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया इस साल स्नैक के ऑर्डर में लखनऊ वासियों ने छोले भटूरे, खस्ता (आलू और मटर के साथ), वेज आलू पैटी, समोसा और प्लेन ढोकला सबसे ज्यादा पसंद किए। मिठाईयों में इस शहर में भारतीय मिठाईयाँ सबसे ज्यादा पसंद की गईं। रसगुल्ला पहले स्थान पर रहा, जिसके बाद चोको लावा केक का स्थान रहा।

सोमानी सेरेमिक्स ने लॉन्च किया 'सोमानी मैक्स' कवरस्टोन 15



लखनऊ। सेरेमिक टाइल्स एवं इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स में ग्लोबल लीडर सोमानी सेरेमिक्स लिमिटेड ने अपने नए ब्राण्ड 'सोमानी मैक्स' के तहत लक्ज़री स्लैब्स के 15एमएम कलेक्शन, कवरस्टोन 15 का लॉन्च किया। कवरस्टोन 15 सोमानी की एफसीएस (फ्रिटेज कॉम्पैक्ट स्लैब) टेक्नोलॉजी से पावर्ड है, जो स्लैब को उंचे तापमान पर विशेष प्रक्रिया के माध्यम से बनाकर शानदार सरफेस प्रॉपर्टीज़ प्रदान करती है। जिससे सरफेस घनी, मजबूत, नोन-पोरस और टिकाऊ हो जाती हैं। साथ ही यह टेक्नोलॉजी सरफेस को आग, कैमिकल, धब्बे एवं खरोच रोधी बनाती है। इस अवसर पर श्री अभिषेक सोमानी, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, सोमानी सेरेमिक्स लिमिटेड ने कहा, ''हम एफसीएस टेकनोलॉजी से युक्त आधुनिक कवरस्टोन 15 रेंज लेकर आए हैं, भारत में पहली बार इस रेंज को इतने आकर्षक साइज़ एवं अभूतपूर्व फिनिश में पेश किया गया है। यह रेंज ग्राउट लाइन्स को कम करके इन्हें किचन टॉप, काउंटरटॉप, सीढ़ियों, फर्श, वॉल क्लैडिंग, फर्नीचर एलीमेन्ट्स, विंडो एवं लिफ्ट की छत के लिए अनुकूल बनाती है। पॉलिश्ड मार्बल हो या वुडन सरफेस या प्राकृतिक पत्थर, 'सोमानी मैक्स' असीमित रचनात्मकता के साथ अपने उपभोक्ताओं को हर दायरे से आगे जाकर सोचने के लिए प्रेरित करता है।''

आशीर्वाद ने आटे के लिए ग्राहकों को दिया 'क्वॉलिटी सर्टिफिकेट'

नई दिल्ली। भारत के नंबर 1 आटा ब्राण्ड आशीर्वाद ने एक महत्वपूर्ण और अनूठा कदम उठाते हुए अपना एक नया कैम्पेन 'लिख के ले लो' लॉन्च किया है। इसका मकसद ग्राहकों को आटे के जरूरी गुणवत्ता मानकों की जानकारी से लैस करना है। ऐसी उम्मीद की जा रही है इससे उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

आज के दौर में ग्राहक भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर काफी सजग हो गए हैं और अक्सर उनकी गुणवत्ता जांचने के लिए उसकी सामग्रियों, स्रोत जैसी जानकारियां पाने की कोशिश करते हैं। आटा जैसी खाद्य श्रेणी, जहां ज्यादातर लोग अभी भी अनब्राण्डेड प्रारूपों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में आशीर्वाद पहली बार इस क्षेत्र में एक पहल लेकर आया है। इस पहल के माध्यम से आशीर्वाद ग्राहकों में आत्मविश्वास लाना चाहता और उनके मन से हर डर को दूर करना चाहता है। जैसे इस्तेमाल किए जाने वाले गेहूं की गुणवत्ता संबंधी संदेह, कैसे उसे साफ किया गया होगा, उसे पीसा गया होगा या फिर क्या उसमें मैदा मिलाया गया है।

ब्राण्डेड आटा सेगमेंट में एक जिम्मेदार लीडर के तौर पर, आशीर्वाद पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ावा देने के लिए पर्सनलाइज्ड 'क्वॉलिटी सर्टिफिकेट' लेकर आया है।

डाबर हाजमोला ने जरूरतमंद बच्चों के बीच मुस्कान फैलाने के लिए अचाई का चटकारा अभियान शुरू किया

मेरठ। पाचन सहायता में अग्रणी नाम डाबर हाजमोला ने जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से अपनी दिल छू लेने वाली पहल अचाई का चटकारा शुरू की है। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता में, डाबर हाजमोला जरूरतमंद लोगों को अपना समर्थन देकर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करता है। यह अभियान बच्चों को खुशी के पल और उज्जवल भविष्य के अवसर प्रदान करके उनका

उत्साह बढ़ाने पर केंद्रित है। डाबर हाजमोला अच्छाई की शक्ति में विश्वास करता है और इस प्रयास के माध्यम से सकारात्मकता का प्रभाव पैदा करना चाहता है। हाजमोला एक ऐसा ब्रांड है जो अपने चटपटे स्वाद से स्वास्थ्य और खुशी का संकेत देता है. अचाई का चटकारा% अभियान को शुरू करते हुए हमें बेहद खुशी है, हम उन समुदायों की भलाई में योगदान देना चाहते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। हम जरूरतमंद बच्चों के जीवन में मुस्कुराहट, हँसी और आशा लाने की आकांक्षा रखते हैं, अजय सिंह परिहार, मार्केटिंग हेड - ओटीसी हेल्थकेयर, डाबर इंडिया लिमिटेड, ने कहा।

एडीएम फाइनेंस और सीओ कैंट ने किया अवधनामा क्रिकेट लीग का उद्घाटन

अवधनामा संवाददाता

गोरखपुर। अवधनामा क्रिकेट लीग 2023 का आगाज मंगलवार को एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह और आईपीएस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैंट मनुष पारिक ने बैटिंग और बॉलिंग करके किया। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय, कोषाध्यक्ष सतीश पांडेय सहायक सूचना निदेशक प्रशांत श्रीवास्तव, पार्षद हाजी जियाउल इस्लाम मायाबाजार वार्ड के पार्षद समद गुफरान, आदर्श ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर हाजी खुर्शीद खान, वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र त्रिपाठी, रशाद लारी, अजीत सिंह, सुशील कुमार, फैयाज अहमद आदि लोग उपस्थित रहे।

इस क्रिकेट लीग में 14 टीम में भाग ले रही है जिसमें से आज तीन टीमो ने मैच खेला। उद्घाटन मैच में बीबीएस और आरवन के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। आरवन टीम ने 9 रन से मैच जीत लिया। शादाब ने सर्वाधिक 32 रन बनाए। दूसरा मैच फर्स्ट चॉइस और वर्सेटाइल के बीच हुआ। जिसमें फर्स्ट चॉइस ने मैच जीता तीसरा मैच बुद्धन जी और स्टार इलेवन के बीच हुआ। बुद्धन जी ने 8 रन से मैच जीत लिया। आयोजक अहमर रिजवी एडवोकेट ने बताया कि एक नई तरह की क्रिकेट लीग का ये चौथा सीजन है, जिसने खेल प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है। आज इस शानदार शुरुआत के साथ, खिलाड़ी और दर्शकों के बीच एक नया उत्साह और उत्सव छाया है। इस लीग में टीमें अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं, जो स्पोर्ट्स प्रेमियों को एक नया रोमांच देने के साथ ही आउट डोर गेम के लिए प्रेरित करेगी। सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यहां एक रोमांचक और उत्साह है जब वे अपनी पसंदीदा टीम को समर्थन और प्रेरणा देने के लिए एकत्र हो रहे हैं।

गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन ने किया कम्बल का वितरण

गोरखपुर अवधनामा संवाददाता। गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन संस्था द्वारा आयोजित कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत आशू, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता उपस्थित रहे। वितरण के दौरान विनय अग्रवाल, मैरेज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस0ए0 रहमान, क्षेत्राधिकारी जगत राम कनौजिया, कोतवाली प्रभारी विमलेश सिंह ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को माल्यार्पण करके किया गया। एसोसिएशन के संरक्षक अशोक गुप्ता ने कहा कि समाज के हित के लिए कार्य को करना ही प्रमुख सेवा है ऐसे कार्य सभी को करना चाहिए जिससे गरीब और असहाय लोगों को मदद मिल सके। कंबल वितरण कार्यक्रम में आसपास क्षेत्र के गरीब एवं असहाय लोगों को 1300 कंबल वितरण किया गया। सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष पवन जालान, महामंत्री विशाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष विष्णु जायसवाल, संगठन मंत्री आशीष मद्धेशिया, हनी अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरि कश्यप, दिनेश गुप्ता, शंभू जायसवाल, संजय जालान, सदस्य पवन शर्मा, मनीष अग्रहरि, काजी इनाम, इजहार खान, फरहान, ओवैस, राजू खान, संजय गर्ग, शेखू, सुमित गुप्ता, राशिद खान, विकास गुप्ता, अमन अग्रवाल, नारायण जालान, मनोज राकेश, चंदन गुप्ता, तेज प्रताप, सुशांत गुप्ता, रमेश गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

सीडीओ ने किया आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण दिए आवश्यक निर्देश

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय ने आज विकासखंड रामपुर कारखाना के ग्राम पंचायत गुद्दीजोर एवं ग्राम पंचायत मुजहना लाला में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवनों का निरीक्षण किया और शासन द्वारा निर्धारित 18 पैरामीटरों पर आंगनबाड़ी भवनों को संतृप्त करने के लिए संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव को आवश्यक निर्देश दिया।

मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनने वाले हॉट कुक मील की स्थिति का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि जनपद के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेसिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करके हॉट कुक मील बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था में गेहूं और चावल कोटे से प्राप्त होंगे। साथ ही प्रति बच्चे ?3.75 पैसे कन्वर्जन कास्ट के रूप में ग्राम प्रधान एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के संयुक्त खाते में भेजा जा चुका है, जिससे भोजन के लिए दाल तेल व अन्य सामग्रियां क्रय की जा रही हैं। इस व्यवस्था में बर्तन क्रय करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की निर्धारित की गई है। ग्राम गुद्दीजोर के प्रधान द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बर्तन उपलब्ध करा दिए गए थे, जिसकी मुख्य विकास अधिकारी ने सराहना की। साथ ही मुजहनालाला के प्रधान को दो दिनों में उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों पर भोजन बनाने वाले रसोईया के खाते में भी भोजन बनाने के पारिश्रमिक के रूप में प्रति बच्चे 50 पैसे की दर से धनराशि भेजने का प्राविधान है। ग्राम पंचायत गुद्दीजोर के प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र जो अभी तक अर्द्धनिर्मित था, के बारे में भी सीडीओ ने जानकारी ली। उन्होंने भवन का निर्माण एक माह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। सीडीओ ने गुद्दीजोर और मुजहनालाला के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर बच्चों के निपुण लक्ष्य, टाइम टेबल, अध्यापकों एवं छात्रों की उपस्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दैरान जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकांत राय, विवेक मिश्र, जिला कार्यक्रम कार्यालय के डीसी सूर्य प्रकाश मणि आदि उपस्थित रहे।

पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा अकटहिया अमृत सरोवर

अवधनामा संवाददाता

गोरखपुर। सहजनवां ब्लाक के ग्राम पंचायत गंगटही टोला मदरिया में स्थित अकटहिया पोखरे को अमृत सरोवर रूप में विकसित किया जा रहा है। जो क्षेत्र के लोगो के लिए एक मिशाल साबित होने जा रहा है। वर्तमान समय में कार्य अंतिम चरण में चल रहा है।

देखा जाय तो दक्षिणांचल का ही नही पूरे विकास खंड में यह अमृत सरोवर मिशाल होगा। करीब ढाई एकड़ में फैले पोखरे के चारो तरफ से चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है। पोखरे के चारो तरफ करीब 295 मीटर का इंटर लाकिंग का कार्य कराया गया है। पोखरे के सिल्ट में 65 मीटर तक की सीढ़ी का निर्माण हो चुका है। पोखरे के दो तरफ से जल संरक्षण के लिए पुलिया का निर्माण कराया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। रंगाई पुताई के बाद अमृत सरोवर एक आकर्षण का केंद्र होगा। जो जल्द ही क्षेत्र के लोग इसका लुफ्त उठायेगे।

वही प्रधान पति विजय कुमार पांडेय ने कहा की अमृत सरोवर पोखरे को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का जिम्मा उठाया है। जो जल्द क्षेत्र के लोगो को सौगात मिलने जा रही है। 27 लाख लागत में विकास कार्य चल रहा है।

धान क्रय केंद्रों पर कोई भी बिचौलिया न आने पाए: डीएम

क्रय केंद्र के दो प्रभारियों पर गिरी गाज, एक निलंबित तो दूसरे को नोटिस

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने मंगलवार को साधन सहकारी समिति धर्मपुर बुजुर्ग व कसया मंडी स्थित एफपीओ बनवारी टोला धान क्रय केंद्र, विपणन शाखा कसया राजकीय धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान लक्ष्य के सापेक्ष धान की खरीदारी न होने पर केंद्र प्रभारी को नोटिस तथा बिना सूचना बताए केंद्र से गायब दूसरे प्रभारी को निलंबन का निर्देश दिया।

निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने किसानों के रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष अभी तक धान क्रय की स्थिति, बोरो की उपलब्धता, वजन के मशीन, डस्ट पावडर मशीन, बिजली की व्यवस्था, खरीदे हुए धान को रखने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था की जानकारी लिया। जिलाधिकारी द्वारा धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कसया मंडी स्थित एफपीओ प्रेमवलिया एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड व उपजाऊ भूमि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के केंद्र प्रभारी के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम खरीद करने पर नोटिस व कड़ी चेतावनी जारी करने तथा साधन सहकारी समिति धर्मपुर बुजुर्ग वि0ख0 पडरौना के केंद्र प्रभारी के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण निलंबन करने के निर्देश डिप्टी आर.एम.ओ. और ए.आर. कॉपरेटिव को दिए गए। धान क्रय केंद्रों पर उपस्थित किसानों से संवाद पर क्रय केंद्रों पर आने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली। जिलाधिकारी ने क्रय केंद्र पर मौजूद मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी लेते हुए डिप्टी आरएमओ को निर्देशित किया की धान क्रय केंद्रों पर कोई भी बिचौलिया न आने पाए। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने, धान क्रय केंद्रों पर बोरो की उपलब्धता तथा मशीनों को उचित स्थानों पर रखने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में डिप्टी आर.एम.ओ (खाद्य एवं विपणन अधिकारी) विनय प्रताप सिंह से जनपद में कुल धान क्रय केंद्रों की संख्या, वर्तमान में धान क्रय हेतु किसानों के पंजीकरण की संख्या, पूर्व एवं वर्तमान वर्ष धान क्रय का लक्ष्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य इत्यादि की जानकारी ली। खाद्य एवं विपणन अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी जनपद में 84 धान क्रय केंद्र संचालित है जिसपर तहसील स्तर पर सभी उपजिलाधिकारी को नोडल अधिकारी एवं क्रय केंद्रों पर लेखपालों को नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, 13000 किसानों ने धान क्रय हेतु पंजीकरण कराया है जिसमे से 1183 किसान कसया क्षेत्र के है तथा फरवरी 2024 तक 01 लाख 10 हजार एम.टी. धान क्रय करने का लक्ष्य है।

केंद्र पर बेसिक सुविधाए सुनिश्चित हो

डीएम ने खाद्य एवं विपणन अधिकारी को जनपद के सभी धान क्रय केंद्र पर सभी बेसिक सुविधायें सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया तथा धान क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही धान खरीद सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विदित हो कि सरकार द्वारा निर्धारित धान खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 प्रति कुंतल है सभी किसानों को धान का सही समर्थन मूल्य प्राप्त हो। **धान क्रय शासन की प्राथमिकता है:-** जिलाधिकारी द्वारा केन्द्र प्रभारी को धान क्रय में पूरी तत्परता बरते जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि धान क्रय शासन की प्राथमिकता का विषय है। अतः सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आए हुए किसानों के साथ मित्रवत एवं सम्मानजनक व्यवहार करें। साथ ही किसी भी प्रकार की उन्हे कोई असुविधा न हो, इसका विशेष रुप से ध्यान रखे। किसानों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने हेतु किसानों को जागरुक करने के भी निर्देश दिए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के लिए डीएम ने जारी किया रोस्टर

कुशीनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस कोविड-19 प्रोटोकाल के साथ तहसील दिवस प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को प्रात 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक का रोस्टर माह जनवरी 2024 से जून 2024 तक का रोस्टर तैयार कर निर्गत किया गया है, जिसमे जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी द्वारा आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता की जायेगी तथा शेष तहसीलों में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस व सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जायेगा। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 06- जनवरी 2024 को पड़रौना में, 20 जनवरी को हाटा में, 03 फरवरी को कसया में, 17 फरवरी को कप्तानगंज में, 02 मार्च को तमकुहीराज में, 16 मार्च को खडडा में, 06 अप्रैल को पड़रौना में, 20 अप्रैल को हाटा में, 04 मई को कसया में, 18 मई को कप्तानगंज में, 01 जून को तमकुहीराज में तथा 15 जून को खडडा में आयोजित समपर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की जाएगी।

बिजली से बचाव के लिए दामिनी ऐप्प का करें प्रयोग

अमेठी अवधनामा संवाददाता। मनीषी महिला महाविद्यालय गौरीगंज मे चल रहे आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रतिभागियों को घटित होने वाली प्रमुख आपदाओं सर्पदंश डूबकर होने वाली मृत्यु की घटनाओ सड़क दुर्घटना अग्निकांड आकाशीय बिजली अर्थात् वज्रपात के बारे मे मास्टर ट्रेनर जनार्दन मिश्र एवं आपदा विशेषज्ञ प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा विस्तारपूर्वक बताया गया कि वर्षा के समय पेड़ के नीचे तथा किसी भी जल स्रोत के पास नहीं खड़े हो क्योंकि इन स्थानों पर आकाशीय बिजली अधिकांशतः गिरती है जिसके प्रभाव से मनुष्य या पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। आकाशीय बिजली के पूर्व चेतावनी एप दामिनी के प्रयोग के बारे मे बताया गया तथा प्रतिभागियों के मोबाइल मे डाउनलोड कराते हुए उसके प्रयोग की विधि भी बताई गई।इसके अतिरिक्त अपेक्षा की गई कि प्रतिभागी दामिनी एप का प्रचार प्रसार करने मे सहयोग प्रदान करेंगे। सत्र के दौरान सर्पदंश की घटना होने पर किये जाने वाले प्राथमिक प्रतिक्रिया एवम उपचार के बारे मे विडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई।

शिवमूर्ति अध्यक्ष और उपेंद्र निर्वाचित हुए सचिव

अमेठी अवधनामा संवाददाता। बार ऐसोसिएशन अमेठी के अध्यक्ष पद पर शिव मूर्ति तिवारी और सचिव पद पर उपेंद्र शुक्ल निर्वाचित हुए। बार एसोसिएशन अमेठी के चुनाव का मतदान मंगलवार को निर्धारित समय पर प्रारंभ हुआ उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदाताओं को लामबंद करने की आखिरी क्षण तक कोशिश करते देखे गए। मतदान बाद मतगणना प्रारंभ हुई उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित हुआ। जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्र को 15 वोट दिनेश प्रताप सिंह को 50 वोट और शिव मूर्ति तिवारी को 71 वोट हासिल हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी मो कुदूश खा को 84वोट जितेन्द्र बहादुर सिंह 40 वोट त्रियुगी नारायण मिश्र को 81 वोट मिले। सचिव पद के प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ल को 81वोट छत्रशाल सिंह को 6 वोट बृजेश कुमार पाण्डेय को 45 वोट सुरेश चन्द्र वर्मा को 8 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनूप श्रीवास्तव को 91 वोट प्रेम नारायण दूबे को 41 वोट मिले। इस प्रकार अध्यक्ष पद पर शिवमूर्ति तिवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मो कुदूष खा सचिव पद पर उपेंद्र शुक्ल कोषाध्यक्ष पद पर अनूप श्रीवास्तव को चुनाव अधिकारी ने बिजयी घोषित किए।

बैडमिन्टन प्रतियोगिता का चयन ट्रायल्स आज

अमेठी अवधनामा संवाददाता। जिला क्रीड़ा अधिकारी आनन्द बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्रीय खेल कार्यालय अयोध्या के अनुपालन में वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय सब-जूनियर बालक बालिका वर्ग बैडमिन्टन प्रतियोगिता के आयोजन हेतु जिला एवं मण्डल स्तरीय चयन ट्रायल्स निर्धारित किया गया है। इस क्रम में उन्होंने बताया कि उपरोक्त बैडमिन्टन प्रतियोगिता हेतु जिला स्तर ट्रायल्स अमेठी में 27 दिसम्बर 2023 एवं मण्डल स्तर ट्रायल्स अयोध्या में 28 दिसम्बर 2023 तथा जिला खेल कार्यालय पीलीभीत में 09 जनवरी 2024 से 11 जनवरी 2024 तक प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त बैडमिन्टन खेल प्रतियोगिता का जिला स्तर चयन ट्रायल्स 27 दिसम्बर 2023 को प्रातः 10 बजे राज गौरव पब्लिक स्कूल अमेठी में आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिभागी खिलाड़ियों को अपने साथ आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा तथा खिलाड़ियों की आयु 01 जनवरी 2011 या उसके बाद की होनी चाहिए।

झोपड़ी में आग लगने से दो मावेशी झुलसे

अवधनामा संवाददाता

अहिरौली बाजार, कुशीनगर। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के भटगांव में बीते सोमवार की रात झोपड़ी में आग लगने से एक भैंस और उसका बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के भटगांवा गांव निवासी पुरुषोत्तम निषाद ने अपनी भैंस को घारी में उसके बच्चे सहित बांधा था तथा वही मच्छरों से बचाव के लिए धुआं किया था।

अचानक उसके झोपड़ी में आग पकड़ ली आग की लपटे देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया। लेकिन तब तक आग की चपेट में आने भैंस और उसके बच्चे जलकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल मवेशियों का इलाज परिजनों द्वारा कराया जा रहा है।

स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज को बनाएं अपने आहार का हिस्सा: रविंद्र कुशवाहा

अवधनामा संवाददाता

देवरिया। भटनी विकासखंड के ग्राम पंचायत खैराट एवं मोतीपुर तथा बनकटा विकासखंड के मठिया एवं अघाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के द्वारा गर्भवती महिलाओं के गोद भराई एवं 6 माह के बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ।

ग्राम पंचायत मठिया में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद रवींद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए एवं गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हम सभी को मोटे अनाज जिसे प्रधानमंत्री ने श्री अन्न नाम दिया है उसे अपने आहार में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को आधुनिक तरीके से खेती करने की जरूरत है तथा खेती में अधिक से अधिक जैविक खाद एवं प्राकृतिक रूप से बने कीटनाशकों का ही प्रयोग किया जाए। भाजपा नेता राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के 3 करोड़ से ऊपर गरीब परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया गया हैं। वही भटनी विकासखंड के ग्राम पंचायत मोतीपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक सभाकुंवर कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 34 लाख रेहड़ी- पटरी वालों को ऋण वितरण किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजकुमार शाही ने कहा कि गोरखपुर में एम्स एवं देवरिया में मेडिकल कॉलेज खोलकर सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है।कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मांधाता सिंह, डॉक्टर कमलेश मीणा, ब्लॉक प्रमुख बिंदा कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र पांडेय, कार्यक्रम संयोजक शशि रंजन तिवारी, संतोष पटेल, गुड्डू गोस्वामी, प्रेम शंकर गुप्ता, संजय सिंह सैथवार, पंकज शाही, संजीव सिंह, राघवेंद्र सिंह, ताराचंद जायसवाल, सर्वजीत यादव, सुरेश शर्मा जयप्रकाश तिवारी, टाइगर यादव सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।

वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम

गौरीगंज (अमेठी) अवधनामा संवाददाता। वीर बालदिवस पर मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर साहिबजादों की शहादत को नमन किया गया। डॉ आराधना राज उपनिदेशक नेहरू युवा केंद्र के निर्देशन में श्रीमती रमराजी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगिया कैलाश में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदय भान प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक आकाश ने अथितियो को बैच लगाकर स्वागत किया गया।वक्ताओ ने कहा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार बेटे शाहीबजादा जुझार सिंह साहिबजादा अजीत सिंह साहिबजादा फतेह सिंह साहिबजादा जोरावर सिंह ने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी।देश उनकी शहादत पर गर्व करते हुए आज उन्हें नमन कर रहा है। गुरुजी के दो बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह क्रमशः 18 और 14 साल की उम्र में युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।छोटे बेटों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया। दोनों ने इनकार कर दिया और सिख धर्म के प्रति अपने प्यार का इज़हार किया। इससे मुगल क्रोधित हो गये और उन्हें दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। उनके अदम्य साहस धार्मिक निष्ठा और देश प्रेम को सभी ने नमन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक आकाश विवेक सिंह प्रिया मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार विभिन्न विद्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

फुटबाल प्रतियोगिता: सिवान ने गोरखपुर को 2 गोल से हराया

अवधनामा ब्यूरो

कुशीनगर। पडरौना विकास खंड के मन्साछापर स्थित नेहरू इंटर कॉलेज के मैदान में शहीद बाबूराम की स्मृति में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में हुए बेहद रोमांचक मुकाबले में आज सिवान (बिहार) की महिला खिलाड़ियों ने गोरखपुर (यूपी) की महिला खिलाड़ियों को 2 गोल से हराया। विपक्षी गोल पोस्ट में दो गोल दागने वाली महिला खिलाड़ी लाडली कुमारी को पुरस्कृत देकर सम्मानित किया गया।

खिलाड़ियों से हाथ मिलकर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में महिला फुटबॉल होना बेहद गौरव की बात है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी बालिकाओं को हौसला मिलेगा और वे मंडल स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभा करेंगी। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि एमएलसी राम अवध यादव ने कहा कि हम सभी को ऐसे आयोजन जनपद के हर क्षेत्र में करानी चाहिए जिससे बालिकाओं को प्रोत्साहन मिले। आज दिन के 2 बजे से हुए फुटबॉल मैच में पहले हाफ टाइम तक गोरखपुर या सिवान की महिला खिलाड़ियों द्वारा एक दूसरे के गोल पोस्ट में एक भी गोल नहीं किया जा सका। लेकिन हाफ टाइम के बाद बेहद रोमांचक मुकाबले में सिवान के खिलाड़ियों द्वारा गोरखपुर की महिला खिलाड़ियों के गोल पोस्ट में दो गोल डाल कर प्रतियोगिता में गोरखपुर को पछाड़ते हुए प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश कर गई। सिवान की खिड़की लाडली कुमारी द्वारा यह दोनों गोल दागा गया। अतिथियों द्वारा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंत में कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल अंसारी ने सभी आगंतुको व खेल प्रेमियों का आभार प्रकट किया गया साथ ही कल बलिया और देवरिया के बीच आयोजित फुटबाल मैच में आने का आग्रह भी किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त रूप से संचालन पहलवान बजरंगी यादव व फिरोज अंसारी ने किया जबकि खेल का मुख्य निर्णायक मकदूम खान रहे।

शिक्षा दान का जुनून समय का करते हैं सदुपयोग

अवधनामा संवाददाता

निराश्रित विद्रोह की करते हैं सेवा

मनोज को बच्चों को पढ़ने के बाद जो समय मिलता है उसे शहर के पूर्व गांव स्थित वृद्ध आश्रम में देते हैं उनकी सेवा करते हैं हर रविवार को उनके भी जरूर जाते हैं अपना जन्मदिन निराश्रित वृद्धो के बीच मानते हैं।

देवरिया। बिहार के मधुबनी के रहने वाले 58 वर्षीय मनोज कुमार नगर पालिका परिषद देवरिया में के अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं शिक्षा दान उनका जुनून है। वह समय प्रबंधन में माहिर हैं। शहर में तमाम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि उनके पढ़ाया हुए कई बच्चे इंजीनियर व डॉक्टर बने हैं उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्ना तक की शिक्षा ग्रहण की पिता बिहार में प्रशासनिक अधिकारी थे पिता से प्रेरित होकर प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयागराज इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगे सफलता नहीं मिली तो प्रयागराज में बच्चों को बिना शुल्क पढ़ने का कार्य शुरू कर दिए इसी बीच 1994 में नगर पालिका परिषद देवरिया में क्लर्क की नौकरी के विज्ञापन प्रकाशित हुई थी उन्होंने आवेदन कर दिया वह चयनित हो गए फिर देवरिया में रहने लगे नगर पालिका परिषद की नौकरी के साथ ही समय प्रबंधन के फार्मूले को लागू करते हुए पड़ोस के दो बच्चों को निशुल्क बढ़ने लगे 2 घंटे सुबह एवं शाम को 2 घंटे बच्चों को पढ़ने लगे वह संख्या 23 बच्चों तक पहुंच गई कक्षा 8 तक सभी विषय एवं स्नातक तक के बच्चों को अंग्रेजी विषय का ज्ञान देने लगे समय प्रबंधन में माहिर नौकरी के साथ निशुल्क देते हैं ज्ञान मनोज के पढ़ाई हुए कई बच्चे बने इंजीनियर व डॉक्टर इसका नतीजा यह हुआ कि कई बच्चे इंजीनियर व डॉक्टर वह बिजनसमैन के अलावा शिक्षक के पद पर चयनित हुए किस और उत्साह बाद छात्रों की संख्या अब 34 तक हो गई थी मनोज कुमार बताते हैं कि पिता प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे उन्होंने हमेशा यही सीख दी की ज्ञान का उपयोग हमेशा करना चाहिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है इस मंत्र को अपने जीवन में उतारते हुए तमाम लोगों को निशुल्क ज्ञान दिया बताते हैं परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं सभी उनके काम को तवज्जो देते हैं।

अटल अटल ही रहे, वो कभी भी टल न सके: तनवीर

अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन पर हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

बहराइच। जनपद के जैन अतिथि भवन में नगर मंडल प्रथम द्वारा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन के अवसर पर नगर मंडल प्रथम की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राशिद राही जी ने किया। मुख्य अतिथि नगर विधायक व पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल रही।कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी शिवभूषण सिंह जिले के कर्मठ अध्यक्ष बृजेश पांडे जिला महामंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह टिंकू डॉ जितेन्द्र त्रिपाठी जी,जिला उपाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा रणविजय सिंह जिला मंत्री हेमा निगम पूर्व नगर अध्यक्ष सुदामा मिश्रा कन्हैया सोनी वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीनाथ शुक्ला नगर अध्यक्ष प्रथम विपिन यज्ञसैनी अजय प्रताप सिंह अज्जू दुर्गेश त्रिपाठी अयोध्या प्रसाद अवस्थी नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा मंजुला पाठक रवि गुलशन पाठक सिद्धार्थ सिंह ऋषभ श्रीवास्तव जतिन यज्ञसैनी आकर्ष जायसवाल अखिलेश श्रीवास्तव वैभव जैन संजय जायसवाल निलेश जैन सहित सभी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित किया कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ जनों से साथ साथ सभी सेक्टर संयोजको, बूथ अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नगर मंडल द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में तनवीर नगरौरी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेई के सम्मान में बहुत बेहतरीन रचना को पढ़ते हुए कहा कि ज़माने उनके इरादे कभी बदल न सके, जहां पे वो है वहां मेरे शब्द ढल न सके। चरित्र उनका था बिल्कुल पहाड़ के जैसा,अटल अटल ही रहे वो कभी भी टल न सके। इस दौरान नाज़िम बहराइची पी0 के0 प्रचंड गुलशन पाठक, प्रतिभा मिश्रा संतोष सिंह सूर्य विक्रम सिंह, तमन्ना बहराइची एवं तारिक बहराइची अपनी अपनी कविताओं से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। जावेद जाफरी नगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बहराइच ने दी।

अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, कारोबारियों में मचा हड़कम्प

अवधनामा संवाददाता

बल्दीराय,सुल्तानपुर। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की छापामारी। तहसील क्षेत्र के बारासिन गोमती नदी तट के जंगल में अवैध दारू का कारोबार चल रहा है। शासन के फरमान पर पुलिस तथा आबकारी विभाग की टीम ने बल्दीराय थाना क्षेत्र के वरासिन में छापेमारी की। 20 कुंतल लहन और कई भट्ठियां नष्ट की गई। बल्दीराय थाना प्रभारी आरबी सुमन ने बताया कि क्षेत्र के बारासिन गांव के गोमती तट के जंगलात में अवैध शराब कारोबारियों से करीब 20 कुंतल लहन व कच्ची शराब बरामद हुई जिसको मौके पर ही लहन, कच्ची शराब व भट्ठी को नष्ट कर दिया गया है उन्होनें कहा कि अवैध शराब कारोबारियों सख्त से निपटने के लिए तैयार हैं क्षेत्र में अवैध शराब बनाने एंव अवैध कारोबारियों को चिन्हित किया जा रहा है किसी बख्शा नहीं जाएगा या कारोबार छोड़ दें नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

थाना अध्यक्ष, आरबी सुमन, पारा चौकी इंचार्ज चंद्र शेखर सोनकर, वलीपुर चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ओझा, देहली चौकी इंचार्ज हरिशचंद्र और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

सुशासन के सशक्त सूत्रधार थे पूर्व पीएम अटल जी: गोविंद नारायण

अवधनामा संवाददाता

अटल जी के आदर्श हम सबके लिए अमूल्य धरोहर

पीएम मोदी अटल जी के सुशासन के संकल्पों को कर रहे सरकार: गोविंद

सुलतानपुर। भारत रत्न से सुशोभित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी लोकतांत्रिक व मानवतावादी मूल्यों की प्रतिमूर्ति थे।वह सुशासन के सशक्त सूत्रधार थे।उनके दिखाए आदर्श हम सबके लिए अमूल्य धरोहर है।यह बाते भाजपा के प्रदेश महामंत्री व एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला ने भाजपा के जिला मुख्यालय पर पूर्व पीएम अटल बिहारी बाजपेयी की 99 वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा मोदी सरकार अटल के सुशासन के सपने को साकार कर रही है।

उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा यूपी में हम 80 में 80 सीट जीतेंगे और एक बार फिर देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपुर्व बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी।भाजपा की प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी मीना चौबे ने अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा अंधेरा छटेगा सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, 43 वर्ष पहले उनकी कही बात सत्य साबित हुई है।भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.आरए वर्मा ने गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा मां भारती के लाल अटल जी विराट व्यक्तित्व के धनी थे।वह राजनीति के अजातशत्रु थे।पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष डां सीताशरण त्रिपाठी,पूर्व पालिकाध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल एवं डां अनुराग पाण्डे ने उनके करिश्माई व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा अटल जी विश्व पटल पर चमकते हुए सितारे और आदर्शो की प्रतिमूर्ति थे।इस दौरान वक्ताओं ने अटल जी की कविताओं का संस्मरण किया।इसके पहले मुख्य व विशिष्ट अतिथि सहित उपस्थित जन-प्रतिनिधियों,पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया और आदर्शो पर चलने का संकल्प लिया।पार्टी प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि अटल जी की 99 वीं जयंती जिले के 1900 बूथों पर अटल जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा की। संचालन जिला उपाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक डां प्रीति प्रकाश ने किया।

युवा भारत स्वस्थ का भारत का संदेश लेकर चल रहे दो युवा पदयात्री

अवधनामा संवाददाता

ललितपुर के सामाजिक संगठनों ने किया स्वागत

ललितपुर। राष्ट्रीय सामाजिक संगठन के दो युवा साथी दीपक यादव व हीरा लाल श्रीनगर की लाल चौक से पैदल चलकर करीब 2300 किलोमीटर की पद यात्रा करके सोमवार रात्रि 8.30 बजे ललितपुर पहुँच गए। जहां स्वस्थ भारत को समर्पित के-टू-के पद यात्रा में दोनों युवा साथी 5000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय करेंगे। ललितपुर पहुँचने पर रात्रि में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कैलगुआं चौराहे पर मिशन बेटियां, मानव ऑर्गेनाइजेशन, गौरैया बचाओ अभियान, अधिवक्ता संवाद के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मिशन बेटियां के कार्यालय में दोनो पदयात्रियों की ठहरने की व्यवस्था की गई। चाय की चकल्लस के माध्यम से परिचर्चा करते हुए हीरालाल ने बताया की हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत है, भारत को युवा देश माना जाता है। हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। नशे से बचने के लिए युवाओं को सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलों और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोडना होगा। स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में एनसीसी स्काउट्स, एनएसएस तथा रेडक्रॉस की गतिविधियों से जोड़ कर समाज को जागृत करना है। पद यात्रा कर रहे दीपक ने बताया कि हमारी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 13 राज्यों से होकर गुजरेगी।

वीर बाल दिवस पर हुयी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता

ललितपुर। महरौनी रोड के सजनाम तिराहा स्थित ठाकुर रघुवीर सिंह इण्टर कॉलेज के ऑडीटोरियम में मंगलवार को वीर बाल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महरौनी से भाजपा विधायक /राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ शामिल हुये। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि गुरू गोविन्दसिंह जी व माता गुजरी जी पर अन्याय करते हुये दूसरा धर्म न अपनाने पर उनके चार साहबजादों को शहीद कर दिया गया था। इस शहादत को लेकर भारत सरकार ने इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। प्रमुख वक्ता के रूप में राघवेन्द्र पटैरिया ने कार्यक्रम के उद्देश्य और वीर बाल दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। साथ ही रवि खरे ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर छात्र-छात्राओं से प्रश्नोत्तरी आयोजित की। राज्यमंत्री मनोहरलाल ने छात्र-छात्राओं को साहबजादों के बलिदान और साहस से अवगत कराया।

उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लगा जनता दर्शन

अवधनामा संवाददाता

बल्दीराय, सुल्तानपुर। तहसील के उपजिलाधिकारी कार्यालय में जनता दर्शन प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है। फरयादियों की हर समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी बल्दीराय विदुषी सिंह की अध्यक्षता में जनता दर्शन का आयोजन हुआ। जिसमें तहसील व ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी विदुषी सिंह ने बताया कि जनता दर्शन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लगाया जा रहा है। जनता दर्शन में सभी अधिकारी यहां मौजूद होंगे ताकि तहसील पर आने वाले फरियादी को तत्काल लाभ पहुंचाया जा सके। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को इसमें उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जा रहा है। मंगलवार को तहसील बल्दीराय में एसडीएम की अध्यक्षता में जनता दर्शन में 20 शिकायत कर्ता शिकायत लेकर पहुंचे। जिसमें से तीन शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया शेष शिकायतों का सम्बन्धित कर्मचारीयों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार घनश्याम भारतीय,नायब तहसीलदार गुलाब सिंह, थानाध्यक्ष बल्दीराय आरबी सुमन, सहित तहसील व ब्लाक कर्मचारी मौजूद रहे।

जमीन खरीददार पर जबरन कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप

अवधनामा संवाददाता

न विधिक बटवारा और न मानचित्र स्वीकृत के हो रहा कार्य

शासन-प्रशासन पर प्रभावी कार्यवाही न करने का आरोप

मंगलवार से घण्टाघर पर पत्नी समेत सत्याग्रह/ अनशन करने की घोषणा

पत्रकारवार्ता में जमीन सम्बन्धित जानकारी देते हाकिम सिंह व उनकी पत्नी शकुंतला देवी

ललितपुर। खरीदी गयी जमीन में साझेदारों द्वारा अपना हिस्सा बेचे जाने एवं शेष बचे भाग पर क्रेता द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किये जाने के मामले में विगत पांच वर्ष 10 माह से लगातार पैरवी कर रहे ककरूआ-महेशपुरा स्थित श्रीगिरीराज जी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक हाकिम सिंह ने सोमवार को एक पत्रकारवार्ता की। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस से लेकर शासन और डिप्टी सीएम तक अवैध कब्जे व निर्माण की शिकायत करने के बावजूद भी उन्हें न्याय आज तक नहीं मिला। इससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान है और कार्यवाही न होने से क्षुब्ध होकर उन्होंने घोषणा की है कि वह अपनी पत्नी शकुन्तला देवी के साथ 26 दिसम्बर से घण्टाघर पर सत्याग्रह/अनशन करेंगे।

पत्रकारवार्ता में श्रीगिरीराज जी शिक्षण संस्थान के प्रबंधक हाकिम सिंह ने बताया कि वर्ष 2004 में उन्होंने अपने साझेदार रागिनी अवस्थी पत्नी लक्ष्मीकांत अवस्थी व नीलम तिवारी पत्नी दिनेश तिवारी के साथ पत्नी शकुन्तला देवी के नाम से महेशपुरा-दावनी रोड स्थित गाटा संख्या 105/3 रकवा 5.00 एकड़ में से 4.00 एकड़ जमीन क्रय की थी। इसके बाद शेष बची एक एकड़ जमीन वर्ष 2007 में उन्होंने श्रीगिरीराज जी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रबंधक हाकिम सिंह पुत्र टोढ़ी सिंह ने क्रय की थी। बताया कि उक्त विद्यालय व जमीन में वह साझेदार हैं। बताया कि एक एकड़ में विद्यालय का निर्माण कराया गया, शेष बची 4 एकड़ में बागवानी, खेल मैदान व कृषि कार्य किया। बताया कि लगभग पांच वर्ष पहले उसके हिस्सेदार रागिनी अवस्थी व नीलम तिवारी ने अपने-अपने हिस्से की जमीन तालाबपुरा निवासी अमित जैन पुत्र वीरेन्द्र जैन एवं रीतेश कुमार पुत्र अखिलेश कुमार जैन को विक्रय कर दी। इस प्रकार 4 एकड़ में शकुन्तला देवी एवं अमित कुमार 1/3 एवं 2/3 के संयुक्त खाते में हिस्सेदार हैं। बताया कि उक्त जमीन का बिना किसी विधिक बटवारे के उनकी जमीन सहित अपनी जमीन पर उत्तर दिशा में अवैध रूप से चाहर दीवारी का निर्माण करा लिया, जिसे तत्समय रोका भी गया। साथ ही शकुन्तला देवी के कब्जे में खड़े अमरूद, आंवला व अन्य प्रजातियों के पेड़ काटकर बाउण्ड्री बाल व बेयर हाऊस का निर्माण कर लिया गया। मामले को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया, जिस पर 29 मई 2018 को दिये गये आदेश के बावजूद भी जबरन निर्माण कार्य कराते रहे। पीड़ित पक्ष ने न्यायालय परागनाधिकारी से निवेदन किया, जिस पर अग्रिम तिथि नियत करते हुये आदेश जारी किया, बावजूद इसके कार्य नहीं रूका। बताया कि बिना किसी मानचित्र को स्वीकृत कराये मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर विनियमित क्षेत्र ने आदेश करते हुये 4 अगस्त 2018 को कोतवाली प्रभारी को निर्देशित करते हुये निर्माण रोकने के लिए निर्देशित किया। तब भी कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अलावा 25 जून 2019 को उनके द्वारा विनियमित क्षेत्र नियंत्रक/ जिलाधिकारी को पत्र देकर अवैध कब्जा रोकने के लिए पत्र दिया, जिस पर डीएम ने दोनों पक्षों से वार्ता की, जिसमें दूसरे पक्ष में स्वीकार किया कि वह बिना मानचित्र के निर्माण करा रहा है, जिस पर डीएम ने बिना मानचित्र स्वीकृति के चल रहे निर्माण कार्य को ध्वस्ती करण के निर्देश जारी किये। लेकिन बावजूद इसके कार्य नहीं रूका। 16 जुलाई 2019 को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने एसओ सदर को 145 की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया, जिस पर 26 जुलाई 2019 तक यथा स्थिति आदेश रहा। उसके बाद फिर से कार्य शुरू करा दिया गया। बताया कि उनके द्वारा दिये गये शिकायती पत्र का निस्तारण भी बिना उनकी जानकारी के कर दिया गया। बताया कि छह वर्ष के कालखण्ड में उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन, आईजीआरएस, संपूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवसों व डीएम-एसपी, एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया, लेकिन आलाधिकारियों के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी कार्य नहीं रूका और न ही अवैध कब्जा हटाया गया। 16 सितम्बर को विपक्षियों द्वारा विद्यालय की ओर कुंआ तक पहुंचने के लिए पूर्व से लगे गेट के सामने दीवाल बना दी गयी, जिससे अब कुंए का पानी पीने के लिए भी नहीं ले पा रहे हैं। बताया कि मामले की जांच तत्कालीन उप जिलाधिकारी घनश्यादास वर्मा व तत्कालीन सीओ, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध कब्जे से रोका गया। इसके अलावा वर्तमान में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी, सीओ सदर और शहर कोतवाल द्वारा जांच की जा चुकी है। लेकिन अभी तक आलाधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा जीरो टोलरेंस की नीति अपनायी जा रही है, जिसकी धरातल पर हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि वह अब मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित हो चुके हैं। इसलिए अब वह 26 दिसम्बर 2023 से अपनी पत्नी के साथ घण्टाघर मैदान पर सत्याग्रह/अनशन कर रहे हैं।

पुलिस ने की सीआरपीसी की कार्यवाही

सुल्तानपुर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने के सम्बंध में चलाये गये अभियान के अन्तर्गत *थाना लम्भुआ से 08, थाना धम्मौर से 04, थाना धनपतगंज से 05 कुल 17 व्यक्तियों* को शांति व्यवस्था भंग करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया।

कैंपस इंटरव्यू के परिणाम घोषित

सुल्तानपुर। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आयोजित कैंपस इंटरव्यू का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें चार छात्रों का चयन क्वालिटी असिस्टेंट के पद पर हुआ। कुल 26 छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया था जिसमें आमंत्रित कंपनी एस एल एम जी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद 16 छात्रों का इंटरव्यू किया था। चयनित छात्रों में आकिब रजा, अवनीश कुमार सिंह, शीतलेश खरवार व रिषिवेंद्र सिंह रहे। संस्थान ने अपनी स्वायत्तता हासिल करने के बाद कैंपस इंटरव्यू करवाने का विशेष प्रयास आरंभ किया है।इसके पहले बी.बी.ए., फैशन डिजाइनिंग आदि विभागों में इम्प्लायमेंट ड्राइव का सफल प्रयास किया गया था। आगे विज्ञान और कृषि संकाय में भी कैंपस प्लेसमेंट कराने की योजना है।

पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का अभ्यास वर्ग संपन्न

ललितपुर। नेहरू महाविद्यालय अभ्यास वर्ग में संपादित हुआ। ललितपुर जिला कार्यवाह आशीषजी, जिला संयोजक जयशंकर जी, जिला शैक्षिक संरक्षण प्रमुख राजीवजी, आईबीओ प्रमुख नीतिंजयजी, नारी प्रमुख रजनीजी एवं अन्य पर्यावरण प्रमुखों की उपस्थिति रही। इस अभ्यास वर्ग में पेड़ लगाए पानी बचाएं एवं पॉलीथिन हटाए विषयों पर चर्चा एवं परिचर्चा हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ जयशंकरजी के द्वारा पॉलिथीन की हानियां एवं उसके निदान से हुआ। डा.प्रबल सक्सेना एवं राजीवजी के द्वारा वृक्ष की पृथ्वी पर अहम भूमिका एवं उसके संवर्धन की गहन व्याख्या हुई। डा.प्रबलजी के द्वारा भारत में जल की वर्तमान दशा एवं दिशा की तस्वीर प्रस्तुत करते हुए उसके राष्ट्रीय संरक्षण के विभिन्न आयामों की चर्चा की।

पं. दीन दयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के चयन ट्रायल की तिथियां घोषित

बहराइच । पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरूष फुटबाल तथा सीनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता के जिला एवं मण्डल स्तरीय चयन ट्रायल तथा प्रदेशीय स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए उप क्रीडाधिकारी अनुपमा धानुक ने बताया कि इन्दिरा गॉधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बहराइच में 28 दिसम्बर को अपरान्ह 03:30 बजे तथा सीनियर पुरूष फुटबाल प्रतियोगिता हेतु 10 जनवरी को 03:30 बजे से जिला स्तरीय चयन ट्रायल सम्पन्न होगा। सुश्री धानुक ने बताया कि बॉक्सिंग प्रतियोगिता का मण्डल स्तरीय चयन ट्रायल इन्दिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बहराइच में 29 दिसम्बर को अपरान्ह 03:30 बजे तथा फुटबाल प्रतियोगिता का मण्डलीय चयन ट्रायल क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोण्डा में 12 जनवरी को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न होगा। जिला स्तरीय चयन/ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी जन्मतिथि प्रमाण पत्र की मूल प्रति व छायाप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित खिलाड़ी चयन/ट्रायल्स में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियो को मण्डल स्तर पर तथा मण्डल स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर चयन/ट्रायल्स में भाग लेने हेतु भेजा जायेगा।

टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में सफल विद्यार्थियों को मिलेगी स्कालरशिप

दूसरे फेज की परीक्षा 28 जनवरी को

अवधनामा संवाददाता

प्रयागराज। पाण्डेय एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को संपन्न कराया गया। इस प्रतियोगिता को कराने में पाण्डेय क्लासेज महत्वपूर्ण सहयोगी रहा यह प्रतियोगिता एक साथ कई सेण्टर पर आयोजित करायी गयी है जिसमे काफी बच्चों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क करायी गयी है, जिसमें कक्षा तीन से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता को करने का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना और उन्हें निखार कर सफलता के उच्चतम सीढ़ी तक पहुंचाना है। इस प्रतियोगिता के द्वारा छात्रों को स्कालरशिप भी दिया जायेगा।

प्रतियोगिता का दूसरे फेज का एग्जाम 28 जनवरी को कराया जायेगा। जो छात्र प्रथम फेज में एग्जाम नहीं दे पाए हैं वह द्वितीय फेज में आकर टैलेंट सर्च एग्जाम दे सकते हैं। टैलेंट सर्च द्वितीय फेज का फॉर्म 26 दिसंबर से मिलना प्रारंभ होगा।

पाण्डेय एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सचिव फिजिक्स के प्रख्यात डॉ. एससी पांडेय के अनुसार जो छात्र टैलेंटेड हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें पाण्डेय क्लासेज द्वारा स्पेसल स्कालरशिप दिया जाता है। आप यहाँ आकर अपना सपना साकार कर सकते हैं।

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(आबकारी विभाग)

अवैध शराब के सेवन से बचे!

सावधान! सावधान!

अपील

निकट भविष्य में किसमस पर्व एवं नवर्ष-2024 के दृष्टिगत जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन कदापि न करें, क्योकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है। उत्तर प्रदेश में वैध शराब पाउच में नहीं बिकती है। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकृत आबकारी ठेके से ही बारकोड/क्यू0आर0 कोड एवं सील लगी बोतल खरीदें। पाउच वाली महुए से बनी शराब किसी भी हालत में न खरीदें क्योकि यह पूर्णतया नकली एवं जानलेवा है। अवैध शराब तथा निर्धारित मूल्य से अधिक की बिक्री से सम्बन्धित सूचना निम्न फोन नम्बरों पर दी जा सकती है :-

1. जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र । मो0नं0 - 9454465619
2. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र - 1 राबर्ट्सगंज, सोनभद्र। मो0नं0-8299436851
3. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र - 2 दुद्धी, सोनभद्र। मो0नं0-8423636665
4. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र -3 घोरावल, सोनभद्र। मो0नं0-8423636665

उक्त के अतिरिक्त अवैध मदिरा के निर्माण/बिक्री के सम्बन्ध में शिकायत विभागीय टोल फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाटस एप नम्बर- 9454466019 पर की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी, सोनभद्र। **जिलाधिकारी, सोनभद्र।**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य अभियन्ता/सेतु कर्मशाला, उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर निम्नलिखित कार्य हेतु अनुभवी एवं स्थापित सक्षम ठेकेदारो द्वारा ई.– निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0 1. निविदा सं0 : 21/डब्ल्यू0/बीडब्ल्यूएस/सीबी/एल.के.ओ./2023–24

कार्य का नाम : पुल कार्यशाला उत्तर रेलवे चारबाग लखनऊ के आधुनिकीकरण के संबंध में पुल कार्यशाला के अंदर विभिन्न उपयोगों के लिए शेड की व्यवस्था का कार्य

2.	अनुमानित लागत	रू0 71221530.13
3.	बोली सुरक्षा राशि	रू0 506100/-
4.	कार्य की समापन अवधि	स्वीकृत पत्र जारी करने की तिथि से 12 माह
5.	निविदा डालने की प्रारम्भिक तिथि	05.01.2024
6.	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं निविदा खुलने की तिथि तथा समय	निविदा 19.01.2024 को 15:00 बजे तक जमा किए जा सकेंगे एवं निविदा उसी दिन खोली जायेगी।

7. न्यूनतम पात्रता की शर्तें: अ. तकनीकी : (ए) निविदा कार ने पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा या प्रर्याप्त रूप से पूरा किया हो, जिस महीने में निविदा आमंत्रित की गयी थी, उससे पहले के महीने के अन्तिम दिन को समाप्त करना होगा।

तीन समान कार्य जिनकी लागत, निविदा की विज्ञापित मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो। या

दो समान कार्य जिनका लागत, निविदा की विज्ञापित मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर राशि से कम न हो। या

एक समान कार्य की लागत, निविदा के विज्ञापित मूल्य के 60 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

ब. वित्तीय : निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार V/N (वी/एन) या 'V' (वी) जो भी कम होय जहाँ V (वी) = निविदा की विज्ञापित मूल्य करोड़ रूपये में। N (एन) = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गयी है।

औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कुल संविदात्मक भुगतान के औसत के रूप में की जायेगी, लेखा परीक्षित बैलेन्स शीट के अनुसार। तथापि, यदि पिछले वर्ष का तुलन–पत्र अभी तक तैयार/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष की लेखा परीक्षित तुलन–पत्र पर विचार किया जाएगा।

8. एक समान कार्य : कोई भी स्टील निर्माण का कार्य अथवा एफ ओ बी अथवा पीपी शेल्टर अथवा औद्योगिक शेड अथवा स्टील/कम्प्रोजिट गर्डर ब्रिज अथवा चैनल स्लीपर के माइक्रोवेव/एचटी टावर का निर्माण और स्थापन का कार्य।

9.	वेबसाइट का विवरण एवं कार्यालय का नाम जहाँ निविदा का विवरण देखा जा सकता है	www.ireps.gov.in, कार्यालय उप मुख्य अभियन्ता/से0 कर्म0, उत्तर रेलवे चारबाग, लखनऊ।

नोट :- 1. ठेकेदारों को ई–निविदा सिस्टम में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। 2. समस्त नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है। 3. मैनुउल निविदाये स्वीकृत नहीं की जायेगी। 4. निविदा प्रपत्र की लागत जो निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट किया गया है। 5. बोली सुरक्षा राशि का भुगतान सिर्फ नेट बैंकिंग, पेमेंट गेटवे या बैंक गारंटी जैसा कि निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट किया गया है, द्वारा स्वीकृत की जायेगी। निविदा सू0सं0–21/डब्लू/बी0डब्लू0एस0/सी0बी0/2023–24 दिनांक 23.12.2023 4039/2023

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

नायब तहसीलदार के धर्म परिवर्तन की खबर से मौदहा में हलचल

अवधनामा संवाददाता

विभागीय बड़ी कार्यवाही की सुगबुगाहट हुई तेज

मौदहा-हमीरपुर। कभी कभी कुछ कोई घटना ऐसी होजाती है जो जंगल में आग की तरह फैलती है ऐसी ही एक घटना मौदहा में हुई जब 26 दिसंबर को मौदहा तहसील में सेवारत एक नायब तहसीलदार के द्वारा धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने की खबर आई जिसनें समूचे प्रशासनिक अमले को सकते में डाल दिया और एक हंगामा बरपा गोगया। मामले की जांच के बाद इस मामले की रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की तैयारी है। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

बताते चलें कि मौदहा तहसील में सेवारत एक नायब तहसीलदार कस्बा के इलाहीतालाबा के समीप स्थित कचरिया मस्जिद में विगत कुछ दिनों से नमाज़ पढ़ने जाता था जहाँ वह अपने को कानपुर निवासी मुहम्मद यूसुफ बताता था। लेकिन मस्जिद के आसपास रहने वालों के साथ ही नमाजियों ने इस नायब तहसीलदार को पहचान लिया और यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई जैसी ही यह मामला तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच पहुंचा तो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की सच्चाई जानने के लिए तहसीलदार बलराम गुप्ता स्वयं इस मस्जिद के मुअज्जिन मुहम्मद मुश्ताक के पास पहुंचे जहाँ मुअज्जिन ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति मस्जिद में कुछ दिनों से नमाज़ पढ़ने आता था जो कि अपना नाम मुहम्मद यूसुफ निवासी कानपुर बताता था। लेकिन जब उस शख्स ने स्वयं को मौदहा तहसील में तैनात नायब तहसीलदार बताया तो लोगों के होश उड़ गए। इधर तहसीलदार बलराम गुप्ता की जांच में पता चला है कि जो व्यक्ति स्वयं को मुहम्मद यूसुफ बताकर मस्जिद में नमाज अदा करने जाता है वह वास्तव में मौदहा तहसील में तैनात कानपुर निवासी नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ही है इतना ही नहीं इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि उक्त नायब तहसीलदार और मौदहा कस्बा की एक मुस्लिम लड़की से संबंध रहे हैं। चर्चा यह भी है कि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ने इस मुस्लिम लड़की से निकाह भी कर लिया है। हलाकि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है कुछ दिनों से यह मौदहा कस्बा के इलाही तालाब के निकट स्थित कचरिया की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पहुंचने लगा था। तहसीलदार बलराम गुप्ता की माने तो आशीष गुप्ता दो दिन से मस्जिद गए थे शायद उनकी किसी से उर्दू सीखने की बात हुई थी, नमाज़ पढ़ने का मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि जांच अधिकारी ने मौके पर मौजूद लोगों से यह भी पूछा की क्या कोई अन्य धर्म का आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता तो इन लोगों ने बताया कि किसी के नामज़ पढ़ने पर आपत्ति नहीं है। हलाकि गोपनीय सूत्रों की माने तो नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता के खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही होना तय है। नौकरी भी जा सकती है।

अभिभावकों का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

कमासिन। ब्लाक संसाधन केंद्र कमासिन में शैक्षिक सभागार में समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की एनवायरमेंट बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत प्रथम पेरेंट्स काउंसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी आभा अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वातावरण सृजन दिव्यांगता और उसकी पहचान अभिभावकों की काउंसलिंग आवश्यकता एवं कार्य अभिभावकों के द्वारा सी डब्लू एस एन की देखरेख में सहयोग के साथ सकारात्मक सोच केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देकर उनसे होने वाले लाभ, चिकित्सा प्रमाण पत्र, उपकरण प्राप्ति के बारे में विस्तृत जानकारी विशेष शिक्षक बृजभान मौर्य, प्रेम नारायण त्रिपाठी, जय भान सिंह के द्वारा दी गई।

मदन मोहन मालवीय मां भारती के एक समर्पित राष्ट्रधर्मी सपूत थेः डॉ. भवानीदीन

हमीरपुर सुमेरपुर। देश के स्वनाम धन्य विभूतियों की महत्ता को देखते हुए वर्णिता संस्था के तत्वावधान मे विमर्श विविधा के अन्तर्गत जरा याद करो कुर्बानी के तहत शिक्षा एवं समाज सेवा के धनी भारत रत्न महामना मदनमोहन मालवीय की जयन्ती 25दिसम्बर 1861 पर संस्था केअध्यक्ष डा भवानीदीन ने श्रद्धान्जलि देते हुये कहा कि मदनमोहन मालवीय मा भारती के एक समर्पित राष्ट्रधर्मी सपूत थे, एक महान शिक्षाधर्मी भी थे,इनके शिक्षा के क्षेत्र मे दिये गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, इनका जन्म 25 दिसम्बर 1861 को ब्रजनाथ और मूनादेवी के घर प्रयाग मे हुआ था,गांव, प्रयाग और कलकत्ता से अपनी शिक्षा पूरी की ,मालवीय जी ने 1884 मे इलाहाबाद के एक सरकारी हाईस्कूल मे सहायक अध्यापक के रूप मे नौकरी शुरू की, मालवीय जी का शिक्षा के क्षेत्र मे सर्वोच्च योगदान 1916 मे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना रहा, यह विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बडा आवासीय विश्वविद्यालय है,विश्व के सबसे बडे विश्वविद्यालयों मे से एक है, ये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे तीन बार कुलपति रहे। इनका स्वाधीनता आन्दोलन से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष के रुप मे सराहनीय सहयोग रहा।ये दि लीडर और हिन्दुस्तान टाइम्स के संस्थापक रहे, गाधी जी ने मालवीय जी को महामना कह कर पुकारा।कालांतर मे इनका 85 वर्ष की उम्र मे प्रयाग मे 12 नवंबर 1946 को निधन हो गया, कार्यक्रम मे अवधेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, अशोक अवस्थी, रमेश चंद्र गुप्ता, सिद्धा प्रजापति, बाबू प्रजापति, प्रेम प्रजापति, अवधेश प्रजापति, अरविन्द प्रजापति, रामबाबू धुरिया, रितिक सोनी, बरदानी, सागर, रिकू प्रजापति और संतोष प्रजापति, दस्सी और अभिषेक आदि शामिल रहे।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के ग्यारहवे दिन यातायात नियमों की जानकारी दी गई

200 से अधिक वाहन चालकों को हेलमेट वितरण किए गए

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 11वें दिन स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर सिंह खन्ना ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। कार्यक्रम में अपर एसपी मायाराम वर्मा ने उपस्थित वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई। इस मौके पर यातायात क्षेत्राधिकारी घनश्याम सिंह नें कहां कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें शराब पीकर वाहन न चलाएं और तेज गति से वाहन ना चलाएं। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करें एवं चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यातायात प्रभारी हरवेंद्र सिंह नें वाहन चालकों को हेलमेट पहनाते समय कहां कि आप सभी का जीवन बहुमूल्य है इसलिए सुरक्षित यात्रा करें यातायात पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। कार्यक्रम का संचालन अनवर खान व जलीस खान ने किया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बंशीधर सिंह सेंगर, नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, पीटीओं चंदन पांडे, कांस्टेबल आर्यन मिश्रा, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल असित कुमार, कांस्टेबल जीरेन्द्र पाल सिंह, यातायात होमगार्ड चेतराम भूरेलाल, रामअवतार, तेज बहादुर, रमाकांत, जयकरन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात 200 से अधिक उपस्थित दो पहिया वाहन चालकों को निशुल्क हेलमेट प्रदान किए गए।

जिले में बढ़ रहे है ऑनलाइन ठगी के मामले

वर्ष 2023 में अब तक 814 शिकायत हो चुकी दर्ज

अवधनामा संवाददाता

हमीरपुर। साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए जिले में साइबर थाना जल्द बनेगा। इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। फिलहाल एसपी कार्यालय में ही साइबर थाना खोल दिया गया है जहाँ प्रभारी निरीक्षक जयशंकर सिंह की तैनाती की गई है। दो मुख्य आरक्षी,एक आरक्षी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती कभी हो चुकी है। गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिक्डइन, यूट्यूब और स्नैपचैट पर प्रयोग करने वाले लोग आए दिन साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर क्राइम के मामलों में सीधे तौर पर लोगों को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। ब्लैकमेलिंग करने वाले ग्रुप भी इंटरनेट मीडिया में सक्रिय है,जो फोटो ग्राफ के साथ छेड़छाड़ कर लोगों को ठग रहे हैं। वर्ष 2023 में अभी तक साइबर क्राइम से जुड़ी ऑफलाइन 315 और ऑनलाइन 519 शिकायत दर्ज हो चुकी है। जिनमें 80 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। सर्वाधिक मामले वित्तीय संबंधी है। इससे अलावा स्क्रीनशॉट भेज कर साइबर ठग फोन करते हैं और उस व्यक्ति को यह बताते हैं कि गलती से उनके खाते में उन्होंने पैसा डाल दिया है। उनका बच्चा बीमार है। पैसा वापस कर दे। आमतौर पर लोग इन बातों में फंस जाते हैं और अपना अकाउंट जांचे बिना धनराशि ठगो के खातों में भेज देते हैं।

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग पकड़ा

24 सितंबर 2022 को मौदहा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर तीन ठग अंकित त्रिपाठी निवासी हरदोई,सूरज कुमार निवासी मुरादाबाद और इंतजार खान निवासी चंदौली को गिरफ्तार किया गया था। यह गैंग एफसीआई में सुपरवाइजर,लेबर, रेलवे में टीसी,वन विभाग में माली, इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट,चतुर्थ श्रेणी कर्मी, अस्पताल व बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर,स्टाफ नर्स,ब्लॉक में डीपीएस की सरकारी नौकरी देने का फर्जीवाडा करता था। इसके अलावा टेलीग्राम एप के जरिए ठगी करने वाले ग्रुप बनाकर लोगों को आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं।

साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए जल्द बनेगा साईबर थाना

पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए जिले में साइबर थाना जल्द बनेगा। कार्यालय में ही दो कक्ष का अभी अस्थाई रुप से साइबर थाना बना दिया है। स्टाफ की तैनाती कर दी है। अब लंबित विवेचना में तेजी आएगी।नए भवन के लिए बजट जारी होने पर निर्माण शुरू कराया जाएगा। जिले के सभी थानों में उप निरीक्षक की बजाय अब निरीक्षक क्राइम की साइबर हेल्प टैक्स के प्रभारी होंगे। ऐसी फोन कॉल्स जिनमे बैंक संबंधी जानकारी मांगी जाती है,उनसे बचें।जिलास्तरीय साइबर थाने का सीयूजी नंबर 7839854 611 या हेल्पलाइन 1930 या www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

विवेचनाओं का समय से किया जाए निस्तारणः डीआईजी

अवधनामा संवाददाता

बांदा। चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ डीआईजी चित्रकूटधाम परिक्षेत्र अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को अपराध समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि विवेचनाएं किसी भी दशा में लंबित न रखी जाएं। इसके साथ ही अपराधियों पर पैनी निगाह रखी जाए। डीआईजी ने अपराध नियंत्रण के संबन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के संबन्ध में भी दिशा निर्देश निर्गत किए गए। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम तथा समय से विवेचनाओं का निस्तारण प्राथमिक तौर पर किया जाना आदि जनता के साथ अच्छा व्यवहार किए जाने की बात कही। पुलिस कप्तानों को कहा कि वह अपने मातहतों को निर्देशित करें।

अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसपी बांदा अंकुर अग्रवाल, एसपी महोबा अर्पणा गुप्ता, एसपी चित्रकूट वृंदा शुक्ला और एसपी हमीरपुर डा. दीक्षा शर्मा मौजूद रहीं।

गुरुद्वारे पर वीर बाल दिवस पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम

अवधनामा ब्यूरो

सोनभद्र। वीर बाल दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की स्मृति में सोनभद्र के सभी मण्डलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसके क्रम में राबर्ट्सगंज नगर में गुरुद्वारे की सेवा स्वच्छता के साथ कितर्न में जिला प्रभारी अमरनाथ यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नन्दलाल जी एवं सदर विधायक भूपेश चौबे सहित भाजपा कार्यकर्ता व सिक्ख समाज के लोग सम्मिलित रहे। इस अवसर पर साहिबजादों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कि गई इसके पश्चात् लंगर में उपस्थित जनों ने प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा जिला प्रभारी अमरनाथ यादव ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 26 दिसम्बर 2023 को वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 09 जनवरी, 2024 को गुरु गोविन्द सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि दसवें सिक्ख गुरू गोविन्द सिंह जी के पुत्रो साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जायेगा। आज के अवसर पर हम सभी ऐसे वीर पुत्रों को नमन करते है। कार्यक्रम मे सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि वीर बाल दिवस सिक्ख धर्म के दसवे गुरु गोविंद सिंह जी के चार सुपुत्रों जिन्हें चार साहिबजादों के नाम से जाना जाता है उनके अदम्य साहस शौर्य धर्म व देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए किये गये बलिदान की स्मृति में किया जा रहा है। चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह में से दो साहिबजादों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अत्याचारी मुगल आक्रान्ताओं के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। वहीं छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह को अत्याचारी मुगल शासक द्वारा जीवित दीवार में चुनवा दिया गया किन्तु निर्भीक सिंह की तरह दोनों साहिबजादों ने अपने धर्म से विमुख होना स्वीकार नहीं किया ऐसे निर्भीक अल्प आयु साहसी साहबजादों के कृत्य प्रत्येक देशवासी चाहे वृद्ध हो या बालक सभी के लिए अनुकरणीय है वन्दनीय है व नमन करने के योग्य है। कार्यक्रम मे मुख्यरुप से पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी, सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, कृष्णमुरारी गुप्ता, कमलेश चौबे, ओमप्रकाश दूबे, रविन्द्र केशरी, बलराम सोनी, धिरेन्द्र पाण्डेय, राकेश मेहता, सरदार गुरजीत सिंह, लब्बी सरदार, हर्ष केशरी, प्रकाश केशरी, सरोज केशरी, मनीष कुमार, चन्द्रप्रकाश दूबे पप्पू, अजीत सिंह भण्डारी, जसवीर सिंह, रणजीत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह सहित कार्यकर्ता व सिक्ख समाज के लोग उपस्थित रहे।

विंध्य क्लब द्वारा क्रिसमस सेलीब्रेशन प्रोग्राम का आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्याचल। एनटीपीसी-विंध्याचल के विंध्य क्लब द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों हेतु अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया विंध्या क्लब के सचिव वेद प्रकाश एवं उनकी टीम द्वारा बच्चों एवं उनके परिवारजनों हेतु विभिन्न प्रकार के गेमों का आयोजन किया गया, साथ ही फ़ैन्सी ड्रेस प्रतियोगता का भी आयोजन किया गया। जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। अंत में मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अन्य अतिथियों द्वारा आयोजित विभिन्न गेमस के विजयी प्रतिभगियों को पुरस्कृत भी किया गया।

एनटीपीसी विंध्याचल टाइनी टोट्स स्कूल ने क्रिसमस कार्निवाल का किया आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्याचल। एनटीपीसी विंध्याचल के टाइनी टोट्स स्कूल द्वारा टाइनि टोट्स स्कूल परिसर में क्रिसमस कार्निवाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या मे स्कूल के बच्चो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी बच्चों एवं शिक्षकगणों द्वारा आकर्षक विभिन्न स्टाल लगाया गया था तथा उनकी साज-सज्जा भी आकर्षक ढंग से की गई थी, जो बहुत ही लुभावनी थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एनटीपीसी-लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (उत्तर) प्रवीण सक्सेना एवं श्रीमती नीलम सक्सेना एवं विशिष्ट अतिथि परियोजना प्रमुख(विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार एवं अध्यक्षा सुहासिनी संघ श्रीमती सरोजा फणि कुमार एवं अन्य महाप्रबंधकगण के साथ-साथ सुहासिनी संघ की पदाधिकारी एवं सदस्याएं भी उपस्थित रहीं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर एनटीपीसी-लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (उत्तर) प्रवीण सक्सेना ने अपने उद्बोधन मे सभी बच्चों को मेरी क्रिसमस की बधाई दी एवं बच्चों द्वारा आकर्षक ढंग से सजाये गए विभिन्न स्टालों का विजिट कर सराहना भी की। इसके पूर्व एनटीपीसी-लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (उत्तर) प्रवीण सक्सेना एवं श्रीमती नीलम सक्सेना का देश के सबसे बड़े विद्युतगृह विंध्याचल परियोजना के अतिथि गृह सूर्या भवन मे परियोजना प्रमुख(विंध्याचल) ई सत्य फणि कुमार, अध्यक्षा सुहासिनी संघ श्रीमती सरोजा फणि कुमार एवं अन्य महाप्रबंधकगणों द्वारा अभिनंदन किया गया। अंत में प्रस्थान से पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा अतिथि गृह सूर्या भवन के प्रांगण मे पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण भी किया गया।

1100 अक्षत कलश के साथ आज निकाली जाएगी शोभायात्रा

अवधनामा संवाददाता

बांदा। श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह समिति के जिला संयोजक प्रभाकर सिंह चन्देल ने बताया कि भगवान श्रीराम 500 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या नगरी में वापस आ रहे हैं। इसलिए पूरे हर्षोल्लास एवं मनोभाव से आगामी 22 जनवरी को दीपावली पर्व मनाया जाएगा। बताया कि पहली जनवरी से 15 जनवरी तक भगवान श्रीराम जी का विग्रह पूजन चित्र, अक्षत एवं पत्रक के माध्यम से प्रत्येक घर तक विशेष सम्पर्क किया जायेगा। 22 जनवरी को पूरे जनपद के सभी ग्रामों और नगरों व मोहल्लों में स्थित मन्दिरों में सामूहिक रूप से भजन, कीर्तन व हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन होगा। इसके साथ ही एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। रात्रिकालीन घर-घर दीप उत्सव पर दीपक जलाकर इस वर्ष एक वर्ष में दूसरी दीपावली मनाई जायेगी। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए जिले के प्रत्येक ब्लाक व नगर मुख्यालयों पर अयोध्या से आये पूजित अक्षत कलश की भव्य यात्रा नगरों में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हुए निकाली जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद मुख्यालय के श्रीराम लीला मैदान महेश्वरी देवी से समय से दोपहर 12 बजे से 1100 अक्षत कलश भगवान श्रीराम की झांकी व विभिन्न झांकी सहित हाथी, घोड़ा, बग्घी, बैण्डबाजा के साथ भारी उत्साह से श्रीराम भक्तों की उपस्थिति पर यात्रा का शुभारम्भ किया जाएगा।

दो दिवसीय मेले का किया गया आयोजन

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/विंध्याचल। एनटीपीसी विंध्याचल के वीवा क्लब में दिनांक 25 एवं 26 दिसंबर 2023 को वीवा क्लब के स्थापना दिवस एवं क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उदघाटन मुख्य अतिथि महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण) राजेश भारद्वाज एवं उपाध्यक्षा सुहासिनी संघ श्रीमती सुभा भारद्वाज के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त सभी महाप्रबंधकगण, सुहासिनी संघ की सदस्याएँ तथा वीवा क्लब के महासचिव विवेक सिंह तथा वीवा क्लब के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें। यह मेला वीवा-क्लब द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मेले के दौरान, विभिन्न प्रकार के पकवान, महिला सौन्दर्य प्रसाधन, वस्त्र एवं आभूषण, विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान,आदि के स्टाल के साथ-साथ बच्चों के लिए अनेक प्रकार के झूले, बोटिंग, जमपिंग पैड आदि भी लगाए गए थे। मेले के प्रथम दिन दिनांक 25.12.2023 को लाइव म्यूजिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें सारेगमा पा एवं द वॉइस इंडिया के रनर अप सुप्रीत चक्रवर्ती एवं प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर सुकाशवी दे द्वारा अपनी-अपनी प्रस्तुतियों से सभी लोगो का भरपूर मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम की सभी लोगों ने खूब सराहना की। वहीं मेले के दूसरे दिन दिनांक 26.12.2023 को स्टेंडअप कॉमेडी शो का आयोजन किया गया ,जिसमें इंडिया लाफ्टर चैंपियन के रनर अप हिमांशु बवंडर द्वारा अपने हास्य-व्यंग्य के माध्यम से लोगों को गुदगुदाया और उनको ठहाके लगाने को मजबूर कर दिया। इस दौरान भारी संख्या मे कर्मचारी, नगर परिसर की महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे।

बच्चों की पेंटिंग और माथुर गैलरी ने मोह लिया मन

अवधनामा संवाददाता

बांदा। भागवत प्रसाद मेमोरियल अकादमी में महादेवी कुशवाहा की स्मृति- न्यास पर आयोजित दो दिवसीय काग्निशन आर्ट कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं की कला के प्रति रुचि और उनके हुनर को पहचानने व परखने के लिए देश के नामीगिरामी चित्रकारों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी के नामित चेयरमैन अंकित कुशवाहा और कालेज के समस्त स्टाफ ने मिलकर किया। इसमें मशहूर कलाकार रफीक शाह, अखिलेश, प्रियंका सिन्हा, वाजिदा खान, सीरज सक्सेना व निशी शर्मा आदि कलाकारों ने अपनी बेहतरीन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। जिन्होंने भागवत प्रसाद मेमोरियल अकादमी में आयोजित आर्ट गैलरी में रखें कोहिनूर हीरे के समान अपनी प्रतिभा से गैलरी को दीप्तिमान कर दिया। मुख्य अतिथि ने पिता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भागवत प्रसाद मेमोरियल अकादमी, भागवत प्रसाद इंटर कालेज, तथागत ज्ञानस्थली, विद्यावती, संत तुलसी समेत विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इसमें विद्यावती की मानसी, भागवत प्रसाद मेमोरियल एकेडमी की कृति एवं अभिनव की पेंटिंग की दर्शकों ने प्रशंसा की।

सीएमडी एनसीएल की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समिति बैठक

सुरक्षा पर अपनाएँ जीरो टोलरेंस की नीतिः भोला

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/सिंगरौली) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के मुख्यालय में मंगलवार को 46वीं त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता सीएमडी भोला सिंह ने की। इस दौरान बैठक में बतौर मुख्य अतिथि उपमहानिदेशक खान सुरक्षा महानिदेशालय , गाजियाबाद एस डी? चिदरवार, डीएमएस वाराणसी डॉ एस एस प्रसाद, डीएमएस (इलेक्ट्रिकल) गाजियाबाद प्रकाश कुमार वर्मा, डीएमएस (मैकेनिकल) गाजियाबाद संदीप श्रीवास्तव, डीएमएस (माइनिंग) गाजियाबाद नयन सिन्हा, एनसीएल के निदेशक (कार्मिक) मनीष कुमार, निदेशक (वित्त) रजनीश नारायण, निदेशक (तकनीकी /संचालन) जितेंद्र मलिक, निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना) सुनील प्रसाद सिंह, डीजीएमएस कार्यालयों से अन्य प्रतिनिधिगण, जेसीसी सदस्य, सुरक्षा समिति के सदस्य, सीएमओएआई प्रतिनिधि, सभी क्षेत्रो के महाप्रबन्धक एवम् मुख्यालय के विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बतौर मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में उपमहानिदेशक खान सुरक्षा महानिदेशालय , गाजियाबाद एस डी चिद्दरवार ने हाल ही में कोयला मंत्रालय के स्टार रेटिंग पुरुस्कारों में एनसीएल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बधाई दी। उन्होनें डीजीएमएस द्वारा दिये गए निर्देशों में से अधिसंख्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एनसीएल प्रबंधन की सराहना की। साथ ही शून्य क्षति दक्षता प्राप्त करने के लिए टीम एनसीएल को प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। अपने उद्बोधन के अंत में उन्होनें एनसीएल को सुरक्षित तरीके से उत्पादन करते हुए सफलता के नए आयाम गढ़ने के लिए शुभकामनाएँ दी।

त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति को बतौर अध्यक्ष संबोधित करते हुए सीएमडी एनसीएल ने सुरक्षा को एक सतत प्रक्रिया बताया। उन्होने कहा कि एनसीएल कोल इंडिया की इकलौती कंपनी है जो उत्पादन, प्रेषण व अधिभार हटाव तीनों मानकों में में साल दर साल लगातार वृद्धि दर्ज़ कर रही है।

अखिल भारतीय कवि सम्मलेन संपन्न

अवधनामा संवाददाता

सोनभद्र/अनपरा।.भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जयंती के अवसर पर हिंडालको रेणुसागर स्थित पैराडाइज ऑडिटोरियम में आयोजित कवि सम्मलेन अपने श्रृंगार,हास्य व ओज की कविताओं से अपनी अमिट छाप छोड़ गया, कवि सम्मलेन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हिंडालको रेणुसागर पावर डिवीज़न के यूनिट हेड आर पी सिंह, शैलेश विक्रम सिंह व गुलशन तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर वीणावादिनी मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर , दीप प्रज्ज्वलन के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत वाराणसी से पधारी कोकिल कंठी कवियत्री विभा शुक्ला ने वीणावादिनी मां सरस्वती की बन्दना से किया तत्पश्चात एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इसी क्रम में अवधी के बेताज बादशाह फतेहपुर से पधारे समीर शुक्ला के हास्य व उनके द्वारा प्रस्तुत गीत ÷ हे मोरे भैया बच के रहना गिरगिट मिलिहै सतरंगा स्रोताओ द्वारा खूब सराहा गया। सिलीगुड़ी कोलकाता से पधारे हास्य व्यंगकार करन जैन तथा सारंगगढ़ से आये हास्यकार शशिभूषण सनेही की हास्य व्यंग कविताओं से श्रोता लोट पोट हो गए।

शहरों में धार्मिक स्थलों के पास न बनें ऊंची इमारतें: योगी

- शहर में हरित क्षेत्र हो सुरक्षितः मुख्यमंत्री
- अन्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर बनाने के निर्देश

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा-वृन्दावन के लिए तैयार हो रहे जीआईएस आधारित महायोजना-2031 का प्रजेंटेशन देखा। उन्होंने अवास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धार्मिक शहरों की पहचान वहां के मंदिरों और प्राचीन भवनों से है। प्रस्तावित महायोजना में ऐसे भवनों की प्राचीनता और ऐतिहासिकता का ख्याल रखा जाए और इस तरह के महत्व वाले भवनों की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई के भवनों के निर्माण की अनुमति न दी जाए। इसका प्रावधान महायोजना में अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने महायोजना में 15 से 16 प्रतिशत हरित क्षेत्र आरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने महायोजना में नगरों में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की व्यवस्था का प्रावधान करने के साथ ही परम्परागत ईंधन वाली बसों के परिचालन को शहर के बाहरी क्षेत्र में ही संचालित करने और मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मथुरा-वृन्दावन, गोरखपुर, वाराणसी के लिए मिले निवेश के प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए तीनों शहर की महायोजना में मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, कन्वेशन सेंटर आदि के लिए क्षेत्र चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं।

दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए में महायोजना स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (सेज) और इण्डस्ट्रियल क्षेत्र के समीप नई टाउनशिप के क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों में अन्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर बनाने को कहा है। उन्होंने विकास प्राधिकरणों को अपनी सीमा बढ़ाने के साथ ही शहरों के सुनियोजित विकास करने और आय बढ़ाने के नए स्रोत तलाशने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में गोरखपुर के साथ ही पूर्वांचल की अहम भूमिका है। इसलिए गोरखपुर को गेटवे सिटी के तौर पर विकसित करें। रामगढ़ ताल की जेट्टी काफी पुरानी है, इसलिए नई जेट्टी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक झीलों, जलाशयों को संरक्षित करने, लेक फ्रंट, रिवर फ्रंट एवं धार्मिक क्षेत्रों को विकसित करने, गोरखपुर के टेराकोटा (माटी कला) के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए भी महायोजना प्रावधान करने को कहा है। उन्होंने वाराणसी में रिंग रोड तक मास्टरप्लान का विस्तार करने और मथुरा-वृन्दावन में पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ0 बी0डी0 मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की।

लोक चौपाल में भजनों की बही रसधार

लखनऊ। लोक संस्कृति शोध संस्थान की ओर से मंगलवार को आयोजित लोक चौपाल में भजनों की रसधार बही। चौपाल में गुरुपुत्रों के बलिदान को भी नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वन्दना से हुई। वरिष्ठ लोक गायिका नीरा मिश्रा ने राम नाम अनमोल रे मनुवा, की प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बनाया। रश्मि उपाध्याय, मीतू मिश्रा, अर्चना गुप्ता, रेनू दुबे, रत्ना शुक्ला, निर्मला यादव, रेखा मिश्रा, अनुज श्रीवास्तव, रागिनी अग्रवाल, अलका चतुर्वेदी आदि ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाये। संस्थान की सचिव सुधा द्विवेदी ने गुरुपुत्रों के बलिदान को याद करते हुए वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत को सराहनीय कदम बताया। लोक भाषाओं की प्रभारी आभा शुक्ला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर आशीष कुमार गुप्त, जितेन्द्र पाण्डेय और विनय कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।

अलग-थलग पड़े स्वामी प्रसाद

अखिलेश के बाद बोलीं डिंपल, हमें उनकी बातों से मतलब नहीं

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण आएगा तो हम अयोध्या जाएंगे। अगर निमंत्रण नहीं आता है तो रामलला के दर्शन करने बाद में जाएंगे। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर जो भी बयान दे रहे हैं, वो उनके अपने विचार हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे पहले ही कह चुके हैं। सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के इन विचारों का समर्थन नहीं करती है। मालूम हो कि हाल ही में लखनऊ में महा ब्राह्मण समाज पंचायत का सम्मेलन हुआ था। इसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इसमें अखिलेश यादव के सामने स्वामी प्रसाद मौर्या के बयानों पर सवाल उठे थे। इस पर अखिलेश ने उनके बयानों को निजी बताते हुए उनसे पूरी तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। साथ ही इस बात का भी इशारा किया था कि नेता इस तरह के बयानों से बचें।

हर पात्र परिवार को राशन आसानी से मिलेः मुख्यमंत्री

राज्य सरकार ने ई-पॉस मशीन के साथ सही वजन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल को शामिल किया, इसे तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाए

- जब तक एक भी किसान का धान क्रय शेष रहेगा, क्रय केंद्र चलते रहेंगे
- खरीद के 48 घंटे में कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित कराया जाए

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न खरीद और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में इस सत्र में अब तक 4,21,557 किसानों से 28.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 5,253 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में प्रदेश में 5,204 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 01 लाख मीट्रिक टन से अधिक दैनिक धान की खरीद हो रही है। राज्य सरकार ने अन्नदाता किसानों के हित में तय किया है कि जब तक एक भी किसान का धान क्रय शेष रहेगा, क्रय केंद्र चलते रहेंगे। प्रत्येक दशा में खरीद के 48 घंटे में कृषक को भुगतान होना सुनिश्चित कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह सन्तोषजनक है कि क्रय लक्ष्य के सापेक्ष आवश्यक 1.88 लाख गांठ बोरे के सापेक्ष 2.06 लाख गांठ बोरे उपलब्ध हैं। बोरे की कमी कहीं न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। धान क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा व आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रदेश में हर पात्र परिवार को राशन आसानी से और पूरी पारदर्शिता के साथ उपलब्ध हो, इस दिशा में किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। राज्य सरकार ने ई-पॉस मशीन के साथ सही वजन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक वेईंग स्केल को शामिल किया है। इसे तत्काल प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन करने के उपरान्त तत्काल राशन वितरित कर दिया जाना चाहिए। इस बारे में लाभार्थियों को भी जागरूक करें। यदि कहीं कोटेदार अथवा अन्य किसी कार्मिक द्वारा गड़बड़ी की जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक जनपद में 75 दुकानों को अन्नपूर्णा भवन (मॉडल उचित दर दुकान) के रूप में तैयार किया जाना है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्माण हेतु कुल 5,654 अन्नपूर्णा भवन होंगे। यह संतोषप्रद है कि अब तक 3,472 मॉडल उचित दर दुकानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और 527 मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण पूर्ण हो गया है। अवशेष कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी को और बेहतर करते हुए सरकार ने गोदाम से सीधे कोटेदार तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसे सुचारू रूप से जारी रखा जाए। प्रदेश के समस्त विकास खण्डों के लिए दुकानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार रूट चार्ट तैयार किया जाए एवं छोटे तथा बड़े वाहनों की वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर आवश्यक व्यवस्था करायी जाए।

प्रदेश के कई जिलों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी

- मौसम विभाग ने बारिश को लेकर की भविष्यवाणी

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार को घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में तो दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह में ही प्रदेश में बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं।

आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, 23 दिसंबर की सुबह से ही प्रदेश के कई इलाकों में घने से अत्यधिक कोहरे का दौर शुरू हो गया था। इसके बाद से इसमें लगातार वृद्धि जारी है। मंगलवार को भी कानपुर, आगरा, व प्रयागराज में दृश्यता शून्य रही। वाराणसी में महज 10 मीटर, जबकि फुर्सतगंज, उरई, शाहजहांपुर व फतेहगढ़ में 20 मीटर रही। झांसी में 40 मीटर तक पहुंची दृश्यता। लखनऊ हरदोई, अलीगढ़, हमीरपुर में भी घना कोहरा रहा, यहां दृश्यता 50 मीटर रही। मेरठ, बांदा, बाराबंकी, इटावा, बरेली और बलिया में 100 से 200 के बीच दृश्यता दर्ज की गई।

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक, आगामी दो से तीन दिनों के दौरान तापमान में आंशिक गिरावट आएगी, सुबह के समय घने व अत्यधिक घने कोहरे का दौर आगे भी जारी रहेगा। कहीं-कहीं दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो जाने के आसार हैं। दिन चढ़ने के साथ ही इसमें सुधार आएगा। फिर फुरवा के प्रभआव से तापमान में गिरावट थमेगी और कोहरा और बढ़ेगा। जनवरी में दक्षिण उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।

27 से 30 तक ऑरेंज व येलो अलर्ट वाले इलाके

अमरोहा, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बांदा, बरेली, बिजनौर, चित्रकूट, फतेहपुर, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, कौशांबी, लखीमपुरखीरी, महोबा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, संत रविदास नगर, सहारनपुर, शामली, वाराणसी, अलीगढ़, अंबेडकरनगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, बदायूं, बलरामपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, इटावा, फरुखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गोंडा, हापुड़, हरदोई, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुरनगर, कासगंज, लखनऊ, रायबरेली, संभल, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव। बहराइच, बरेली, बिजनौर, लखीमपुरखीरी, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सुल्तानपुर समेत प्रदेश के कई और इलाके।

विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को लाइव संवाद के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। मोदीकी गारन्टी को लेकर प्रदेश में चल रहे 558 विकसित भारत संकल्प रथों पर सीधे प्रसारण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जनसंवाद करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में मोदी के लाइव प्रसारण से जुड़ेंगें। जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में प्रधानमंत्री के सीधे प्रसारण से जुडेगें।

प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने बताया कि प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, सभी विधायक व सांसद, 485 से अधिक नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, 600 से अधिक ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि स्थानीय नागरिकों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में चल रहे रथों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के वर्चुअल उद्बोधन को सुनेंगे।

दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने पूर्व मुख्य सचिव को पीएचडी की उपाधि से किया सम्मानित

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव और 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और आईआईटी कानपुर और ससेक्स यूनिवर्सिटी यूके के पूर्व छात्र डॉ. राजेंद्र कुमार तिवारी को आज डॉ. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। उनके शोध का विषय था ''उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली का एक अध्ययन।'' यह अध्ययन 1090 से अधिक सेवा प्राप्तकर्ता और 747 सेवा प्रदानकर्ता अधिकारियों के एक बड़े सर्वेक्षण पर आधारित है। अध्ययन ने सेवा वितरण की प्रभावशीलता और इस प्रक्रिया में प्राप्त समग्र सार्वजनिक संतुष्टि को मापने के लिए एक नया मॉडल सामने लाया है। यह शोध डॉ. एमके झा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट की देखरेख में किया गया है। डॉ. तिवारी के पास राज्य सरकार और भारत सरकार के अधीन मुख्य सचिव यूपी, एपीसी, अपर मुख्य सचिव, कमिश्नर और कई जिलों के डीएम समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का 37 साल से अधिक का लंबा अनुभव है। उन्हें कई पुरस्कारों और प्रशंसाओं से सम्मानित किया गया है और उन्होंने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करने, जीएसटी के कार्यान्वयन, स्वच्छ भारत मिशन, श्रम सुधार और कोविड के प्रभावी प्रबंधन की कई पहल की हैं। वह वर्तमान में कई हितधारकों के सहयोग से राजस्थान के जोधपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान की स्थापना में शामिल हैं। उनका मानना है कि जीवन सीखने की एक सतत और कभी न खत्म होने वाली यात्रा है और यह समाज, देश और दुनिया द्वारा उन्हें दिए गए महान अवसर और सम्मान का ऋण चुकाने का समय है। वह अपने गाइड, उत्तर प्रदेश राज्य और सरकार, उसके लोगों और अधिकारियों तथा अपने परिवार के सदस्यों के उस सहयोग के लिए आभारी हैं, जिसने उन्हें अपना शोध कार्य शुरू करने और पूरा करने में सक्षम बनाया।

सालाना उर्स 27, 28 दिसम्बर को होगा सम्पन्न

लखनऊ। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 27, 28 दिसम्बर 2023 बरोज़ बुध व जुमेरात मुताबिक 13, 14 जमादिउल आख़िर 1445 हिजरी बमकाम जामा मस्जिद शाही टीला शाह पीर मोहम्मद साहब रह0 (टीले वाली मस्जिद) लखनऊ में किदवतुल सालिकीन व जुबदतुल आरिफीन हज़रत शाह पीर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का तीन सौ अट्ठावनवां (358वां) सालाना उर्स जेरे एहतमाम हज़त मौलाना अल्हाज सैय्यद शाह वारिस हसन मेमोरियल सोसायटी (रजिस्टर्ड) सम्पन्न होगा। हजरत शाह पीर मोहम्मद साहब रह0 की जीवनी पर शाही इमाम व खतीब मुतवल्ली व सज्जादानशीन हज़रत मौलाना कारी सैय्यद शाह फजलुल मन्नान रहमानी साहब तफ्सील से रोशनी डालेंगे। 27 दिसम्बर बरोज़ बुध तमाम दिन कुरान स्वानी, बाद नमाज़ अस्र गुस्ल व गुल पोशी, बाद नमाज़ मग़रिब कुल, बाद नमाज़ इशा महफिले समा। 28 दिसम्बर बरोज जुमेरात तमाम दिन कुरान ख्वानी, बाद नमाज़ मग़रिब कुल व तकसीम लंगर, बाद नमाज इशा महफिले समा। ये सूचना नायब शाही इमाम नायब मुतवल्ली व नायब सज्जादानशीन कारी सैय्यद इम्तियाज हसन ने दी है।

लखनऊ मेट्रो में 93237 पैसेंजर ने की यात्रा

लखनऊ। लखनऊ की जनता ने सोमवार को क्रिसमस के मौके पर मेट्रो को बड़ा तोहफा दिया। सोमवार को लखनऊ मेट्रो में 93237 पैसेंजर ने यात्रा की। जोकि अभी तक की सबसे बड़ी यात्री संख्या औश्र रिकॉर्ड है। इससे पूर्व राजधानी में चलने वाली मेट्रो में 15 अक्टूबर 2022 को 91873 यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया था। यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या में मेट्रो में सफर करने पर मेट्रो के एमडी सुशील कुमार ने हर्ष व्यक्त करते हुए यात्रियों को बधाई

शोभन चौधुरी ने की कार्य प्रगति की समीक्षा

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधुरी ने उत्तर रेलवे के विभागाध्यक्षों और मण्डल रेल प्रबंधकों के साथ उत्तर रेलवे की कार्य प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोहरे के मौसम के मद्देनजर रेलपथों पर संरक्षा, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिटों और माल लदान पर ध्यान केन्द्रित किया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे के लिए संरक्षा सर्वोपरि है। महाप्रबंधक ने रेलपथों, वैल्डों के अनुरक्षण मानकों को बेहतर बनाने और रेल पटरियों के निकट स्क्रैप को हटाने के लिए जोन में किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कोहरे के मौसम के दौरान संरक्षा बढ़ाने के लिए और जहां आवश्यक है वहां कर्मचारियों को परामर्श देने के लिए

मंडलों को अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटरियों में दरारों और वैलें की निगरानी व्यापक रूप से की जानी चाहिए और कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने रेलगाडियों के निर्बाध परिचालन के लिए रेलपथों और रिले व पैनल रूमों में संरक्षा बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने रेल परिचालन में मानवीय त्रुटियों को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने विभागाध्यक्षों और मंडल रेल प्रबंधकों को समयपालनबद्धता को बनाए रखने और संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मालभाड़ा लदान की रफ्तार बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने रेलवे की तरफ से दी जा रही रियायतों और उपायों को ग्राहकों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि हर गुजरते माह के साथ खाद्यान्न और अन्य मदों के लदान में वृद्धि हुई है।

पूर्व राज्यपाल ने जताया शोक

- उत्तर प्रदेश के राजभवन में विवेकानंद प्रतिमा बनाने वाले शिल्पी उत्तम पाचारणे का निधन

अवधनामा ब्यूरो



लखनऊ। ललित कला अकादमी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व जानेमाने शिल्पी उत्तम पाचारणे के आकस्मिक निधन पर पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने शोक जताया। मृत्यू समय उत्तम 67 वर्ष के थे।

दलित समाज में जन्मे उत्तम मुंबई के जे.जे.स्कूल ऑफ़ आर्ट्स के स्वर्णपद विजेता स्नातक थे। उन्होंने अपने शुरूआती दिनों में पूर्व राज्यपाल राम नाईक जब विधायक थे तब 1986 में उनके क्षेत्र बोरीवली में स्वामी विवेकानंद की सुंदर पूर्णाकृति बनायी थी। स्वाभाविक था कि जब उत्तर प्रदेश के राजभवन में वर्ष 2019 में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय हुआ तो उत्तम पाचारणे को न्यौता गया। उन्होंने बनायी यह प्रतिमा अब राजभवन की गरिमा बढाती है। डॉ. भीम राव आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहु महाराज आदि महापुरुषों की उत्तम ने बनायी प्रतिमाएं पूरे देश में जगह ङ्क जगह है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी उनके द्वारा निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। उत्तम पाचारणे द्वारा बनाए लखनऊ के मध्य कमानस्थित परमवीर चक्रप्राप्त हुतात्माओं के भित्तिचित्र विशेष माने जाते है। गोरखपुर में भी पाचारणे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा बनायी है। मुंबई के बॉम्बे आर्ट सोसायटी के कई वर्ष अध्यक्ष रहे पाचारणे वर्ष 2018 से चार वर्षों तक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में ललित कला अकादमी ने नए सीरे से कई योजनाओं की शुरुआत की। श्री उत्तम के दुःखद निधन से मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। हमने बड़े हुनर का मूर्तिकार खो दिया है इन शब्दों में पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने पाचारणे को श्रद्धांजलि दी है तथा पाचारणे के परिवारजनों को सांत्वना दी है। पाचारणे के पश्चात् पत्नी श्रीमती ज्योति, एक कन्या, एक पुत्र व परिवार है।

कुछ बातों का रखेंगे ध्यान तो बोर्ड परीक्षा रहेगी आसानः मयंक त्रिवेदी

शिक्षा जगत की युवा पीढ़ी में विश्वसनीय स्थान रखने वाले लोकप्रिय तथा दक्ष अध्यापक मयंक त्रिवेदी ने साझा किए परीक्षा देने के गुरु मंत्र

अवधनामा ब्यूरो

लखनऊ। वैसे तो मयंक त्रिवेदी जी एक अकैडमिशियन है साथ ही मैथमेटिक्स के प्रसिद्ध अध्यापक है, साइंस सब्जेक्ट्स पर भी उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। वह हमेशा अपना ज्ञान अपने छात्रों में बटते रहते हैं

एक कुशल मैथमेटिक्स के शिक्षक मयंक त्रिवेदी बताते हैं कि बच्चे परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें और मैथमेटिक्स में बच्चों को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। बोर्ड में आए हुए प्रश्न पत्र को पहले गंभीरता पूर्वक पढ़ें समझ ले। फिर उसके बाद उसके उत्तर के लिए तैयार रहे। सामान्यता प्रश्न उसी क्रम में पूछे जाते हैं जिस क्रम में सब्जेक्ट में दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों को बहुत मदद मिलती है। प्रश्नों को ढूंढना नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त मयंक जी ने बताया की परीक्षा चाहे सीबीएसई की हो अथवा आईसीएसई की, 10th की हो या 12th की , इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि परीक्षा देने से पहले अपनी तैयारी में सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह रिवाइज करना है। हर चैप्टर पर बल देना बहुत इंपोर्टेंट है और सारे प्रश्न को परीक्षा से पहले स्वयं लगाना आवश्यक है। यदि कोई कठिनाई हो तो संबंधित शिक्षक से डाउट्स क्लियर करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें की परीक्षा में प्रश्न उनको निर्धारित समय

में पूरा करना है और दिए हुए उत्तरों को गंभीरता पूर्वक रिवाइज करना है। जिसके लिए 20 से 30 मिनट अपने पास सुरक्षित रखें इस तरह उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा।

बताते चलें कि मयंक त्रिवेदी आईसीएसई बोर्ड के टॉपर और सीएमएस के छात्र आर्यन तारिक के टीचर भी रहे हैं। उनकी शिक्षा में भी इनका अमूल योगदान है। इन्हें मयंक सर के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने इस वर्ष 12th की परीक्षा में 99.75 प्रतिशत मार्क्स लाकर बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अरयान तारिक ने अपने दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि उनके लगन कठिन परिश्रम और स्कूल के योगदान, टीचर सभी सब्जेक्ट्स में परिश्रम करते थे, उसी का रिजल्ट है कि उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मयंक त्रिवेदी ने छात्रों को सुझाव दिया कि विगत 10 साल के प्रश्न पत्रों को गंभीरता पूर्वक सॉल्व करें। सभी सब्जेक्ट का ध्यान रखें कोई भी ट्रिक आमतौर पर नहीं काम आती सिर्फ परिश्रम ही एक मात्र रास्ता है। उन्होंने कहा की बोर्ड्स की वेबसाइट पर सारे फॉर्मेट अवेलेबल है, जिसमें क्वेश्चन सीरीज सब्जेक्ट वाइज उपलब्ध है। छात्र इसका लाभ ले और दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप अपनी तैयारी रखें।

मयंक त्रिवेदी जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया क्या हुआ कि स्कूल प्लस प्रिपरेशन प्रोग्राम के तहत के स्टूडेंट्स के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाना प्रस्तावित है। जिससे बच्चों पर तनाव कम रहेगा। और स्कूल ट्यूशन कोचिंग और घर की स्टडीज का एक ऐसा स्वरूप होगा जिससे बच्चे बिना किसी दबाव के अथवा बिना समय नष्ट किये अच्छी तरह परीक्षा दे सकेंगे।

इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने बताया कि 12th क्लास की तैयारी इस तरह करें कि उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो और सभी सब्जेक्ट्स पर अच्छी अथॉरिटी रहे। केवल मार्क्स के लिए न पढ़ें, बल्कि इस तरह तैयारी करें की अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सब्जेक्ट पर तैयारी हो। ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित हो। उसी के अनुसार तैयारी करें और लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे।